



तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY

391.8

A 71 (K)

53478

खड़िया अलॉग

A KHARIA SONG BOOK

WITH A PREFACE

By

W. G. ARCHER

कबलीबकड़

इन्जु० जो० आर्चर, आई० सी० एस०

जतरू खड़िया

दाऊद डुंगडुंग

ग्रोडो:

मनमसीह टेटेदोहोंय

ओजओजकड़

जतरू खड़िया

छापाकड़

काथलिक छापाखाना

राँची

१९४२

TO

BHUPATI BHUSHAN AND AMALA MUKHERJI

PREFACE

The present collection, of which a small forerunner appeared in 1941, is a first attempt to record the oral poetry of the Kharias and preserve it in book form. As such, it may be called the first Kharia book, for it prints for the first time in Kharia language a subject-matter which is essentially Kharia in origin and outlook.

There are two services which such a book may render. At the present time, the Kharias are drifting towards that 'loss of nerve' which Mr. Verrier Elwin has diagnosed as the malady of many tribes in India. They have not as yet reached the final despairing state of the Bhuiyas and their cohesion as a tribe may yet avert this worst of all possible evils. But if the malady is to be averted, it can only be by a new accession of tribal pride, a new perception that, in its main essentials, the Kharia way of life is the best way of life for the Kharias. For this purpose, the printing of the tribal songs is by no means irrelevant for it demonstrates to the tribe that their poetry has a general and public value. It publicly asserts the importance of Kharia poetry, and it shows that if certain Kharias can collaborate in a book and thus proclaim an enthusiasm for their way of life, there is no reason why others should not share their interest or recover their zest.

But there is a further way in which the book may help the tribe to keep or regain its poise. By printing the poetry in Kharia, it has given a temporary stability to the tribe's language, a current definition of what the Kharia language is. This, for the moment, may seem a small matter, but to a tribe the importance of its own

language cannot be exaggerated. It is from the tribe's reaction to its world that a tribal language springs. It transmits the tribe's traditions and forms a fundamental part of its way of life. To weaken this language is to weaken the tribe and, conversely, to strengthen its language is to stimulate the tribe. If this book helps to invigorate spoken Kharia and also to stem its decline into ganwari, it will to that extent have aided the Kharias to remain themselves.

Acknowledgments.—Of the songs collected, the greater number were recorded for me during 1940 and 1941 by Babu Manmasih Tetetohran and Babu Daud Dungdung, both of Simdega village, and by Babu Jatru Kharia of village Tarloya, police station Raidih. These songs were supplemented by collections made during the same period in Gumla, Raidih and Palkot thanas by the Kharias whose names are given in the appendix. The work of collection was throughout marked by great enthusiasm and in kindling it, Mr. R. H. Lines, I.C.S., Rai Sahib S. K. Aikath, Mr. Munilal Singh, Babu Gopal Mahton and Babu Bishram Trofimus Toppo played important parts. The task of collating the songs and preparing the manuscript for the press was done by Babu Jatru Kharia under my general supervision, while in the last and crucially important stage of seeing the book through the press, the Rev. H. Jacquemotte S.J. and Brother Raphael Indwar gave invaluable help. To this fusion of efforts, the book owes its present form.

W. G. ARCHER

सूचीपत्र

जेरिब पाङ्	..	१—	३५
फागुन पाङ्	..	३६—	१०६
हलका पाङ्	..	११०—	१६७
फगुन पाङ्	..	१६८—	२१७
माःघ्रेल लेरंग आः पाङ्	..	२१८—	२८४
कसा सींगाः	..	२८५—	३६७
असारी पाङ् ✓	..	३६८—	४६६
करम (कुआरी) पाङ्	..	४७०—	५०४
कुवारी पाङ्	..	५०५—	५५६
करम अलौंग	..	५५७—	६७०
करम लहसुवा	..	६७१—	६६७
जबुरा अलौंग	..	६६८—	७७६
वेशावैल	..	७८०—	८१४
कसासिंग कुःढिंग			
लहसुवा	..	८१५—	८६०
कसा कुःढींग	..	८६१—	८८४
ठोयोल	..	८८५—	९०३
कुआरी जतरा			
लहसुवा	..	९०४—	९५७
ठडीआ	..	९५८—	९९३
बिहा अलौंग	..	९९४—	१०३३
दुरंग	..	१०३४—	१५२८
बुभौवल	..	१—	४४६



जेरिब पाडू

१

- १ बेरा: बोंगतेल ते गोड्भूँग ते छेकायोओः की ।
हारे दाईया रोमोड् डाअः गूरना लाअः सिईः ॥२॥
- २ राजा: बोंगतेल ते गोड्भूँग ते छेकायोओः की ।
हारे दाईया रोमोड् डाअः गूरना लाअः सिईः ॥२॥

२

- १ एला: परिया ते बाबू ।
बोंगतेल लेखे ओंएज् गामोः ॥२॥
- २ अम्पा: परिया ते बाबू ।
कोलेएः लेखे टोंएज् गामोः ॥२॥

३

- १ सम्पडेना रे राजा बेचु सींघ ।
लीला घोड़ा एनेम युँड्तेम ॥२॥
- २ भाँवर पहार जोंगोड् गोड्की ।
लीला घोड़ा एनेम युँड्तेम ॥२॥

४

- १ जोगी रे जोगी
जोगीयअः डेरा तेनतोन सुम्बोः ते ॥२॥
- २ तुम्बा: डाअः ऊठोब रे जोगी
जोगीयअः डेरा तेनतोन सुम्बोः ते ॥२॥

५

- १ बेडो को मुऊःसिंग ताएज्
काँसा गाः नगेरा सोधोम ताएज् ॥२॥
- २ सेले जोहारे कौड़ी बिजला
काँसा गाः नगेरा सोधोम ताएज् ॥२॥

(४)

६

- १ अखड़ा को कुहड़ कूटा:
तोबलुंग ते धूड़ी लेंग गा चोलता ।
- २ लेरेए: कोनघेर एबोओता
तोबलुंग ते धूड़ी लेंग गा चोलता ।

७

- १ आपा जोई आपागाअ: राईज
ईज को ऊमिज चोना आपा जोई बांगसिंग राईज ।
- २ बांगसिंग राईज आपा ऊम कोंगना ऊम छन्देना
ईज को ऊमिग चोना आपा जोई बांगसिंग राईज ।

८

- १ बेर आरे की दिरोम बोओ:
राजी ते तारो: ।
- २ कुंआर साहेब आरे की
दिरोम बोओ: राजी ते तारो: ।
- ३ हेले गोडना राजा
मोओ:भी तोओ: ते डाका गोडे ।

९

- १ बेर भाईया डुरगु:ड गुंडरी बुयोओ:
गुंडरी लोसरेगा चोलता ।
- २ बाबु भाईया गुंडरी बुयोओ:
गुंडरी लोसरेगा चोलता ।

१०

- १ बरिया भाई ला हांथी तोबलुंग ताय
गोली मेलायोओकी ।
डाअ: भी:तर ते पेरेवां, हांथी तोबलुंग
ताय गोली मेलायोओकी ।

- २ आना राजा कोले: कोन्थेड तारना
भी:तर दिलकेता ओन्डोरे ।
रेमाखोओ: हीरा राजा गोएज् गोड्की
दिलकेता भी:तर ते कोन्थेड तोरोओ:ता ।

११

- १ गुचु एबोओ: नापे कोनघेर जरा: डांड ते ॥
२ मोओभी डांड ते जूहा एबोओ:ताकी
गुचु एबोओ: नापे कोनघेर जरा: डांड ते ॥

१२

- १ कोनोन भेरे अरब डुऊ: कीम् मनी साय राजा,
मराठा लडाई इघय रोओ: चोनाम ॥२॥
२ माँ आपा बोंग टुवर कीम् मनी साय राजा,
मराठा लडाई इघय रोओ: चोनम् ॥२॥

१३

- १ आतु चोनम बाबु जोई
खिरोम ओमपाय भोरे सिई: ।
२ एंगनम आबु चोनम बाबु
खिरोम ओमपाय रोओ:नो भोरे सिई: ।
३ हाय रे इघय पारोनम बाबु
खिरोम ओमपाय रोओ:नो भोरे सिई: ।

१४

- १ बेरा: पलकी माँ
दिरोम बोओ: चोलता, माँ दिरोम बोओ: चोलता ।
२ राजा: पलकी माँ
दिरोम दिरोम बोओ: चोलता, माँ दिरोम दिरोम बोओ:
चोलता ॥

१५

- १ बोरोल आवना जेऊ
लडा लडा एबोओ: ना नँग, संगो भूमारी,
धक धकी जियोम ना नँग गेबता साँगो भूमारी ।

- २ खोड़ीआः तिमसोंग किनिरअः सोंगोल साँगो भूमारी,
धूक धुकी जियोम ना नँग गेबता साँगो भूमारी ।
३ लोओःखाः चूकाः सोओःतो बेलोम, साँगो भूमारी,
धूक धुकी जियोम ना नँग गेबता साँगो भूमारी ।

१६

- १ बेर भाईया सोंग डाअः ऊडते
हजारो गुदनु ते तरते ।
२ बाबु भाईया सोंग डाअः ऊडते
हजारो गुदनु ते तरते ।

१७

- १ आडेल डाअः गर गरायता
भाई नोमते आतु उलाय डोठोब ।
२ चैत लेरांग गर गरायता
भाई नोमते आतु उलाय डोठोब ।

१८

- १ भिमीर भिमीर खाडु चोलता
मोने मोन अबनाम लोदो मोहतो ।
२ सावन भदो खाडु चोलता
मोने मोन अबनाम लोदो मोहतो ।

१९

- १ गुगुं ते जताने बोई जोई
लोओःढो बरखा नो डेना ।
२ कुआर कातिक ते बरखा डेना
गुगुं ते जताने बोई जोई ॥

२०

- १ एनमाअः को गुडलु समय
गुंजरे गुंजरे ऊडेम माधो ।
२ सावन भादो ऊपजाय
गुंजरे गुंजरे ऊडेम माधो ॥

२१

- १ घोल ऊबर जोड़ा गामोब तुरिया
बेटी नोम कान्डाय बोओः जोमकी ।
- २ बेटी भोले नो लरिका बेटी नोम
कान्डाय बोओ जोमकी ॥

२२

- १ आतु चोनाम लेरेएः कोनघेर
ओमपाय भोरे गोड्सिईः ।
- २ सामुराईर चोनाम लेरेएः कोनघेर
कोइलो ओमपाय भोरे गोड्सिईः ।

२३

- १ होजेः हेके भगीना
हिलो डोलो बोकोब केःएता ।
- २ ऊबर तिईः ते कोनसेल की
हिलो डोलो बोकोब केःएता ।

२४

ईयँअः बोकेर नाईगं को
ईजं ते बाअःठी जो ऊम गामते ।
नानडोम तेको बिहाना को बिहायोएज्
ईज तेको बाअःठी जो ऊम गामते ॥

२५

ई ठंका ठोड़े बेटी रूजुड्
भोरोम लेरेएः भेरे,
मोओभी मयोंग ते बेटी नूनू हिलेता ।
ई ठंका ठोड़े बेटी रूजुड्
भोरोम लेरेएः भेरे ॥

२६

इना बेटी जोरोब जोरोब तम्
ईयँअः कायोम ओन्डोर डोड़े रो चोनाम् ।

(८)

ईयँअः कायोम बेटी राजी टपाय सिईः
ईयँअः कायोम ओन्डोर डोड़े रो चोनाम् ॥

२७

बेराः सोलोः कतोर बाड़ी चोलता २
राजाः सोलोः कतोर बाड़ी चोलता
बेराः सोलोः कतोर बाड़ी चोलता ।

२८

डांड राईज् आः कौआः किनीर
ते बोरोल योंःना डेलकी गगोंयअः
मलाः बोंग ।

२९

आलू बीरू ते राजा
मोओःभी तोगाः लोओःदो डाकायोओः की ।
मोओःभी तोओः ते राजा
मोओःभी तोगाः लोओःदो राजा
डकायोओः की ॥

३०

घोरना मुम्बोओः मुम्बोओः ते,
जोकोर को राआः-राआः की ।
मोओःभी तोओः ते कोडिल की,
जोकोर को राआः-राआः गोओड की ।

३१

ऊबर धारो सोनोराःगा तरावरी राजा,
बाकेन कोड़रू ते तारोब ।
चँवरा ला कोड़रू अमाः बोकोब तेगा
पूर ते तारोः ।

३२

बेरोड्ना से हरमजदी,
पागोंडाः कुन्डूः इयमता ।

(६)

३३

मुरकुन्डा: सिलो:ता कोनघेर
बोंगतेल तोनोंग गुर गोङ्की ।
भीमिर भिटा डाअ: गिमते
बोंगतेल तोनोंग गुर गोङ्की ।

३४

आमते किमिन जूंगतींग
गुड्लूआ: डुबु
बोनेता नो ऊम्बो: ॥

३५

एला: भुन्डूवाआ: राजा
अमाआ: पुर गा जेरी-ब गोओ-ड की ।
भुन्डु पुर
अमाआ पुर गा जेरी-ब गोओ-ड की ॥

फागुन पाडः

३६

कोनोन भेरे बिहा कींग गीताअः ना
को गियाल रोअः लाअःता ।२।
गीताः ना को गीताअः कींग गोरेज मेयाअः
गियाल रोअ लाअता ।
भोरोम भेरे बिहा कींग,
गीताःअना को लेरेअ रोःलाअता ।

३७

टुनटी बिरु ते इ कोनथेड तोरोःता
कोको पाको कुहू ते गा लामते ।
कीःते डीसाः ते टुनटी बीरु आईज
कोको पाको कुहू ते गा लाम ते ॥

३८

इंगते बोई बैज कीम ला, तेरे तिगाः
मुःधी मुन्देरा बैना ।
आमते बोई तीः उम मेलाइंग
तेरे तिगाः मुःधी मुन्देरा बैना ।

३९

हारे हारे डिडा दादा सोरी सांगों दादा मेलाय
रोः दुयोब ।
इंज दादा ढुकू चोनइंग सोरी सांगों दादा मेलायरोः
दुयोब ।

४०

कोनोन गा कीमीन कोनोनडुः ओइंग बार लोरेंग
योता ।
गोरेज मेयाः कीमीन की ओइंग बार
को बोई लोरेंग बोः योता ।

(१४)

४१

आता कोचा ते आईज डेम राजा,
रानी नोम राजा लोडोगा चोलता ॥
भीःतर मोहोल ते आइज डेम राजा रानी
नोम राजा लोडोगा चोलता ।

४२

बीर २ बुली ताम कोनघेर ला जराः
ओलेम रोःनो बुयेम
लुवा जराः योंगेम लाअ,
आमाः लैज नोम लोरेंग बोः लाःना ।

४३

कुडा भरिया ते कोनसेल कानबेड़ी
नोम गुर गोडकी ।
आता कोनघेर बुंग आवकीकीम
कोन सेल कानबेड़ी नोम गुर गोडकी ।

४४

दादा ला दादा नो दादा कोड़ीयाः धोती
पभररा ते मेलाय रोः टुयोब ।
कोड़ीयाः धोती समय भेइर गा
गुरना तेरे भया समय जो चोलकी ।

४५

आतु रोः चोलकीम राजा घोड़ा ते राजा
मेलाय रोः टुयोब ।
चाईबासा चोलकीम राजा
घोड़ा नोम ते राजा मेलाय रोः टुयोब ।

४६

तुरी ला बोयो कोन्डेंगाः छाता ला
बैकाय गोडेम ।

(१५)

कोन्डेंगा: छाता ला डा: बानचाय
कोन्डेंगा: छाता बैयकाय गोडेम ।

४७

बेरा: बेटडोमला साबा राना यीमी
कीन्दरे कीन्दरे मान्दड़ी बजैते ।
राजा: बेटडोमला साबा राना यीमी
कीन्दरे कीन्दरे मान्दड़ी बजैते ।

४८

आतु ताय डेलकीम कौवा: बेलेड्‌नोम
को कौवा: श्रोगुर टुयोब ।
मुनु:सींग ताय डेलकीम कौवा:
मुन्दर बेलेड्‌ नोमते उबगुर टुयोब ।

४९

पांचो भाई की पांचो परगन ते राइज
नोमपे ते आ:पे हिलेना तेरे ।
आनींगा: राजी ला आनींगा: जिमागा
आनींगा: राइज ला आ:पे हिलेना तेरे ।

५०

सीकी सीकी ला सीकी ला कोनथेड
गाम गोडेम ला कोनोथेडा: गीनींग ।
कोनोथेडा: गीनींग मुइंज कोचीया
गाम गोडेम ला कोनोथेडा: गीनींग ।

५१

की:ते रो: बोई भाला फुला नाम दीरोम दीरोम
बोई समय नोम चोलता ।
डिन्डा भेईर गा भाला फुला नाम दीरोम
दीरोम कोनसेल दीनो नोम चोलता ।

(१६)

५२

भोरुम कोनसेल ते आबु
गीलेम बोयो लेरे:ना तेरे ।
आखीर को बोयो आमा: लेबुगा
आबु गीलेम बोयो लेरे:ना तेरे ।

५३

लुवा पो:दा जोगोंर भांडा जोगोंर भांडा
नोमपे लुसुई डोम गोडकी ।
कोनसेल होय कीम लुवा पो:दा
कोनघेर होयकी जोंगोर भांडा नोमपेते लुसी गोठो: माय ।

५४

बीरु मुम्बो: ते रो नो माँ जोई
बीरु यो के गेनू जो उमला:ता ।
इंग को माँ जोई उमींग आवना
बीरु योता लेमेड जो उम ला:ता ।

५५

आतुवा: महरा कोनसेल
खोड़ी खोड़ी बुली खोरता ।
दही रो तोम लेंग धो:के
खोड़ी खोड़ी बुली खोरता ।

५६

मुनु:सींग ताय डेलकीम बेड़ो
योलो:सींग ते योलो: गोडकीम ।
इना बेड़ो योलो: कीम
दुनिया ते येंबलुंग टुयोब ।

५७

आतु वा: बेतुड कोनसेल
फभरा ते लवा केजना चोलकी ।

(१७)

गीयाल जो उम लाःकी कोनसेल ते
लुवा केजना चोलकीम ।

५८

आतु ताय डेलकीम कोलेः
आम को कोलेः इ गा रोः लामतेम ।
लुवा दाह ते लुवा बेलोंग सीःहीनते
कोलेः चोनाम लाः लुवा जाराः योंगेम रो अवनाम ।

५९

आता कोनसेल आः कोंडूः डोम
तबकार दाह बोःते गुर गोडकी ।
लेरेः कोनसेलः कोंडूः डोम
तबकार दाह बोःते गुर गोडकी ।

६०

कीःते रोः बोयो मोन मोन ते रोडेम
इंग को बोयो आमाः तेगा आवनाइंग ।
घोल मेमोन ते बोयो रोडेम इंग को
बोयो आमाः तेगा आवनाइंग ।

६१

बेरला बोयो होरी एबोःता
फागुन ते धुड़ी बेरोड गा चोलता ।
माहा कोनधेर होरी एबोःता
तोबलुंगते धुड़ी लेङ्ग गा चोलता ।

६२

आता बीह ते लुवा बेलोंगता
आना से कोनसेल लुवा रोः योंःना ।
सीरलोंगा बीह ते लुवा बेलोंगसीः,
आना से कोनसेल लुवा रोः योंःना ।

६३

हाथी सोझोब ला कुंवार साहेब हाथी
तोबलुंगते ला:धे डोम गोडकीम ।
भोले ज्रींमी डोमकीम कुंवार साहेब
हाथी तोबलुंगते ला:धे डोमकीम ।

६४

आतु रो: चोलताम दादा इंग को दादा
आम बुंग गा चोनाइंग ।
बीरु बुलीना चोलताम नो दादा
इंग को दादा आम बुंगा चोनाइंग ।

६५

कोंडू: ते पांगोडे गाम तींग ला:
इंग को कुज्ना चोलताइंग ।
आमा: लेरे: कोनसेल कोंडू:ते
मेलाय के लेरे:ना चोलताम ।

६६

आता भया घोड़ा सोगों:
घोड़ा या: फुदना गुर गोडकी ।
बाबु भया घोड़ा सोगों:
घोड़ा या: फुदना गुर गोडकी ।

६७

आमते को बोई गीयाल जो उम ला:ता
माँयोंग नोम ते हीलेगा चोलताम ।
माँयोंग नोमते डालेम कोनसेल
नुनु नोम को हीलेगा चोलता ।

६८

ओम्प्याय को बोई भोरे सी:
आमते को बोई बेहार रो: लंघाये ।

(१६)

इंग ते को बोई बाइज नाम लाः
आमते को लांघय रोः गोडींग ।

६६

होजेः को दादा बेराः छाता,
छाता तोबलुंग ते बाँकलुयाः टोंइयाँ ।
इघाय योता बोइ इयाँः छाता
छाता तोबलुंग ते बाँकलुयाः टीहलो ।

७०

उ छाता बेराः छाता
उ छाताः कीःते रोः गीनींग ।
उ छाता लोरेंग बोः योता
उ छाता कीःते कीःते रोः गीनींग ।

७१

चोचा ला कोनथेड आम हेकेम
लारोः दारु ते ढेलुवा एबोःताम ।
आम ज्रींमी डोमकीम चोचा कोनथेड
लारोः दारु ते ढेलुवा एबोःताम ।

७२

कोसोर ओमपाय खिरोम ते
बेराः जीडी र्तु ते तुडाः डोडतेज ।
ओजे ला भोरा कोनघेर कोसोर
खीरोम ते तुडाः डोडतेज ।

७३

ओमपाय सीतील ते ला बोयो
कीलकीला कोनोथेड तोरोःगा डेलता ।
कांडोंग रो केडोंड ते योके
कीलकीला कोनोथेड तोरोः गा डेलता ।

७४

ई कोनोथेड तोरो:ता बोयो
खीरोम बाईर डा: ते ।
पीयो कोनोथेड तोरो:ता बोयो
खीरोम बाईर डा:ते ।

७५

रांची रो लोहरदागा
कोड़ी बो: ताय कुंवा आइज ।
डा: ओलना चोलकीम बोई
कोड़ी नोमते कुबडूंग डोडेम ।

७६

आज्जी नोम को यारतेज
धांये ला बोयो ओयेंग ओलेम ॥
दादा नोम जो उमबोँडीज
धांये ला बोयो ओयेंग ओलेम ॥

७७

आम बोयो डोडना डेलकीम,
इंग तेको बोयो बेकार योतेम ।
इंग बोयो उमींग चोना,
इंग ते को बोयो बेकार रो: योतेम ।

७८

दादा ला दादा इंग दादा
दुकु कंडाय उमींग गा रो: ला:ना ।
इंया: घाड दादा बीहा ओलकाम
दुकु कंडाय उमींग गा रो: ला:ना ।

७९

की:ते डीसा:ते बोयो सीलो:ताम,
तुम्बा ते डा: डोड काइंग नो उम्बो: ।

(२१)

ढेइर डीसाःते कोनसेल सीलोःनाइंग
तुम्बा ते कोनसेल डाः डोड काम ।

८०

रांची याः कोनोन साहेब आमते
कोबेसा लागाय गोडे ।
गाड़ी ताय आरे की रो दुरबील
बुंग योयोः चाह दाह कोनोन डाः योता ।

८१

डांड रोछोबाः कौवाः की बीर
रोछोब योंः योंःना चोलता ।
गोंगगोइ ते योके जोंढराते योके
बीर रोछोब योंः योंःना चोलता ।

८२

आतु ताय डेलकीम भादलीब
खीरोम ते डाः उडना डेलकीम ।
सोभोलपुर ताय डेलकीम भादलीब
खीरोम ते डाः उडना डेलकीम ।

८३

बेरला बोयो कोनोन कोनसेल ओबसोंगोब
गीनींग डोम ते ओयेंग टुयेम ।
माहा कोनघेर कोनोन कोनसेल ओबसोंगोब
गीनींग डोम ते ओयेंग टुयेम ।

८४

ई कराइंग भाई गोपी नाथा राजा
कुडा भोरी ते खोदीया नाइंग डुबे गोडकी ॥
आम आमी डीमकीम गोपी नाथा राजा
कुडा भोरी ते खोदीया नाइंग डुबे गोडकी ।

८५

आतु रो: चोनाम ला बोयो
बेड़ो को योलो: गोडकी ।
सोसुराईर चोलतम ला: बोयो
बेड़ो को योलो:ता ।

८६

होबने तो: को बोयो सोरी सागों
आवकीनांग आब को बोयो मेलं गोठोब ।
अब को बोयो मुइंज ताय उबार होयकीम
तांग को सोरी सांगो ते बोयो मेलाय गोठोब ।

८७

आमा: लेखे लो लोरेंग लेबु इंग को
बोइनी उमींग गा रो: कुये ।
खोड़ी खोड़ी बुलीकींग पो:दा
पो:दा बुलीकींग, आमा: लेखे लेबु गा उमींग कुये ।

८८

आतु ताय डेलकीम कौवा:
खोड़ी खोड़ी तोरो: खोरताम ।
मुनु:सींग तै डेलकीम कौवा:
खोड़ी खोड़ी तोरो: खोरताम ।

८९

उ समय डींड़ा समय डींड़ा समय नोम
कोनसेल की:ते तो: आवना ।
डींड़ा समय नोम कोनसेल चोलकानकी
डींड़ा समय नोम कोनसेल की:ते तो: आवना ।

९०

आता कोनसेल आ: जीड़ोय खोमसो
चुंडा: गो:भुंग ते इरीब टुयो ।

लेरे: कोनसेल आ: जीड़ोय खोमसो
चुंडा: गो:भुंग ते इरीब टुयो: ।

६१

आतु ताय डेलकीम बांसा कोनथेड्
कुर कुर कोनथेड ते तारो रो डोठो: ।
मुनु:सींग ताय डेलकीम बांसा कोनथेड्
कुरकुर कोनथेड ते तारो: रो डोठो: ।

६२

आता कोनघेर आ: कोनसेल गो:भुंग
ते नवा जनम होइकी ।
लेरे: कोनघेर आ: कोनसेल
गो:भुंग ते नवा जनम होइकी ।

६३

है आमा: लेरे: कोनसेल कोड़ी या:
लुतूय नोम जोरोम गोडकी ।
बाकीर कु:डींग चोलकीम बोयो इ कोड़ी
या: लुतूय नोम को जोरोम गोडकी ।
है आमा: लेरे: कोनसेल कोड़ी
या: लुतूय नोम जोरोम गोडकी ।

६४

आतु रो: चोलताम बोयो इंग ते को
बोयो डोडेम नो उम्बो: ।
डोडना को बोइ डोडींग, मानोम आपनोम
ते आबु गा रो: गामेम ।

६५

डीसा: रोछोब तेरोब नो दादा इंग को दादा
उंमीग गा रो: आवना ॥
इंग को दादा छाडी गोडनाईंग
इंग को दादा उमींग रो: आवना ।

६६

मुसा को बुढ़ा पे: जो उम्बोड़ीज
बेतोड बुंग को इघय रो: ला:ता ।
कुदा कोलॉंग लाडे से बुढ़िया
घोंगेनांग रो गीता जोम नानांग ।

६७

आतुवा: साहेब डेलकी बिरूते
लाम लाम एबो: ना डेलकी ।
खाजार ते मेलायो: पोड़ोंग ते
मेलायो: बांडोते बन्दुक बुंग तारो: ।

६८

लै लै के डेलकींग सीलो: के डेलकींग
आना से आज्जी बासी डा: तेरेम ।
बेतोड डा: बुंग इघाय रो: ला:ता
आना से आज्जी बासी डा: तेरेम ।

६९

है इयां: कोनोन बोकेरींग,
कि:ते डीसा:ते सीलो:ना चोलसी: ।
ओमपाय सितील ते सिलो:ता
तामा उम्बो: लो:ढो गा डेना ।

१००

बुलीज ना चोलकीम लुवा कोचा
बाडके: नोमतो तोबडीर यों: गोठो: ।
घं से ला बोयो बडके:ते ओलना
बडके: डोमते तोबडीर यों गोठो: ।

१०१

है इयां: कोनोन बेटींग ते
कायोम बुंग ओबसोंग डोम गोडकी ।

तोरेज कुन्डा बूंग बूयोज मुइंग
कायोम बूंग ओबसोंग गोठोइज ।

१०२

ठीसा गोडे ला नावागढ़ या: साहेब
केवभी बीरु ते लाम लाम एबो:ना ।
आम रीमी डोम कीम नावागढ़ या:
साहेब केउंभी बीरु ते लाम लाम एबो:ना ।

१०३

एनमागा: बेतोड कोनसेल टुनटी सा:ते
रोजे रो ओलेम ।
टुनटी सा:ते गाजेम रो मानडा
बोसी डा: बायेम रो योंगेम ।

१०४

माघा लो: ते हेलेकीम, आमते को
बोइ गियाल जो उम ला:ता ।
आमा: लेखे लेरे: कोनसेल
माघा कालोब ते गियाल जो उम ला:ता ।

१०५

धंसे मानोम आपनोम बोइ आतू
चोलकी माय धंसे रेमा: ओलेम ।
एले को बोइ मामु नोम हेके ले
धंसे बोइ रेमा: ओलेम ।

१०६

माघा कालोब ते हेलेकीम, माघा
रा: रा: सुयोब नो कोनसेल ।
कोनसेल किया: मुगोम ते आबु चोनाम
बोयो घोये की ला: धोगे रो डोडे माय ।

१०७

आना आना बोई पुडूब रामना, ठेटिकाः
धोःके होटोरगा चोनाम ।
आना आना बोयो कुम्बा गीताःना
कुम्बा भीःतार ते हीले हीले एबोःना ।

१०८

बेरनी याः बूदा सुंबोः ते आता लेबू
रोः इयाम ता ।
छता धोगे लोंगोंय गोडे, बेरनी याः
बुदा सुम्बोः ते लेबू कुंडूः इयाम ता ।

१०९

कोनसेल की बोंग बोयो कुःढींग कुःढींग बुलीकीम
दुरू कारें बोयो दुक्क कांडे आबू गारोः लामेम ।
आमते बोयो कोनघेर की लाडा साफय की
दुरू कारें बोयो दुक्क कांडे आबू गा रोः लाःनाम ।

हलका पाडु

११०

इंगते बेटी बजनाम लाः,
लुवा जराः हीलाय रो तेरींग ।
दारु डेबना को उमिंग पालते,
डोको २ हीलाय रो तेरींग ॥

१११

डुगुरडुगुर कंडाय बोः
बोरोल पाको लुजे रो योंगे ।
गोरेज मेयाः कंडाय बोः
बोरोल पाको लुजे रो योंगे ।

११२

नेते कोनसेल सोःलुई नो ठेकेता
भाड़ी लुवा जराः केचोड् गा चोलता ।
माइकी गोसोंया उमींग लडाते ॥
लुवा जराः केचोड् गा चोलता ।

११३

लेंच लेंजें कोन्सेल आः नुनु डोमको
भोले बोः योता ।
माइकी गोसोंया उमींग लडाते,
लेंच लेंजे कीन्सेल आः नुनु डोमको
कुइल गुड योता ।

११४

बेसे दादा तीः ते मेलाय
सोरी सांगो दादा मेलाय टुयते ।
आमते दादा बेकार योतींग
सोरी सांगो दादा मेलाय टयतें ।

११५

सोरे माला कोकरो, कीतुर ते
कुदाय गा डोडते ।
गोरेज मेयाः कोकरो कीतुर ते
कुदाय गा डोडते ॥

११६

बेलोंग लुआ नो मां आडी याः
सुःखो गुर नो जोमता ।
तोहोनबोः इडिब नो मां आडी याः
सुःखो गुर नो जोमता ।

११७

ओम्पाय बेड़ा ते ई योके ओके आरे कीम
गोबिन्द साय राजा ।
ओम्पाय बेड़ा ते हीरा योके आरे कीम
गोबिन्द साय राजा ॥

११८

आबु गीलेम तेलेंगा ईयाः बेटाईंग
भरिया चोलता ।
ईयाः बेटाईंग कुवारा, ईयाः बेटाईंग
भरिया चोलता ।

११९

कोन्डेंग बुदा लिसोय लोसोय,
बीरु तोबलुंग ते जन्म डोठोः ।
हरियारो कोन्डेंग बुदा,
बीरु तोबलुंग ते जन्म डोठोः ।

१२०

बेर भया होली एबोःता फागुन
ते धडी लेंग गा चोलता ।

बाबु भोइया होली एबो:ता
फागुनन ते धूड़ी लेंग गा चोलता ।

१२१

खीरोम सीतील ते राजा,
रानी या: सींगार गुर नो गोडकी ।
गोरेज मेया: राजा, रानी या:
सींगार गुर नो गोडकी ।

१२२

उ:फे एकड़ी को: ते, तारे से
मंगेना महतो ।
लास डांड ते कोम तुज्जो, तारे से
मंगेना महतो ॥

१२३

इ कराम भाई गोपीनाथ राजा,
भरिया ते भाई बसेरा छु:टे गोडकी ।
रेमागे भाई गोपीनाथ राजा
भरिया ते भाई बसेरा छु:टे नो गोडकी ।

१२४

उ:फे कोनी ढोंटी ते डोडे से
मलारीन कोनसेल ॥
काडोंग तारना: थोंग, डोडे से
मलारीन कोनसेल ॥

१२५

नागपुरिया ते ठिसा यो:,
आता बिरू ते लाम लाम एबो:ता ।
आता बिरू ते लिला खजार,
आता बिरू ते लाम लाम एबो:ता ।

१२६

बंडा हाथी रे रतल साहेब,
इयारी जोरायोब गोबिन्द साय राजा बंग ।

भोले ज़ीमी जगायोब रतल साहेब,
इयारी जोरायोब गोबिन्द साय राजा बूंग ।

१२७

मुरगु शहर ते, पोखरा
लायोब नो राजा ।
होडोम पो:दा: जे: ठीसे योब,
पोखोरा लायोब नो राजा ।

१२८

साम सुन्दर राजा ते,
बेर रो: नो महुरा तेरो: ।
हीरा राजा गोज़ की,
बेर रो:नो महुरा तेरो: ।

१२९

जोरगर रे बून्दा,
हारेकीम मारेदा डांडते ।
सातो टोला कुम्हरिया,
हारेकीम मारेदा डांडते ।

१३०

आराम ते रेमा: खोब,
घांटी टंगाल भेड़ाते तारोब ।
मेयां: ते रेमा खोब,
घांटी टंगाल भेड़ाते तारोब ।

१३१

एनमागा: आकाल नो माँ,
मुरुन तीड़ेइल यार नो गोठो: ।
इघाय रो: बोरोल ना नींग माँ,
मुरुन तीड़ेइल को यार नो गोठो: ।

१३२

तुम्बा: डा:रे जोगी भया,
तुम्बा: डा:ते आबु रो: हीलायेम ।

(३३)

तुम्बा: डा: को सोना डा:,
तुम्बा: डा: ते आबु रो: हीलायम ।

१३३

बेर भया हंकर साहेब घोड़ा:
रेशेम गुरनो गोडकी ।
बाबु भया हंकर साहेब घोड़ा:
रेशेम गुर नो गोडकी ।

१३४

जोलो या: डिंडा कोन्सेल, कुटुवाँ डांड
सांगसांग रंगायते ।
भोले ज़ांमी जगायोब कोन्सेल कुटुवा डांड
ते सांगसांग रंगायते ।

१३५

कुंवारी भंसी तोबलुंग ते,
दलाय दलाय बांकुलुई टोंयां ॥
आतु कुयेम बरोया राजा,
दलाय दलाय बांकुलुई टोंयां ॥

१३६

भांखीरामा: लुधोम,
यारे बेंटी घीड़ी २ गामते ।
भांखीरामा: लुधोम, भोरोम लेरे: भेरे
यारे बेंटी घीड़ी २ गामते ।

१३७

डोम्बा बीरा बीरू ते अंटा डोकोकी,
कासीर आ: कोन्सेल छेका डोम गोडकी ।
कोन्सेल आ: कारगों आंटा डोकोकी,
कासीर आ: कोन्सेल छेका डोम गोडकी ।

१३८

साहेब आरे की बीरू ते,
हारे बीरू कीनीरते लाम लाम एबो:की ।
दारू गोली समा कराय बेहेरा,
हारे बीरू कीनीरते लाम लाम एबो:की ।

१३९

साहेबा: लेखे बंका, कारी कीनीरते
लाम लाम एबो:ता ।
होडोम टोला: जे: ठीसायोब,
कारी कीनीरते लाम लाम एबो:ता ।

१४०

जोराग बृन्दा डांडते,
बेर भया बाहा जोरायोब ।
जोराग बृन्दा डांडते,
कोनोन भया बाहा जोरायो: ।

१४१

कोयनारा रसीका भया,
रायमूली कनिया रोकाय डोम गोडकी ।
तेर गोड़े भया चालीस रूपीया,
रायमूली कनिया रोकाय डोम गोडकी ।

१४२

डांड रजिया भयारे,
डांडे २ लाम लाम एबो:ता ।
डांड हरिना तारना थोंग,
डांडे २ लाम लाम एबो:ता ।

१४३

राजा हो राजा आता राजा,
उ नागपुरते जोगोंर भण्डा सुमोब ।

राजा हो राजा दुब राजा,
उ नागपुरते जोगौर भंडा सुमोब ।

१४४

कुर्वाँर साहेब आरे की,
आठासी पनारी हीले गोडकी ।
राइजा: लोभ बूंग आरे की,
आठासी पनारी हीले गोडकी ।

१४५

आता राजा घोड़ा कुदायते,
भुनुर को भमर भमर गामते ।
हंसा राजा घोड़ा कुदायते,
भुनुर को भमर भमर गामते ।

१४६

बेरा: गोली गाय,
कोइरीया: कुवाँते डूबे गोडकी ।
राजा: गोली गाय,
कोइरीया: कुवाँते डूबे गोडकी ।

१४७

आता कोनघेर पाडूता,
छाड़ी कोनसेल लोडोगा डेलता ।
लेरे: कोनघेर पाडूता,
छाड़ी कोनसेल लोडोगा डेलता ।

१४८

नायगोम कोनसेल हरमजादी,
उबार उसाल आ: चेपुआते हीलाय गोठो: ।
कुंडू: नोम चेहेंर चेहेंर,
उबार उसाल आ: चेपुआते हीलाय गोठो: ।

१४९

आता भया हंसा बुयोः,
हंसा ते सोना मोरे सीः ।
बाबु भया हंसा बुयोः,
हंसा ते सोना मोरे सीः ।

१५०

हायरे गन्दुरा मोदी,
बुली खोरकीम मलंग राइज ।
तीन साय ओरेज लदाय,
बुली खोरकीम मलंग राइज ।

१५१

पाइलकोःटा शहर ते,
कोन्डेंगाः घोरेना तोरोः ।
जुग जीतेकीम कम्पनी,
कोन्डेंगाः घोरेना तोरोः ।

१५२

आता भया सीलोंःता, कँज
गोडे भया ओरेज लोयो गोडकी ।
कोनोन भया सिलोःता, कँज
गोडे भया ओरेज लोयो गोडकी ।

१५३

माँ गाः भुलूते डोकोकी,
उलटे पलटे नुनु उडते ।
माँ जोई आदड़ो कुंडूः,
उलटे पलटे नुनु उडते ।

१५४

हायरे इयांः अराबडूः,
डोको ठांडो आतु रोः कुइना ।

बेटा जनम डोडींग लाः,
धांगर गोती कामुंडंग रो योंगीग ।
बेटी जनम डोडींग लाः,
खीलडाः ते रोमोड डाः गुरना ।

१५५

पोखेरा जे लायोब,
चारियो कोना तारवी दगाय ।
भोले यीमी जगायोब,
चारियो कोना तारवी दगाय ।

१५६

राजा पोखेरा लायोब,
हायरे पोखेरा भोले शोभाय ।
रानी भीरी हीरी एबोःता,
हायरे पोखेरा भोले शोभाय ।

१५७

लेरेः कोनसेल ते,
आबु गीले बोयो लेरेःना तेरे ।
आखीर को आमाः लेबुगा,
आबु गीले बोयो लेरेःना तेरे ।

१५८

भंवरो आः पांडे गनपति राय,
वीरोम वीरोम राइज ते तारोः ।
सम्भराय डोडेम गनपति राय,
वीरोम वीरोम राइज ते तारोः ।

१५९

माँ जोई नो दुलारो,
इ जनम तेरोब नो माँ जोई ।
कोनोन भेरे अराबडुः,
इ जनम तेरोब नो माँ जोई ।

१६०

इधाय इधाय डोमोन सींघ,
बांकीर बरगाँव उजड़ेकी ।
सम्भराय डोडे डोमन सींघ,
बांकीर बरगाँव उजड़ेकी ।

१६१

चोल गोडनाम हरी राय,
कोनोर डाँड़ लोः ।
सँग गिनिल लोःढो निसाव ।
चोल गोडनाम हरी राम साय कोनोर डाँड़ लोः ।

१६२

किःताःते ठिसाते बीरू आः पियो कोनथेड्,
किःताःते (ठिसा योः) डेनाकी रसीका ।
मोःभी तोःते ठिसायोः बीरू आः पियो कोनथेड्
सोमता पतार ते डेलकी माय रसिका ।

१६३

बेराः जोंगोर पेछौरी,
बरंगी याः चलन धोखोब हो राजा ।
राजाः जोंगोर पेछौरी,
बरंगी आः चलन धोखोब राजा ।

१६४

देसे बेटी बेरोडना,
बीरू टेटेंगा सगाईना लामते ।
गोरेज मॅयाः बेटी बेरोडना,
बीरू टेटेंगा सगाईना लामते ।

१६५

कोइरीन बेटी रोसडोम ओबसोंगते,
वौड़ा धोःते रो खोडी बलीना चोलता ।

गोरेज मेयां: ओबसोंगते,
दौड़ा धो:ते रो खोड़ी बुलीना चोलता ।

१६६

हीयो रे गोला ओरेज्,
शिशियो घाट ते छेका डोम गोडकी ।
हीयो ओरोज चवॅरा ओरेज्,
शिशियो घाटते छेका डोम गोडकी ।

१६७

की:ते मोनते बोयो रोडेम,
ईग को बोयो आमा: ते गा चोनाइंग ।
बार मोनते बोयो रोडेम,
इजो बोयो आमा: ते गा चोनाइंग ।

फगुन पाडू

१६८

ओँए से बोई जीड़ोय नोम
उर्मिग तेरे दादा तुडा रो: तेरींग ।
मुसा को एका देसी तुडा छोड़ाय
माइंगा: रो तेरींग ॥

१६९

डुरीब को बोइ बेलोंग सी:
आना से बोई हीलाया चोनानांग ।
गोरेज मेया: डुरीब को बोइ बेलोंग सी:,
आना से बोइ हिलायना चोनानांग ।

१७०

हाय इञ्जा: बोकेरींग इंगते को
आजी जो उम गामते ।
गोरेज मेया: बोकेरींग इंगते को
आजी जो उम गामते ।

१७१

हारे २ डिंडा दादा इंभेरे रो: दादा
कंडाय रो: ओलेम ।
मुसा को एका देसी तुडा छोड़ाय
माइंगा: ओलींग ।

१७२

बेरला बोयो कोनघेर को कोनसेल कीया:
गिता: चाड़ी ते लोडो गा डेलताम ।
कोनसेल किया: गिता: चाड़ी रिगिबिगायता,
बेरला बोयो लोडो गा डेलता ।

१७३

आतिज बार गे किमिन की,
अ्रोंडेग बार को लोरेंग डा: योता ।
अ्रोंडेग बार को तरकेलेंगता,
अ्रोंडेग बार को लोरेंग डा: योता ।

१७४

सेरिगा रामे कंडायबो:,
ढिरि रीरी गामे भेरे सीरे रो योंगेम ।
भोड़ीये गीमे कोयोये ठापागे,
ढिरि रीरी गामे भेरे सीरे सो योंगेम ।

१७५

आतिज बोई, आराम की,
हो गा: दादा निगा लेखे योता ।
मायकी दादा डर्मिग लाडाते
हो गा: दादा निगा लेखे योता ।

१७६

करीगर होयकीम कुम्हार भाई
खपरा अ्रो: बंगला इकुड सुन्दर ।
इकुड अ्रोंमी मंहमायोब बा कुम्हार भाई
खपरा अ्रो: बंगला इकुड युँडते ।

१७७

उबार घोल महिना,
जितया करम ते बेर बेवा कराये ॥२॥
बहिन नाइंग कानसी: भाइंग बेतोड डा:,
जीतया करम ते हिन सेवा कराये ॥२॥

१७८

एनमागा: दोसोंइ डांइते,
हरियर तरवी सलगेताज् ॥२॥

दोसोंइ डांइते बोनतेल, भेड़ा गुरकी, दीरोम-
बो: चीनाम रे दोसोंइ डांइते ॥२॥

१७६

चाह बगान खोलायोब कम्पनी,
गोदाम भला सोभायता ॥२॥
तोबलुंग ते महा कोठी तुता ते कोनोन कोठी
गोदाम भला सोभायता ॥२॥

१८०

हरे गाड़ी चोलता हरे गाड़ी चोलता,
पहिया पहिया गाड़ी चोलता ॥२॥
तुबलुंग ते लोहा तुता ते तिमसोंग डाः,
पहिया पहिया गाड़ी चोलता ॥२॥

१८१

कुपुंग रामना चोलकीम नो कोनसेल
लुवा दारु सुम्बो:ते भुमैर एबो:ताम ।
मो:भी तो: ते चोलकीम नो कोनसेल
लुवा दारु सुम्बो:ते भुमैर एबो:ताम ।

१८२

आता कोनसेला: बिन्डा
सुन्दर तपकार बो:ते उगूर टुसी: ।
कोनोन कोनसेला: बिन्डा,
सुन्दर तपकार बो:ते उगूर टुसी: ॥

१८३

पाइलको:टा: ते डोंगी डा:
डोंगी डा: हलका गा डेलता ।
पूजा कराये पूजारी
डोंगी डा: हलका गा डेलता ।

१८४

आनी बेटी भरिया खुटी नगर पीजना: घाड ।
खुटी नगर डमाडोल होयकी,
खुटी नगर पीजना: घाड ।

१८५

कोलेड पिजना चोलकीम नो बोइ,
भिमिर भिमिर डा: नो डेलता ।
जोनो: जपुड चोलकीम नो बोई
भिमिर भिमिर डा: नो डेलता ॥

१८६

आना से कंडायबो: बुन्डा लो:,
रायमुनी कोनथेड यों: गोठो:की ।
मेयागा: बेरा ते आना से कंडायबो:,
रायमुनी कोनथेड यों:मयतेज की ।

१८७

कुबुड़ कुबुड़ कोनसेल रोवा ओनना चोलता
गूंगू तोबलूंग ते जिलपी ओखोड सी: ॥
मेयागा: बेरा ते रोवा ओनना चोलता
गूंगू तोबलुंग ते जिलपी ओखोड सी: ॥

१८८

आमा: लेखे आवकींग बोइ
तांग गा: बुढ़ा गोडकींग ।
मेमोन दिनो सिंगार आवकी
तांग गा: बुढ़ा गोडकींग ।

१८९

- १ थामकेल कुम्हारीया
हारेकीम मरा: डाँइते ॥
- २ परगना ते रेमा खोब
हारेकीम मरा: डाँइते ॥

१६०

- १ लुंगटू रे बागसेरा
कि:ते कुनईज कुजकीम इन्दो डाँड़ते ॥
- २ बागसेरा ऊजड़े की
कि:ते कुनईज कुईजकीबार इन्दो डाँड़ते ॥

१६१

- १ गोन्दोल सिघ बेहरा हिरा तेरो: ॥
जगरनाथ साए महाराज पटा बेलायो: ॥
- २ सहर घटी ते पटा बेलायो:
गोन्दोल सिघ बेहरा हिरा तेरो: ॥

१६२

- १ खड़िया कोन्सेल कोड़ा कोनघेर आ: ते
बघीमा डाँड़ ते दूकु चोलकी ॥
- २ भोले जीमी बेबरोठीब खड़िया कोन्सेल
बघीमा डाँड़ ते दूकु चोलकी ॥

१६३

- १ हाय रे ओसेल भण्डा नाईग
भोरे रो: युँडते ॥
- २ हाय रे ओसेल भण्डा नाईग पा:टो भण्डा
हाय रे पा:टो भण्डा नाईग भोले रो: युँडते ॥

१६४

- १ कोड़ा: ते दुकुकीम कुलम
हाय रे रुसूंग कोले: भण्डा नोम लुसू डोमकी ॥
- २ कोन्सेलडु: होयकीम् कुलम
हाय रे रुसूंग कोले: भण्डा नोम लुसू डोमकी ॥

१६५

एते बेटी तुकीरो यारे कुला: वीरा:
कन्डाय बो: बलुआ जाडते

मायकी, गोसोंयः ऊमींग ठकायते कुलाः बीराः
कन्डाय बोः बलुआ जाड्ते ॥
इःफोन कोना ते मडील डाः सोधोमताएज्
कोयो डाः डेलताएज्
इना रोः बोई भाईया ते ऊलहाय डोड्तेम्
कन्डीजनाबार बोई, एंगनाबार
भाईयाते आबु उलहाय ।
आडेल डाः सोधोमता कोयो डाः डेलता,
भाईयाते आबु उलहाये ॥

१६६

छडीकिम बोई कोनसेल बेराः ते
बोई लेरेःना चोनाम ।
लेरेः कोनघेर कन्डाय उनोओः बेराः ते
बोई लेरेःना चोनाम ।

१६७

भडार कोना ते तिरिब डाः डेबताएज्
यारे यारे गामतिंग लाः दारू बोःते रोः जपाःताम्
उभरोंगः आः तिरिबडाः बारू जो ऊम्बोः ।

१६८

कोनोन बेटी नो माँ
सुन्दर बोःते गुर जोमकी
कोनोन बेटी याः बिन्डा नो माँ
सुन्दर जराः बोःते गुर जोमकी ॥

१६९

देव ओमपाय सितिल सितिल
खजार चोल गोडकी ॥
योय सेरे भोरा बेटा
खजार चोल गोडकी ॥

(४६)

२००

हो तुरिया देव ओमपाय सितिल ते
लामलाम एबो:ता ।
कोनोन भाईया ला देव ओमपाय सितिल ते
लामलाम एबो:ता ॥

२०१

रायलोग गढ़ राजा, रायलोग गढ़ नोम जोंगोड गोडकी,
बसाली गाय नोम आँजोर ओलो: हीरापुरते भुईहारी
तोलो: ॥२॥

२०२

सोनोर छातार आ: लोगोंय ते,
दिरोम बो: चोनाम बरोया राजा ।
बेटनोम को जुवान आईज,
दीरोम बो: चोनाम बरोया राजा ।

२०३

हीरा पुरिया राजाते रेमागेपे,
केना बीरूते लामलाम एबो:ना ॥२॥
केना बीरूते खाजर अरयो:ता,
केना बीरूते लामलाम एबो:ना ।

२०४

डिन्डा नो ओनमो: कोनसेल,
खोड़ीते मेचेर मेचेरगा चोलता ।
डिन्डा नो ओनमो: कोनसेलते,
आबु गिलेम बोयो लेरेए:ना तेरेम ।

२०५

बरोया राजा तपकर मुम्बो:ते राजा,
रेसेम हिलायते ॥२॥

(५०)

थाम साय बरोया थाम गोली मेलायते,
तपकर सुम्बो:ते राजा रेसेम हिलेताएज् ।

२०६

इन्दी योरेल बोयो, योरेल योकी,
कोनसेल को बोयो रागोम चोलकी ।
धांय से बोयो योडेना चोनाम,
कोनसेल को बोयो डामकी नो उम्बो: ।

२०७

पाडू कोनघेर पाडूता,
लेरेए: कोनसेल लोडोगा डेलता ।
अबडिब ते पाडूता,
सिंगकोय मुला:ते लोडोगा डेलता ।

२०८

कोनसेल आ: साका जोमो: कोनघेर,
बोकोब आ: टिहली नोम लेको:गा चोलता
आले रे कोनघेर जोइ,
मॅया: ते पातर न तेरे,
राजा ओ:ओ दरबार धोगे रो डोड़े ।

२०९

आता कोनसेल आ: बिन्डा,
तबकर सुम्बो:ते उगुर टुईयो ।
कोनोन बेटी आ: बिन्डा,
तबकर सुम्बो:ते उगुर टुईयो ।

२१०

बंबेड़ा दुरा ते राजा,
एकड़ी साय भरिया की थके कीमोंए ।
डेरा कराय बासा कराय,
एकड़ी साय भरिया थके कीमोंए

(५१)

२११

हारे हारे सुंधमारीन कोनसेल,
श्रोमपाम ते चोंडेज काडोंग तारना रो चोलता ।
भोले ज़ीमी बेबरोठोब
श्रोम्पाय ते चोंडेज काडोंग तारना चोलता ।

२१२

सकुर डा: डोलोंग घाटते लेबु इघाय तुबडा: डोमकी २
तोबलुंगते लेबु तुबडा: यो:की;
तुताते जोड़ा डोलोंग छका: श्रोछो: ।

२१३

कायर उला: दुरंग भेलोब भेलोब,
श्रोरासिंग उला: ठुपा ठुपा . . . हारे हाय ।
ई योता २ बोयो कुईजताम,
ई योता २ बोयो लेरे:ना लासी: ।
घन्टा सोधोमता रडंग रडंग,
देजांग सोधोमता घिड़केता ।
होजे योता २ बोयो लेरे:ता,
होजे श्रोन्डोर २ बोयो कुईजता ।

२१४

बंगकलुइ रे भाइया
राजा लेखे कचहरी डोकोताम ।
बंगकलुइ रे भाइया,
पोखरा हिड़ोते, कच्छरी डोकोताम ।

२१५

गुंजरेता गुंजरेता तेलेंगा,
बरेछा गुंजरायते हिरापुर राईजते ।
उ:फे तेलेंगा, माधरी कौवा: लेखे
गंजरेगा डेलकी ।

राजी डोडना: थोंग तेलेंगा,
माधरी कौवा: लेखे गुंजरेगा डेलता ।

२१६

हारे हारे लुवा टोला: पाढ़ा भाइकी,
रुसूंग ओसेल भण्डा ते बेर सुरुम डोठो: ।
कोनघेर होईकोन कोनसेल होई होईकीम,
रुसूंग ओसेल भण्डा नोमते सुरुम डोठो: ।
लामेपे, कालो सूंगगुडे,
रुसूंग ओसेल भण्डा ते बेहार नो डोठो: ।

२१७

आलु बिरुते सकोय ईयामता सकोय तोरो:ता ।
ओले से माँ सुमसुम बरेछा,
सकोय तोरो:ता, सकोय ईयामता ।

॥ माःघ्रेल लेरंग आः पाडू ॥

२१८

बेरो दादा तिगींगते मेलाये,
सोरी सागों दादा मेलाय टुते ।
आमते दादा आसेद कदराय,
सोरी सांगो दादा मेलाय टुते ।

२१९

हारे हारे डिन्डा दादा
ई भेरे दादा कन्डाय ओलेम ।
ईंग को दादा चोनाईंग डीयर डुःना,
ई भेरे दादा कन्डाय ओलेम ।

२२०

तारदीयेम मां हरीयारो दियोम तरदीये
हरीयारो सरीथा बाये ।
ईंग को मां चोलसी खोएज सारना
हरीयारो दियोम तरदीये, हरीयारो सरीथा बाये ।

२२१

अतीज ताय आरेकिम अपा समुद्र पारो गंगा पारो,
पारो डेलकिम अपा ।
बेराः गमना बेराः ऊतुनना बेराः जो ऊम्बोः अपा,
हिरापुरते आमगा थानी डोकोकिमगा अपा ।

२२२

बेरोडना से हरमजादी
पांगोडाः कुन्डुः ईयम ताएज ॥२॥
कुन्डुः हकोन नीके सुखे
पांगोडाः कुन्डुः ईयम ताएज ॥२॥

(५६)

२२३

पलामु कोइलो भोरे की
सोनोर आ: टाईनी तुडा: डोमना ला:सी:
पलामु कोईलो ॥२॥
योय से झोरा बेटा
सोनोर आ: टाईनी तुडा: डोमना ला:सी: ॥२॥

२२४

हाय रे गन्दुरा भोदे
दीरोम बो: चोनाम मलांग राईज ॥२॥
ऊ:फे साए खडू ओरेज
दीरोम बो: चोनाम मलांग राईज ॥२॥

२२५

साहेबा: गुड बँकड़ा
कोलेड किनिर ते लामलाम एबो:ता ॥२॥
बिर्लीगबिरा ते ताम्बू खुटायो:
कोलेड बिरू ते लामलाम एबो:ता ॥२॥
केसेलपुरीया राजा
जवान भरिया की थाकेना ला:सी: ॥२॥
बन्दूक ऊम चलायते राजा
जवान भरिया थाकेना ला:सी: ॥२॥

२२६

मैना रे मैना ऊबर जोरी मैना
अमा: घड रे मैना सोनोर आ: पिंजरा ॥२॥
ऊबर जोरी रे मैना सोनोर आ: पिंजरा
अमा: घड रे मैना सोनोर आ: पिंजरा ॥२॥

२२७

लारो: बेरा: गामते की
लारो: मुम्बो: ते जागीर होएकी मोए ॥२॥

(५७)

लारो: बोरोलना गामो: की

लारो: सुम्बो: ते जागीर होएकी मोए ॥२॥

२२८

कायर बगंचा लगायोब अपा

एनेम ऊला: एनेम हारा ऊम सोभेते ॥२॥

२२९

तोमने कन्डाय ओलकायोब अपा,

जोल सुन्दरोम एनेम ऊम युंडते ॥२॥

२३०

कोएनारा: सुपाई महतो

बोहिला कोन्सेलडु:ते सगोई ओलो: ॥२॥

बोहिला कोन्सेलडु: लेदेम लेदा:

बोहिला कोन्सेलडु:ते सगोई ओलोब ॥२॥

२३१

सिलो:ना चोल्किंग ला: डा: ऊठोएज

लुवा जरा जॉखोएज ला:

जीयोम पोंगोर बो: ला:की ॥२॥

२३२

हारे हारे नेडा

भोरे जॉरी नेडा हे:जोना ला: सी: ॥२॥

डिन्डा नेडा चोल कनकी

भोरे जॉरी नेडा हे:जोना ला: सी: ॥२॥

झिका मुन्दरा चलान होएकी

हारे नेडा हे:जोना ला: सी: ॥२॥

२३३

मुरगू शहर ते पोखरा लायोब राजा

परगनिया ते हाँ:को तेरोब, पोखरा लायोब राजा ॥२॥

(५८)

२३४

जोरागाः बिन्डा डांड ते
हारेकिम मरदा डांड ते ॥२॥
थाम टोला थाम कुम्हारिया
हारेकिम मरदा डांड ते ॥२॥

२३५

हांथी एनेम कुवार साहेब
हांथी एनेम खडु लाःधे ते ॥२॥
जोड़ी हांथी गोएज गोडकी
हांथी एनेम खडु लाःधे ते ॥२॥

२३६

चंवरा हांथी गोएज कनकी
हायरे नरागढ़ जोंगोड गोडकी ॥२॥
राजाः हांथी गोएज गोडकी
हायरे नरागढ़ जोंगोड गोडकी ॥२॥

२३७

अलामल डाँड ते राजा
तिलासरी बोकोबकेः गुरना लाः सीः ॥२॥
तारदी गोरुडे राजा
तिलासरी बोकोबकेः गुरना लाः सीः ॥२॥

२३८

आजी आः भोरे पांगोड कुन्डूः
खोड़ीते ईयम गा चोलताएज ॥२॥
लेबुई नापे पांगोडेपे
केलोम बोः पांगोडेपे ॥२॥

२३९

कुदड़ी बोंग लायोः गईता बोंग लायोः पोखरा,
कुइना बोंग बान्धों कोंगोंः ॥२॥

हो पोखरा युंठो: हँसा एनेम युंठो:
बान्धो गेरवा एनेम युंठो: ॥२॥

२४०

काँसा पि:तोड़ोआ: किया:
किया भोरे सुन्दरोम तेरोब ॥२॥
राजा रानी की किया:
किया भोरे सुन्दरोम तेरोब ॥२॥

२४१

हारे कम्पनी पाएजकोम
कांवरू दूरा ते लड़ाईयोब् ॥२॥
तार ढंगलायोब पाएजकोम
कांवरू दूरा ते लड़ाईयोब् ॥२॥

२४२

कोनोन बेटीआ: बिन्डा सुन्दर बो:
तपकर सुम्बो: ते गूर जोमकी ॥२॥
लेरे: कोनसेल आ: बिन्डा सुन्दर बो:
तपकर सुम्बो: ते गूर जोमकी ॥२॥

२४३

बिसी झूलेना चोलकिम रे भोगता
चन्दनी तोबलूंग ते भोले युंठोब ॥२॥
भोले आँमी बेबरोठोब भोगता
चन्दनी तोबलूंग ते भोले युंठोब ॥२॥

२४४

हायरे लाल जमादार
हायरे भरिया ईयमता ॥२॥
केलोम आँमी बेबरोठोब जमादार
हायरे जमादार भरिया ईयमता ॥२॥

२४५

बेर भाईया तारो: लिला खजर ते
काईन कोम् ते डोड् कनो:
ला: लूवा केजूना चोलता ॥२॥
बाबु भाईया तारो: की लिला खजर ते
काईन कोम् ते डोड् कनो:
ला: लूवा केजूना चोलता ॥२॥

२४६

चवड़ा: डा: आजोड् की
गन्दरी कडोंग हे:जोना ला: सी: ॥२॥
मुरडागा: नेडाते कोसोर गोड्की
गन्दरी कडोंग हे:जोना ला: सी: ॥२॥

२४७

दिनो दिनो कलिकत्ता
गोएजूना बोरोलना सिगारते ॥२॥
गोरेज् मेया: कलिकत्ता
गोएजूना बोरोलना सिगारते ॥२॥

२४८

भाईया रे भाईया हारे भाईया
भाईया: धोती जरिया ते मेलय डोमकी ॥२॥
भाईया: धोती समय भोरे
जरिया ते मेलय डोमकी ॥२॥

२४९

अनी अनी पाएज् कोम्
चलान की मोए चंगडा राईज् ॥२॥
गोरेज् मेया: चपरासी की
चलान की मोए चंगडा राईज् ॥२॥

२५०

हिरा राजा हिराः मलाः बोंग
सोमधी जोड़ेयोः ॥२॥

बेटनोम् जवान नेडा होएकी
केलोम बोः सोमधी जोड़ेयोः ॥२॥

२५१

लेरेः कोनघेर कोन्सेलाः तिईः
मिलाय गोड़ेम् मूरून डांड ते ॥२॥

मेयागाः नेडा ते तिई
मिलाय गोड़ेम् मूरून डांड ते ॥२॥

२५२

हायरे बेंतोड् कोन्सेल
भरिया ते लुवा सुम्बोः ते चोलता ॥२॥

गियल जो नो ऊम लाःता
भरिया ते लुवा सुम्बोः ते चोलता ॥२॥

२५३

हाय रे सुंधमारा कोनघेर
भरिया ते चोंडेज् कडोंग तरना चोलता ॥२॥

गियल जोनो ऊम लाः ता कोनघेर
भरिया ते चोंडेज् कडोंग तारना चोलता ॥२॥

२५४

कुरुमाय लोहरडगा
हजारो रानी कुःढींग लगायोःकी ॥२॥

लेरेः एबोः कीमोए
हजारो रानी कुःढींग लगायोःकी ॥२॥

२५५

तुम्बा ओखोठोब् जोगी भाईया
ओले होन्ताए तुम्बाः डाः ॥२॥

तुम्बाः डाः सोनाः डाः
ओले होन्ताए तुम्बाः डाः ॥२॥

२५६

तोमकुई ला भाईया
लोःखाः कलसा बयोः ॥२॥
बिहा शादी होएता भेरे
लोःखाः कलसा बएकाएम ॥२॥

२५७

कारीगर होएकीम् तोमकुई भाईया
खपरा ओओः जिमोब् केलोम बोः युंठोब् ॥२॥
केलोम बोः जिमी बेबरोठोब् तोमकुई भाईया
खपरा ओओः जिमोब् केलोम बोः युंठोब् ॥२॥

२५८

मलाराः कोलेज्
मुन्दर साए राजा ओन्डोरेपे ॥२॥
मलाराः कोलेज् डेला सोरेंग
ओन्डोरेपे मुन्दर साए राजा ॥२॥

२५९

हथियाः चोना ते बँडिया
तिगाः कचिया गूर कनकी ॥२॥
मानोम ते डोङ्गि बँडिया
तिगाः कचिया गूर कनकी ॥२॥

२६०

ओमपाय भरिया ते भाईया
ईना देबरी तेम् ॥२॥
आङ्गेल डाः गरजेता भाईया रे
ईना देबरी तेम् ॥२॥

२६१

मोघेर तिरिब नो माँ
हायरे सोना डाः गिमना लाःसीः ॥२॥
एनेम तिरिबाः नो माँ
हायरे सोना डाः गिमना लाःसीः ॥२॥

२६२

किःते कायर ओनोब राजा
ऊःफे साए कायर नोम जागीर होएकी ॥२॥
मोलोय एकड़ी कायर ओनोब राजा
ऊःफे साए कायर नोम जागीर होएकी ॥२॥
किःते बासा चोलकिम् राजा
हंसा राजा घोड़ा ते ओबसोंगोब ॥२॥

२६३

किःते पटाईन पटायोब राजा
हंसा गेरवा लेंग गा चोलता की ॥२॥
मोलोए एकड़ी पटाईन पटायोब राजा
हंसा गेरवा लेंग गा चोलता की ॥२॥

२६४

मोईनी कड़रु सुरुम चोलकी
थाम भाईया की हेःजो तेकी ॥२॥
कोठा भिःतर ते सुरुम चोलकी
थाम भाईया की हेःजो तेकी ॥२॥

२६५

कारड् काट् भरिया बेराः भरिया
दीरोम बोः चोलता ॥२॥
राजाः भरिया राजाः भरिया
दीरोम बोः चोलता ॥२॥

२६६

बाबु ला लोहोर सिंध
आटा तोबलूंग ताए मराः तारते ॥२॥
किनिर भाईया चोल कनकी
आटा तोबलूंग ताए मराः तारते ॥२॥

२६७

ओमपाय आः हेमडूः ते ऊबडूः ते
बोकेरिंग सिलोःना चोलता ॥२॥
सिलोः काऐज कोन डेलता
कोरोब कोरोब मचीला ते डोकोता
बेरोडना बोकेर होन लोटा डाः ॥२॥

२६८

बेलोंग लुवा नो माँ
अडीयाः मोनसुःखो गूरता ॥२॥
मोःझी तोःते नो माँ
अडीयाः मोनसुःखो गूरता ॥२॥

२६९

डिन्डा नो कोनसेल
खिरकी दूरा ते ईयमता ॥२॥
ओओ दूरा जोड़ेयोब
ओगाः हेःजो तेम ॥२॥

२७०

आतु चोनाम ला दीगवार
पोःदा नोम जोंगोडकी ॥२॥
पोःदा बुलीना चोलकिम ला बीगवार
खोड़ीनोम जोंगोडकी ॥२॥

२७१

ओओ योये माँ जोई
ओओ नोम जोंगोडकी ॥२॥

(६५)

महा बेटी ते डोड कनो: अरामकुन्दु:
ओओ योये माँ जाई ओओ नोम जोंगोडकी ॥२॥

२७२

आतु चोलकीम ला लेरे: कोनघेर
अखड़ानोम जोंगोडकी ॥२॥
मो:झी तो: ते डेलकीम ला लेरे: कोनघेर
अखड़ानोम जोंगोडकी ॥२॥

२७३

अता बेटी या: बिन्डा
सुन्दर तपकर तुताते गुर जोमसि: ॥२॥
कोनोन डु: बेटी या: बिन्डा
सुन्दर तपकर तुताते गुर जोमसि: ॥२॥

२७४

लम लम चोलकीम पदूमन साए
बीरू सुम्बो: ते जूता बोंग तारोब ॥२॥
भोले ज़ीमी बेबरोठोब पदूमन साए
बिरू सुम्बो: ते जूता बोंग तारोब ॥२॥

२७५

ए तुरीया,
बेटीनोम ते तुरीया बोकेर डोम डोठो: ॥
माए की बेटी ऊमिग ठकाए ते
बेटीनोम ते तुरीया बोकेर डोम डोठो: ॥

२७६

बेरा: हाँथी गोइज गोडकी
हरे नावा गाढ़ को जोंगोडकी ॥
राजा: हाँथी गोइज गोडकी
हरे नावा गाढ़ जोंगोड गोडकी ॥

२७७

भन्डारी ला कुलम
बनिहार ते चलाय गोडेम ।
कुदा ओनना: थोम
बनिहार ते चलाय गोडेम ॥

२७८

ई गामेम ला गोपीनाथ साए राजा
जड़िया ते गमछा नोम गूरकी ।
हां:को गोड़े ला राजा
जड़िया ते गमछा नोम गूर गोडकी ॥

२७९

डुग डुगिया ला खड़ी
ऊबर जोड़ी नगेरा बुगे ।
ज्रींमी बेबरोठोब बीरू राजा
ऊबर जोड़ी नगेरा बुगे ॥

२८०

डिण्डा भेंसी तोबलूंग ते
दलाय दलाय बँकुलूय टोंया ॥
भीखे कुयेम बरोया राजा
दलाय दलाय बँकुलूय टोंया ॥

२८१

हिरापुरीया खड़ी राजा
आबु गुरना तेरेम ॥
बरोया खड़ी राजा
भीखे कुयेम बँकुलूय टोंया ॥

२८२

नैगोम भैया ई बिलमतेम
बन्डा डन्डा लवांग ते जबकाय ।

कुण्डुः हकोन बुईनाः थोम
जबकाये नैगोम भैया ई बिलमतेम ॥

२८३

छेछरा कुण्डुय ते तुनी काये
ई बिलमतेम तूरिन कोनसेल डूः ॥
कुण्डुः हकोन बुईनाः थोम
तुनी काये छेछरा कुण्डुय तूरिन कोनसेल डः ॥

२८४

आतु ताय डेलकीमोय कांसा बंकलुई
योः योःना आरेकीमोय ॥
मुनुःसिग ताय आरेकीमोय कांसा बंकलुई,
ओमपाय सिनिग ते योः योःगा आरेकीमोय ॥

कसा सींगा:

२८५

महा हांथी रे रासाल सहेब
सांगो जोड़ेयोब गोबिन्द साय राजा ।
भोले यीमी बेबरोठोब रासाल सहेब बूंग
सांगो जोड़ेयोब गोबिन्द साय राजा ।

२८६

मोलोय भायिंग, मोलोय गोठांग परेगाना ।
राइज नोमते आबु हिलेना तेरे ।
राइज नोमपे अम्पा: सोमपे तेगा,
राइज नोमपे ते आपे: हिलेना तेरे ।

२८७

डा: सितीलते डोकोकिम रे पेरवां, हांथी
तोबलुंग ताय राजा गोली बूंग तारो: ॥२॥
एंगना एंगना राजा पाइलको:टा शहर,
पाइलको:टा ते राजा लोरेंग डा:योता ।

२८८

बेरला खड़िया बेटा घोड़ा तोबलुंग ते
चाँवर धुकाय गा डेलता ।
खड़िया बेटा राजा होयकीम गुनेगा
राइज ते मंडेयोब ॥२॥

२८९

एबो: नापे लेरे: कुन्दु नैंग,
उ समय की:ते तो: अवना ।
उ समय डींडा समय,
उ समय की:ते तो: अवना ।

२६०

डिंडा गे कोनसेल
खीरोकी दुवारते इयाम तँज ।
ओः दुवारी कीम ओगाः फिकीर,
डिंडा गे कोनसेल खीरोकी दुवारते इयाम तँज ।

२६१

ए, मोहान बड़ाइक सोरेंगाः गढ़,
तेरोब हो तेनतोन सुम्बोःते ।
भोले यीमी बेबरोठोब मोहान बाड़ाईक,
सोरेंगाः गढ़ तेरोब हो तेनतोन सुम्बोः ।

२६२

बेराः बुई बुई मँना ! बेटाइंग किमीनींग लेखे युंठोः ।
आपाः बुई बुई मँना ! बेटाइंग किमीनींग लेखे युंठोः ।

२६३

रीमी रीमी गे किमीन की,
ओडेंग बारगे लोरेंग डाः योता ।
तुकी नाबर गे किमीन की,
ओडेंग बारगे लोरेंग डाः योता ।

२६४

आना से कोनसेल इयाः भोंइसाः साड़ा ओन्डोरना ।
भोंइस नंग चोलकी बिजुबन,
आना से कोनसेल इयाः भोंइसाः साड़ा ओन्डोर ।

२६५

किःते रोः सीलोः नानांग जोड़ी भाई,
सीलोःना सीलोःना उरुम डाः गुरता ।
आना से चोना नांग जोड़ी भाई,
अजीयाः ते बसीडाः बोरना ।

२६६

खड़ खड़ी तोभलुंग लोहर साय ?
पाइकोम भायारे उम गा रो: मानेता ।
कम्पनीया: हेपाडते पाइकोम को !
पाइकोम भायारे उम गा रो: मानेता ।

२६७

भीमीर भीट डा:नो गिमते
कोनके: कोनके: बुन्दा डा: ।
गोरेज मेंया: बेर योये,
योये से बरोया राजा ।

२६८

बंकलुई रे भैया
राजा लेखन कछायरी डोको सी: ।
पोखरा सितिल ते
राजा लेखन कछायरी डोको सी: ॥

२६९

कोडेंगरे कोनोन कोडेंग, गोटा बीरूते जोरमेकीम ।
कोनोन कोडेंग लिसोय लोसोय, गोटा बीरू जोरमेकीम ।

३००

कुवाँर साहेब आरे की, दीरोम दीरोम राजीते डोठो: ।
गोरेज मेया: आरेकी, दीरोम दीरोम राजीते डोठो: ।

३०१

मुनगा हाराते डेजकाय गोडेंम नो,
अंगडुजकय गोडेंम ।
कोनसेला: मला: बोंग डेजकाय गोडेंम नो
अंगडुजकय गोडेंम ।

३०२

ओंमपाय जोडा: किलकिला तोरो:गा चोलता
कडोंगा: मला: बोंग किलकिला तोरो:गा चोलकीम ।

३०३

बेर भाईया सिलोता तोतोरे नोनोरे गामते ।
लेरे: कोनघेर सिलोता तोतोरे नोनोरे गामते ।

३०४

बेर भाईया सिलोता काजगोड़े भाईया
ओरेज लोयो गोडकी ।
कोनोन भाईया सिलोता काजगोड़े भाईया
ओरेज लोयो गोडकी ।

३०५

बरो जोड़ा बोरोब तुरिया बेटिनोम को रंगोम चोलकी ।
गोरेज मेया: बोरोब तुरिया बेटिनोम को रंगोम चोलकी ।

३०६

आबु बाबुरे जयमंगल बाबु, बाबुरे अमा: राजी होयना ।
राजी अमा: यीमागा:, राजीते हिलेना आबु तेरेम ।

३०७

गुडलु बीजोम ओजेसे जोड़ी भाई
आना से गुडलु बीडना: ।
बाबुते गामे से योड़ी भाई
ओरेजते योने रो: डोड़े ।

३०८

ऊ बेलासा कोनसेल कुडा: दरू डेबसी
हारेकींग याया अरेता नो उम्बो: ।
घाय पेसे यो डेनापे ऊ बेलासा कोनसेल
अरेसी: नो उम्बो: ।

३०९

हो हायरे लेरे: कोनघेर
तोडेंगा: माला बायकायेम ।

(७५)

जाता कडोंग आः कालगा
बायकायेम लेरेः कोनघेर ।

३१०

साम सुन्दारी राजा ते
बेर बेर रे भाईया महुरा तेरोः ।
हिरा राजा गोएज गोड्की
बेर बेर रे भाईया महुरा तेरोः ।

३११

भगीनाः घड् रूतू बायकाय गोडे
ए सिबा पाडू ।
भगीना को ईकूड् लेरेः कोनघेर
रूतू बायकाय गोडे ए सिबा पाडू ।

३१२

बाएज् कीम् लाः कोनसेल तेरे तीगाः
मुःधी मुन्देरा बायना ।
गोरेज् मेंयाः बाएज् कीम् लाः रे
कोनसेल तेरे तीगाः मुःधी ।

३१३

ई कयोम बोंग हारेकीम कोनसेल
सोमोंग ते सुन्दरोम तेरोः की ।
कयोम केन्देर बोंग हारेकीम कोनसेल
सोमोंग ते सुन्दरोम तेरोब् ॥

३१४

आता कोनघेर पाडुता
छडी कोनसेल लोडोंगा चोलता ।
लेरेः कोनघेर पाडुता
छडी कोनसेल लोडोंगा चोलता ॥

(७६)

३१५

ऊलामल डांड ते राजाः
तीलासारी बोकोब केः गुर गोड्की
मसाल तरदी येपे राजा की
तीलासारी बोकोब केः गुर गोड्की ।

३१६

मलार आः कोलेज्
योये रे मुन्दर साय राजा ।
मलार आः कोलेज् ढेलका सोरेंग
योये से मुन्दर साय राजा ॥

३१७

डुगुर डुगुर डुर गूड्
डिन्डा बेटा ठोःठी बोंग तारोः ।
हाय रे चुंगडाः गोड्झूंग बोःते
डिन्डा बेटा ठोःठी बोंग तारोः ।

३१८

हायरे लेरेः कोनोसेल
कोचा ते कुसू तांञ्ज् गामतेम ॥
गोरेज मॅयाः कोनोसेल
कोचा ते कुसू तांञ्ज् गामतेम ॥

३१९

कुवा कोलेंगआः बोंग कोनसेल
रागोम नो चोलता ॥२॥
गोटा तेरना लेरेः—ता
रोःनो ला तेरना रगोम—जोमता ॥२॥

३२०

आनी से मा बॅकलुई तारना,
बॅकलुईयाः कलगा ईकुड् युंङ्ते ।

बँकलुई तारता, तारता कलगा बायेनिंग,
बँकलुई कलगा केलोम बो: युँड्ते ॥

३२१

तपकर मुम्बो: ते आरेकी लेरे: कुलम,
इँया: बेटाईग एबो:ता ।
धाँयते तेनते रून् रे झून
तपकर तूता ते आरेकी लेरे: कुलम ॥

३२२

सोनोर मू:ठी तरावरी राजा,
बाकेन कडरू ते तारो: ॥
सोनबिरा बोसोंए डाँड ते,
सोनोर मू:ठी तरावरी राजा
बाकेन कडरू ते तारो: ॥

३२३

हीरा राजा हीरा: बोले
सोमधी जोरायो: ।
बेटनोम को जुवान की
हीरा: बोले सोमधी जोराये ॥

३२४

सका पोयोर बूंग डो:कीम राजा
हांथी ते डोड् कनोब् कोलंगपुर अकुबना ।
बेटनोम ते अकुफोब् छपायोब्
हांथी ते डोड् कनोब् कोलंगपुर ॥

३२५

कोनोन मोनोन कोनसेल ते
आबु गिलेम दादा लेरे:ना तेरेम ।
आखिर को अमा: लेबुगा
आबु गिलेम बोयो लेरे:ना तेरेम ।

३२६

सिरकी केएज्ना चोलकीम बोई
ऊम पालेम बरोया राईज ।
गोरेज मेया: चोलकीम बोई
ऊम पालेम बोई बरोया राईज ॥

३२७

ए रूसूंग कोकरो सुलेसे कोकरो
जीयोम नोम चोना ।
गोरेज मेया: कोकरो
जीयोम नोम चोना ॥२॥

३२८

होजे: बेरा: बिज्डोम, बोरिंग ला: तेरे नो ऊम्बो: ।
होजे: बिराना: बिज्डोम, बोरिंग ला: तेरे नो ऊम्बो: ॥

३२९

कोनोन भेरे बिहायो:की
गिता: ना को गियाल रो: ला:ता ।
बिहाना को बिहायो:की
गिता: ना को गियाल रो: ला:ता ।

३३०

डिन्डा बारु नो बोई ओनमो: बारु ।
इडिब जो कलकल मेया: जो कचकच
डिन्डा बारु नो ओनमो: बारु ।

३३१

ईया: बेटिंग ते इना रो: कोनघेर ऊमेम जाब्तेम् ।
ईया: बेटिंग आ: रेशेम फुदेना
ईना रो: कोनघेर ऊमेम जाब्तेम् ॥

३३२

मुरुन जो बोंगकी गाली जो पा:की
इधय रो नना बिनो नंग चोना ।

जाती लाः जाती भलाय रोः साती
इघय रोः नना दिनो नंग चोना ॥

३३३

बेराः रुसूंग भन्डा
हीरा पूर ते भिलमिलाय गा चोलता ।
राजाः ला रुसूंग झन्डा
भिलमिलाय गा चोलता ॥

३३४

सिंगकोय तारोब् बेलासा कोनसेल
केन्डोरनोम ते झड़ी पोटा तेरोब ॥
गोरेज मॅयाः बेलासा कोनसेल
केन्डोरनोम ते झड़ी पोटा तेरोब ॥

३३५

हारे करम हरा ईयाः डिन्डा भेरे
आबु ओनमोंः नाम ।
आम जो डिन्डा ईज जो डिन्डा
ईयाः डिन्डा भेरे आबु ओनमोंः नाम ॥

३३६

आना बोकसेल कान्डराएज् बाड़ी
ऊमींग चोलना बाःठी जुराः तोःते ॥
कान्डराएज् बाड़ी लेवेम लेदाः
ऊमींग चोलना बाःठी जुराः तोःते ॥

३३७

रुसूंग ओरेएज् ते ओबसोंगे भगिना
कोनोन कूलाम आः थोम कन्डाय लामना ।
सोंगोलपुर ते कन्डाय आईज्
कोनोन कलाम आः थोम कन्डाय लामना ॥

३३८

अराब डुः कन्डायबोः
बोरोल पाको ते लछीः रो योंखोः ।
अराब डुः कन्डायबोः
बोरोल पाको ते लछोः रो योंखोः ॥

३३९

हारे हारे डिन्डा दादा
सोरी सांगो दादा मेलाय टुतेज् ।
आम ते दादा बेकार योतीज
सोरी सांगो दादा मेलाय टुतेज् ॥

३४०

ईज ते बोई बाएज् नम लाः
लुवा जराः हिलाय रो तेरिंग ।
गोरेज मॅयाः बाएज् किम लाः बोई
लुवा जराः हिलाय रो तेरिंग ॥

३४१

डोलोंग ते खण्डा लावके ता
कोईल सितिल ते कोलेएज ताकी ।
योये हो हिरा राजा
कोईल सितिल ते कोलेएज ताकी ॥

३४२

कोनोन कोनसेल महा कोनघेर
हायरे कोनसेल ईयाम रेःता ॥
मान्डा भीःतर ते सेईरगा लोङ्गा
हायरे कोनसेल ईयाम रेःता ॥

३४३

कोनसेल आः सका आंखोब रे कोनघेर
बोकोब नोमाः टोहीला लोरेगा चोलता ॥२॥

माएकी गोसाईंया ऊर्मज लडाते
बोकोब नोमा: टोहीला लोरेगा चोलता ॥२॥

३४४

ए गंगाजल
तोमलेंग आ: छली गुड कुंवा:डा: ॥२॥
योये से गंगाजल
तोमलेंग आ: छली गुड कुंवा:डा: ॥२॥

३४५

कवाई एबो:नापे रे पाएज् कोम्
चटीया: डाँड ते ॥२॥
मो:भी डाँड ते जुवा एबो:की मोंय
कवाई एबो:नापे रे पाएज् कोम चटीय: डाँड ते ॥२॥

३४६

ऊ:फे पलटन पाएज्कोम
गेधनी कौवा: गुड् मेंडरेगा डेलताकी ॥२॥
थाम साए गोली: मेलायो:की
गेधनी कौवा: गुड् मेंडरेगा डेलताकी ॥२॥

३४७

रेंडे गुडलु ऊबजायोब
इना सोमधी रागोम गोड्किम् ॥२॥
सावन भादो ऊपजायोब
इना सोमधी रागोम गोड्किम् ॥२॥

३४८

लोको साए बोकतोर साए
ताबकर दरू सुम्बो: ते भुमारी एबो:ता की ॥२॥
राजा: ओओ: ते केलोम ऊर्मी बेबरोठोब
ताबकर दारू सुम्बो: ते भुमारी एबो:ता की ॥२॥

३४६

थामकेल आघोरमिया

जोड़े खजर ते तारो: की ॥२॥

योये पेसे थामकेल आघोरमिया

जोड़े खजर ते तारो: की ॥२॥

३५०

लवंग आ: कोतका बायोब् रे पाएजकोम

तार गोड़े पाएजकोम आमते बेर मनहा ते ॥२॥

राजा: मुगाम ते बायोब रे पाएजकोम

तार गोड़े पाएजकोम आमते बेर मनहा ते ॥२॥

३५१

आपा: अरबडु: किम लोहोर सिंघ

मरहठा इघय लड़ेना चोलता ।

आपनोम को चोलकी चतरा गढ़

मरहठा इघय लड़ेना चोलता ।

३५२

बेरा: ला महा बेटडोम

घोड़ा तोबलूंग ते चाँवर डोलेगा चोलता ।

राजा: ला महा बेटडोम

घोड़ा तोबलूंग ते चाँवर डोलेगा चोलता ।

३५३

ई लम लम चोलकीम भाईया

कुन्डाबा: भाईनोम ते तारोब ॥२॥

किनिर लाम लाम चोलकीम भाईया

कुन्डाबा: भाईनोम ते तारोब ॥२॥

३५४

बेरा: ला भागीना कुन्डू:

सुरली गाय ते तारो: ॥२॥

(८३)

राजाः ला भागीना कुन्डूः
सुरली गाय ते तारोः ॥२॥

३५५

बन्डा हांथी ला रखल साहेब
सहिया जोरायोब् गोबिन्द साय राजा बंग ॥२॥
भोले ज्रींमी बेबरोठोब् ला रखल साहेब
सहिया जोरायोब गोबिन्द साय राजाबोंग ॥२॥

३५६

कोएनाराः लेरेः कोनघेर कुलम्
राएमुली कन्डायनोम लुसुइ डोमताएज् ॥२॥
ओले होनताय ऊबर एकड़ी रुपैया
राएमुली कन्डायनोम लुसुइ डोमना लाःसीः ॥२॥

३५७

पोखरा लायोब राजा
हायरे पोखरानोम भोले रोः युंठोः ॥२॥
रानी भीरी हिरी एबोःता
हायरे पोखरानोम भोले रोः युंठोः ॥२॥

३५८

बेरनीयाः सोनोंग लगायोब्
झोरा रे बेटा ॥२॥
बीरू केशेलपुर ते
बेरनीयाः सोनोंग लगायोब् झोरा रे बेटा ॥२॥

३५९

भाईया ते ठिसाये
बिरंदा किनिर ते लम लम एबोःना ।
बिरंदा किनिर ते लीला खजर
भाईया ते ठिसाये लम लम एबोःना ।

३६०

बाहर बरोया: पाएज्कोम कुलम की
भी:तर बरोया ते ताम्बू तोम्बगोनो:की ॥२॥
हिरापुरीया राजा चोलकनकी भी:तर बरोया
पाएज्कोम कुलम की ताम्बू तोम्बगोनो:की ॥२॥

३६१

कुटुमा ताय बेरोडकिम राजा
पाएज्कोम की ऊमय गा रो: मानेता ॥२॥
आमा: मोन मुऊ:खो चोलकिम राजा
पाएज्कोम की ऊमय गा रो: मानेता ॥२॥

३६२

रासम बो: साय एबो: नापे लेरे: कोनघेर
ऊ समय कि:ते तो: आवना ॥२॥
ऊ समय माँ दुलार गुड आईज्
रासम बो: एबो: नापे लेरे: कोनघेर ।
ऊ समय कि:ते तो: आवना ॥२॥

३६३

लेरे: कोनघेर ला
कोनसेल ते तीई: मेलाय गोठोब मुरून डाँड ते
गोरेज मेयाँ:
कोनसेल ते तीई: मेलाय गोठोब मुरून डाँड ते ।

३६४

ऊ:फे कोनिया ढोंटी ते
डोड डोडेम री मलारीन कोनसेल ।
काडोंग तारना
डोड डोडेम री मलारीन कोनसेल ।

३६५

गेबताएज् गेबताएज् बीरू भाँकोय
मुईज्डा: फेनिगा हे:जो ना ला:सी: ।

फफा फेनिगा लेंग चोलताएज्
मुईज्डाः फेनिगा हेःजो ना लाःसीः ।

३६६

बेर कमते मुईज्डाः साः
चावडा बाड़ी लेदेम लेदा ।
माँ कमोः मुईज्डाः साः
चावडा बाड़ी लेदेम लेदा ।

३६७

बगडायोब बाबू रे हजुरे
राईज नोम को ओड़ोःओ गा चोलता ।
राईज नोम को अमाः सोपेगा
राईज नोम को डूबे गा चोलता ।

३६८

कूपुंग रामना चोलकिम बोई कोनसेल
लूवा सूम्बोः ते भुमर कुईजतम् ।
गियल जोनो ऊम्बोः कोनसेल
लूवा वारु सूम्बोः ते भुमर कुईतजम् ।

३७६

हारे लेमेड् डुः कोनोसेल
कोड़ी नोमाः लुतुय ते सुरूम डोइते ।
मोःभी तोः ते लेमेड् तम कोनोसेल
कोड़ी नोमाः लूतुय ते सुरूम डोइते ।

३७०

ओमपाय भरिया ते
कोनसेल ते इना ऊलहायोब ।
आडेल डाः गरजेता
कोनसेल ते इना ऊलहायोब ।

३७१

केसेलपुर आः राजा
घोल साय भरिया लोयो गा चोलता ।
डेरा ये बसा ये राजा
घोल साय भरिया नोम लोयो गा चोलता ।

३७२

धांयपे ला थाम साय पराधीया
ऊःफे खाधना खजर चोलकानताएज् ।
देव ओमपाय सितिल तिज् ।
देव ओमपाय जो डाः तिज्
खजर मलके गा चोलताएज् ।

३७३

आता घाट ते डकायोः की
बेचू सींघ तोलडोम कोन गोएज् की ॥
रूचु सोरेंग ते डकायोः की
बेचू सींघ बेरी ब्रोंग तोलडोम की ॥

३७४

आता बगाईचा
सालु मैना चरे बेरे ।
रानी बगाईचा
सालु मैना चरे बेरे ॥

३७५

सोनबिराः दोसोंय डाँडते
कडरू तरनायगा डेलता ।
गोरेज् मेयाः कडरू
तरनायगा डेलता ॥

३७६

सोनबिरा चोलकीम् राजा
सोनाः कोम ते मेलायोब ।

(८७)

सोन बिरा दोसोंय डांड ते
सोना: कोम ते मेलायोब ॥

३७७

बीरोम बो: कुइजनाम बेटीज
रा:आ राआ: लेको: ता रो गुरता ।
गोरेज मेया: कुईजतम नो रे बेटीज
रा:आ राआ: नोम लेको: ता रो गुरता ॥

३७८

लम लम आबु चोनम साहेब
मेय: ते बोकोब नोम ओगुर डोमना ।
कोनोन थाना महा थाना
मेय: ते बोकोब नोम ओगुर डोमना ॥

३७९

मोलोय मोलोय रे मोलोय भाईया
मोलोय कोम ते मेलाय गोठो: की ।
खजर को चोल गोडकी
मोलोय कोम ते मेलाय गोठो: की ॥

३८०

पालीको:टा ते डोंगीय: डा:
डोंगीया: डा: साहर ते चोलता ।
पूजाये देव घरिया
डोंगीया: डा: साहर ते चोलता ॥

३८१

साहेब आरेकीमोय बिरू किनीर ते
हाय रे बिरू किनीर ते ।
लम लम एबो:ता मोय हायरे बिरू किनीर ते
लम लम एबो:ता मोय बिरू किनीर ते ॥

(८८)

३८२

रांची लोहरदागा: जोरी बेरी ओबसुते मोंय ।
साहेब हुकुम तेरो: जोरी बेरी ओबसुते मोंय ।

३८३

इना रे भोरा बेटा
डा: भी:तर ते इयाम ताम ।
राजा हीरा बोरते
डा: भी:तर ते इयाम ताम ॥

३८४

भी:तर ते रानी ईयम ता
बाहेर ते टोहीला सोधोमता ।
ओन्डोरेपे से पो:दा: लेबु की
बाहेर ते टोहीला सोधोमता ॥

३८५

तुरीअम्बा: भरानो
जोड़ी नागेरा सोधोमता ।
अींमी बेबरोठोब भरानो
जोड़ी नागेरा सोधोमता ॥

३८६

बाप रे अपाईज आ: अरब डु:
जुंग जुंग कन्डाय मेलाय डोमता ।
तेर गोडे ऊबर एकड़ी रूपया
जुंग जुंग कन्डाय मेलाय डोमता ।

३८७

बेर भाईया आतु चोलकी
कुलमडया:आ रोमोनडा: गूरता ।
आम भाईया टोड़ी चोलकिम्
कुलमडया:आ रोमोनडा: गूरता ॥

(८६)

३८८

बेरा: भरिया २ दीरोम दीरोम

बो: चोलता ।

राजा: भरिया दीरोम दीरोम

बो: चोलता ॥

खंजायो: मोय भरिया,

राजा: भरिया महल भी:तर ते ईयमता ।

३८९

टोनटी बिरू ते ई कोन्थेड् तोरो:ता

कोको पाको, पाको तेगा लामते ।

गोरेज् मेया: कोन्थेड्

कोको पाको, पाको तेगा लामते ॥

३९०

हाय रे बेलोंग लूवा

अमा: सु:खो गुर जोमतम् ।

बेलोंग ना को बेलोंग किम्,

इडिब ते गूर जोमकिम् ॥

३९१

आता राईज ते राजा देवनाथ साय

पोथी पोढ़ेना पोढ़ेनाते राजा महुरा तेरो: ॥

डोएंसा नगर ते राजा देवनाथ साय

पोथी पोढ़ेना पोढ़ेनाते राजा महुरा तेरो: ॥

३९२

जेमेड् जेमेड् गोलगं ऊड्तेम,

बेटिंग तेको ऊमिग तेरे, पेनियाय गोड्ना ।

आबु गारो: तेरेम मां, जेमेड् जेमेड्

गोलंग ऊड्तिग, बेटिनोम पेनियाय गोड्ना ।

३६३

हाय बनाय भरकुल पतर कीम
गोडेभूंग ते लीसाय लोसोय गा चोलतम ।
लुवा जरा: बो:ते पतर कीम
मॅया: ते लीसाय लोसोय गा चोलतम ।

३६४

ए मामी जोई बेइटनोमते, मामी, शकोय डोडते ॥२॥
डोडते ला: डोड गुडु भगिना
बारो जोड़ा गिनिंग तेरे रो डोड़े ॥ २ ॥

३६५

बिहू गोबता किनिर गोबता
गोंडलो: मुईजडा: गुनानी करायते
फेइनगा फंफला: लेंग यारो: की
आपा: परिया गुनाईन करायते ।

३६६

धरमा: दुर:ते कालो राजा
सारकोन सिंगकोय सूनगते ।
पंगोडे भाईया कालो राजाते
लोटाते धोगे रो काटा गुजंग गे ।

३६७

पुरखा राजा: जोरमे ठांडो मेलाय
राजी बूलीना चोलकीम ।
कि:ते मेमोन बूलीकीम
थाके लोयो कोनकेल गा
हिरापुर डाम कीम ।

असारी पाडुं

३६८

भरकुल रे भरकुल
तोबडिर आः मलाः बोंग
लोःखा गुडतेम ॥ २ ॥
मुरडाः दिनो ते
तोबडिर आः मलाः बोंग
लोःखा गुडतेम ॥ २ ॥

३६९

केडन यायअ कुडअ वारू डेवताएज्
यायअ आरेता नो ऊम्बो ॥२॥
हो कोनघेर यायअ लोडो लोडो तैएज्
यायअ आरेता नो ऊम्बो ॥२॥

४००

चुटाड डोम, कोम तुंजते
डाः भिःतर ते कुटोः तारते ॥२॥
महा डोम गोली गलते
रेंगोल तोबलुंग ते कुटोः तारते ॥२॥

४०१

बेरला रंथ ऑनते
तपकर मुम्बोः ते तोंगोंन की ॥२॥
चुटाड डोम रंथ ऑनते
भिली मिली रंथ ऑनते ॥२॥
महा डोम रंथ ऑनते
भका मका रंथ चोलता ॥२॥

४०२

डाः ओलना चोर्लाकिम कोन्सेल
केन्डोड अलॉग नो अलॉगता ॥२॥

मेयागा: नेडा ते
केन्डोड अलोंग नो अलोंगता
मुरडा:ते नो माँ डा: नो गिमते
केन्डोड अलोंग नो अलोंगता ॥२॥

४०३

कसीरा: कोनसेल भुती चोलता
घाट तेगा कबसेंग डोमकी लेरे: कोनघेर ॥२॥
मो:झी तो:ते अपा भुती चोलता
डोम्बाबिरा घाट ते कपसेंग डोमकी रे कोनघेर ॥२॥

४०४

एनमागा: गुडलू जेरिब
घुमरे घुमरे गोलांग ऊडते रे लाडु महतो ॥२॥
एनमागा: गुडलू जेरिब
घुमरे घुमरे गोलांग उडते कोनोर डाँड ते ॥२॥

४०५

सिंगकोय सुलो: रे पतर की
बेरोडना से हरमजावी
सिंगकोय सुलो: रे पतर की ॥२॥
ओन्डोरे से महाराज
सिंगकोय सुलते पतर की ॥२॥

४०६

बेरा: रूसूंग ओरेज
नीम हारा ते पि:जना चोलता ॥२॥
राजा: ला रूसूंग ओरेज
नीम हारा ते पि:जना चोलता ॥२॥

४०७

टोरटोरी केंडोड तोरो: ता
भूती लेबू कीते बिदा तेरते ॥२॥
बेड़ो योलो: नेडा भेरे
भूती लेबू कीते बिदा तेरते ॥२॥

४०८

बिन्ती कराय लेरे: कोनसेल जोड़ी
कोनसेल रागोम गा चोलता ।
काटा बिन्ती कराय लेरे: कोनोघेर
जोड़ी कोनसेल नोम रागोम चोलता ।

४०९

ई देवता ते मानंतेम राजा पाइलको:टा ते
संकड़ो कड़रु ते सुंगतेम ।
सात खन्डी देवता मनंतेम राजा
पाइलको:टा शहर ते संकड़ो कड़रु ते तारोब

४१०

इना रे कयार भोरी धासे नो गोडकीम ।
चारियो सिनीग भबरेकिम
इना धासे नो गोडकीम ।

४११

ई फिकीर करायोब डिन्डा कोनसेल
खिरिकी दुराते इयाम ताम ।
ओगा: फिकिर बुंग उम्बो:
कोनघेर फिकीर बुंग इयामता ।

४१२

आबू इयामना कोन्डु:, मानोम को
खिरोम सितीलते बिडा जा:ना चोलसी: ।
गोरेज मॅया: बिडा जा:ना चोलकी
आबू इयामना कोन्डु: ।

४१३

बिरु केसलपुरते एरण्डी या: कबटो
लगाय गोडेम भोरा रे कोनघेर ।
एरन्डी या: कबटो सात महला
एरन्डी या: कबटो लगायेम रे भोरा कोनघेर ।

४१४

इंग को उमींग चोना
बापरे बसिया राजी ।
बसिया राजी ते को बन्धेना छन्देना
बापरे उमींग चोना बसिया राजी ।
ऊ राजी छोटानागपुर हैरे
हिरा नागपुर: छोटानागपुर,
गंगा नागपुर ।

४१५

बडी या: माँडोम डा: श्रोलना चोलकी
काडोंग ते योना तेरो: खाँखड़ाते योना तेरो:
बोंगडा: ते बिन्डा बोंगगा तारो: ॥२॥
बडी या: आपड़ोम लाम लाम चोलकी
खजर ते चोना तेरो:, सेलहोब ते चोना तेरो:
बान्डो ते कोतेका बोंग तारो: ॥२॥

४१६

बेरा: ला कड़र कुलम की
हरियार किनिर ते आरजों:ना चोलता ॥२॥
राजा किया: कड़र ला कुलम की
हरियार किनिर ते आरजों:ना चोलता ॥२॥

४१७

ई कुसू बोंग राजा गोएज गोडकिम
तिरिब लेखे सोधोम सोधोमता ।
कुसू रंगा बोंग राजा गोएज किम
तिरिब लेखे सोधोम सोधोमता ॥

४१८

सोनोरा: सिनी रुपागा: रोडकोन
सिलो:ना कोनघेर, सिलो:ना कोनघेर
जियोम नोम कोईलता ॥२॥

लुदुर फुदुर तोबडा: धुचूर-धुचूर बिडा
ओने कोनसेल, ओने कोनसेल जियोम नोम कोईलता ॥२॥

४१६

ईघय बोरोल नानिंग ला नाँगबॅसी राजा
ऊ:फे मेमोन डा: ऊम गिमो: भोरे हिरापुर ते,
ईघय बोरोल नानिंग ला नाँगबॅसी राजा ।
बसाली गाय ते जो ओबसोंगो:निंग
ईघय बोरोल नानिंग ला हिरापुर ते नाँगबॅसी राजा ।

४२०

बेर राजा बौड़किम
नाव कुजला हाँथी ते तारोब् ।
काटा बोकोब ते सोड़ोम
केके: बोंग तोलोब ।

४२१

धाँगर गोती चिरो तोनसील
बारसाँधे कन्डाय ओलते ॥ २ ॥
माँएँज जो ऊम्बो:
अपाएँज जो ऊम्बोडिज
बारसाँधे कन्डाय ओलोएज ॥ २ ॥

४२२

कोंगको लेको कोनसेल रोवा ओनना चोलकी
बांकलुइ लेखे लियो कोयो होयता ।
गोरेज मॅया: रोवा ओनना चोलकी
बांकलुइ लेखे लियो कोयो होयता ।

४२३

छतर धोगे राजा
राइज नोम को मु:ना रो: ला:सी: ।
राइज नोम को डम्बा डोल होएकी
राइज नोम को मु:ना रो: ला:सी: ।

४२४

हरे आयो हरे अपा
बारो जुग को कनियाँ लामोब ॥ २ ॥
सादि बिहा करायोब समय चोलकी
बारो जुग ते अपा कनियाँ लाम कायोब ।

४२५

आमा: थोंग नौ हर बोनतेल,
गोटा कुदा लेटो ज्यों:ते ।
धांगर गोती चिरो जोती
भुड़ी गा कुदा लेटो ज्यों:ते ।

४२६

बरोया जसपुर ते माँ जोई
बिजली तारकेलेंग ता ॥ २ ॥
डा: गिमो: माँ जोई
भुमा भुम डा: गिमो: ॥ २ ॥
भुमा भुम डा: गिमो: माँ जोई
गोएजलो: नाईग भोरेकी ॥ २ ॥
गोएजलो: नाईग भोरेकी माँ जोई
बाँकलुई हिड़ो ते डोको सी: ॥ २ ॥
बाँकलुई हिड़ो ते डोको सी:
कँडोड भोले भोले अलोंगता
कँडोड भोले भोले दुरँगता ॥ २ ॥
कँडोड भोले भोले दुरँगता
बाँकलुई भोले भोले सिलो:ता ॥ २ ॥
बाँकलुई भोले भोले सिलो:ता
जामड़ी भोले भोले पटा काडते ॥ २ ॥
जामड़ी भोले भोले पटा काडते
डूँडलु भोले भोले बिडा छिटाते ॥ २ ॥
डूँडलु भोले भोले बिडा छिटाते
खाँखड़ा भोले भोले रोवा ओनते ॥ २ ॥

खाँखड़ा भोले भोले रोवा ओनते
ढेचूवा भोले भोले महतो चलायते ॥ २ ॥

४२७

आता कोचा ते . . . तिरिब ओडेफो:
आता कोचा ते डा: गिमो: ॥ हो आता कोचा ॥
नागपुर ते . . . तिरिब ओडेबफो:
नागपुर ते गिमो: डा: ॥ हो नागपुर ते गिमो: डा: ॥

४२८

इंगजो डिंडा आम जो डिंडा,
आना सहिया भोटानांग चोनानांग ॥२॥
भोटानांग राजी कामु कोन डेनानांग,
नागपुर एंगकोन डेनानांग ॥२॥

४२९

राजा जे गिलते राइज या: घाड गिलते, प्रजा को
खेती या: घाड गिलते माय ॥२॥
राजा को लड़ेता तरबाइर धो: कोन,
प्रजा को लाठी डंडा: धो: कोन ॥२॥

४३०

कोसोर उला: लेंगकी रो चोलकी
हिन धाय जियोम लेंगकी ॥ हो हिन धाय ॥
आते २ जियोम चोलता,
हिनते २ कायानोम लेंगता ॥ हो हिनते २ काया नोम ॥

४३१

आतु उनो:पे तोनसिल लुवांग, आतु २ सिनि
रोडकोन आतु चोलकीपे पांचो रे भाया ।
ओ: ते गा तोनसिल लुवांग, डांड ते गा सिनि
रोडकोन, आतु चोलकी पे पाँचों रे भाया ।
हो आतु चोलकी पांचो रे भाया ॥

(१००)

४३२

कोनोन मोनोन सिंगकोय सुलोः,
आना कोनसेल डुरुङ्गना चोना नांग ॥ रे आना कोनसेल ॥
होबोः ते जोनोः, होबोः ते गा साःमु
आना कोनसेल डुरुङ्गना चोनानांग ॥ हो ॥

४३३

आना से बोइ चटी इन्दो चोनानांग,
योना बूंग इघाय योता ॥ हो योना बूंग ॥
भङ्गी लेबु गामतेकी इकुड सुन्दर योता
योना बूंग इघाय रोः योता ॥ हो ॥

४३४

मोइंग पाथाः गोलांग आवकी हिन गोलांग
जोङ्गेम रोः लाःता ॥ हो हिन गोलांग ॥
चिपाय सेरे भैया, ताजे सेरे भैया, गोलांग
इकुड सेबोल आइज ॥ हो ॥

४३५

सातो दुरा सातो खिरकी,
सातो दुरा सोलोः भाबरु ते ॥ हो ॥
बेरोडना से बेंटी तारदी नो बगाये,
सातो दुरा ते सोलोः भाबरु ते ॥ हो सातो ॥

४३६

मुरुन जो बोंगकी गाली जो पाःकी
ईघाय रो नाना दिनो नंग चोना ।
याया जो गोएजकी तंतंग जो गोएज को
बेर रोः नाना खातिर तेरे ।

४३७

इडिब जो कचकच तुनबोः जो कचकच
हारे बरेंगी इ मेमोन तेरोब ॥

(१०१)

ओं:ना ऊडना ईजो ऊम कुइता
हारे बरेंगी ई मेमोन तेरोब ॥

४३८

अहाँज बेटी आराम की, ऊगा: दादा ऊघय रो: योता
जना पातर गोरेज मॅया: ऊगा: दादा ऊघय रो: योता

४३९

मां जोई दुलारो इ जन्म तेरोब ।
कोनोन भरे अराब्, डु: मां जोई इ जन्म तेरोब ॥

४४०

ओंए से बेटी जिड़ोय नोम
ऊम्बो: दादा तुडा रो: तेरींग ॥
मुसा को दादा एकादासी की
तुडा मेलाय मांएगा: रो: तेरींग ॥

४४१

सेनकोम जोरी नाना जोई सेरिगा रा: सी:
आना नाना चोनानाँग सेरिगा बोएजना ,
आना नाना चोनानाँग सेरिगा रमना ।
ढीरी रीरी गामे भरे कोचा ते सिरें ओंगेनांग
ओं:ना ऊडना इजो ऊम्बो: नाना
कोचा ते सिरें ओंगेनांग ।

४४२

बरोया राजा: गुड् केवरा
बेरजो ऊमाय ओनते ॥२॥
जसपुरिया: गन्डु राजा
बरोया राजा: गुड् केवरा
बेरजो ऊमाय ओनते ॥

(१०२)

४४३

आजी जोई खाजर तारना बोंग मेंया: की ॥
आजी जोई खाजर तारना बोंग जनवडीबा:
लोयो आईज् ,
आजी जोई काटा ईयाँ खीमे ।

४४४

आय कुलमडईज कुइजना, आना मां अपा योना डेना...
मोय ॥ हो मां अपा योना० ॥
इडिब् ते को उमोंय योयो:, तामा को योना
डेना मोय ॥ हो तामा को योना डेना...मोय ॥

४४५

मान्दडीते...आबु बुगे भाइंग,
इंगते कुलडा: जाबते ॥ हो इंगते कुलडा: जाबते ॥
कुलडा: बारुना ला: भाई
कु:डींग कुज्ना चोनाइंग ॥ हों कु:डींग० ॥

४४६

आतीज् ताय डे...लकीम कांसारे बंकलुइ
कोंडेङ्ग तोभलुंग ते डोको ॥ की हो कोंडेङ्ग० २ ॥
मुनु: सिंगताय डे...लकी कांसा बंकलुय
कोंडेङ्ग तोभलुंग ते डोको की ॥ हो० ॥

४४७

हय दइया...आपा: साका रे,
दुराते सिपाही डोको...सी: ॥ हो दुरा ते सिपाही० ॥
आले सेरे सीपाही बही पट्टा योना तेरे,
गोला ओरेज ओबयो गो...डींग ॥ हो गोला ओरेज० ॥

४४८

सिलो: डांडते बेटी जोइ, लोंगोय रो: योते ॥
आसार सावन ते बेटी, लोंगोय रो: योते ॥

(१०३)

४४६

उ जे: को बेरा: सिकिरा,
गाम गोड़े भाई सिकिरा: गि. . .निंग ॥
सिकिरा: गि. . .निंग को भाई बण्डी कोनतांग,
तेरे गोड़ेम भाई सिकिरा: गि. . .निंग ॥

४५०

बेर ला बो. . .यो चुलु उ:ढेयोब
हजारो काडोंग बभा. . .योब ।
भोले उींमि बेबरोठोब
हजारो काडोंगते ता. . .रोब ॥

४५१

बेर ला बोयो, डा: भि:तारते मंगर ते तारोब ।
सांगसांग रांगल बोयो, डा: भि:तार ते मंगरते तारो: ॥२॥

४५२

भोरा बोयो खिरोम सिनिंग ते, बनसी एबो:ताम ॥२॥
बनसी डोइर तेज गोडकी, भोरा बेटा गुनाइन कराये ॥२॥

४५३

रानीया: पडसोर मुहुम चोलकी हिरा राजा ॥२॥

४५४

आता किनिर ते महरा, गाय गुपातेम,
तिरीयो रियो खुतु पेडतेम ।
मो:भी किनिर ते, गाय गुपातेम,
तिरीयो रियो खुतु पेडतेम ।

४५५

कम्पनी तेलंगा हिलो डोलो,
सोना टोपरी नोम गुर गोडकी ।
भुंइहर आ: (मया:) भुम राजा,
सोना आ: टोपरी गर गोडकी ॥

४५६

कोराम्बे याः बास देवता मछिन्वर देवता,
रागोम गा चोलकी ।
पूजा कराय दुधा खड़िया मछिन्वर देवता
रागोम गा चोलकी ।

४५७

डाः लेखे फाफा डेलकी मोय,
बाः गुडलू ते योंः मोयोः की ।
सावन भादोते आरे किमाय फाफा,
बाः गुडलु ते योंः मोयोः की ।

४५८

बेर ला बोयो कोम तुंयोब,
डाः भिःतार ते मंगर ते तारोब ॥२॥
भगिना देवता कोम तुंयोः,
डाः भिःतार ते मंगर ते तारोः ॥२॥

४५९

हो छाता बेरः छाता, छाता ते भिलपी आईज ।
छाता को लेरेः कोनघेराः हेके छाता ते भिलपी आईज ।

४६०

मारदा डिपाते भिलमिली कोनघेर को
लांघेताइंज गामते ।
ओले से बोई नो बिती छाता इंगते डाले रो डोडे ॥२॥

४६१

बेरला बाबु बोनतेल गुपाते कुंवा बाड़ी
रःरःअ बाइर केवरा ते फोःते ।
सोमता पतार ते बोनतेल युखोः गोले
भेरे केवरा ते फोखोः ।

(१०५)

४६२

आडेल डा: गरजे गा डेलता,
आना सोंया दारु बो:ते बानचेना ।
ओरतोनो: उला: ते बेलना बायेनांग
कोरको:टा उला: बूंग डल डोम ननांग ।

४६३

बेरा: ला: रूसूंग ओरेज
नीमो हारा ते पिजना चोलता ॥२॥
राजा: ला: रूसूंग ओरेज
नीमो हारा ते पिजना चोलता ॥२॥

४६४

ए पोनोमोसोर तोबलहूंग ते बांधो कोंगओब ॥२॥
लेबुकीया: मोड् ते रोमोड् डा: गुरता
ए पोनोमोसोर तोबलहूंग ते बांधो कोंगओब ।

४६५

घोल उबर तोनोंग अपा
रुतु पेड्तेम रुतु सोबधोमतेम ॥ २ ॥
तावा: गोंग गोंग पे: अपा
बेरते तेरिंग बेरते मेलाईंग ।

४६६

रूसूंग रे रूसूंग गाय नंग
रूसूंग गाय नंग किनिर ते आरजों:ना चोलकी ॥ २ ॥
आबु खेडेम किडो: आबु खेडेम बुगाम
मुसगा: जोरमे बछरू नंग बेतोड् बोंग गोएज् गोड्ना ।

४६७

बेरला: कुलाम भाईसी कछोब
रारा: भोरे केवरा ते फो:खो: ॥ २ ॥
कोनोन कुलाम भाईसी काछो:
रारा: भोरे केवरा ते फो:खो: ।

(१०६)

४६८

आता किनिर ते महारा गाय गूपातेम
तीरियो रियो रूतु सोधोमता ।
अखड किनिर ते महारा गाय गूपातेम
तीरियो रियो रूतु सोधोमता ॥

४६९

भागिना नैयां: कलगा ते
हीरा ओम्पाय तुडा: डोड्ते ।
योये रे भोरा बेटा
भागिना नैयां: कलगा ते
हीरा ओम्पाय तुडा: डोड्ते ।

करम (कुआरौ) पाड़

४७०

ए राजा दुबराज साए,
घोड़ा तोबलूंग ते,
तारकेलेंग गा चोलताम ॥
सोनबीला चोलकिम राजा दुबराज साए
घोड़ा तोबलूंग ते
तारकेलेंग गा चोलताम ॥

४७१

बाबु आः अपा डोम बोई आः माडोम,
कुङुः नोम को इया..मता ॥

४७२

हो कोनसेल दादा इंगते बोनतेलरोः गा..मते,
बोनतेल हेकिंग लाः कोनसेल रोडकोंगे रो सिलोःना,
हो-कोनसेल दादा इंगते बोनतेल गामते ।

४७३

होन गामते लाः बोयो ते, पांगोडे,
इंग गामतींग लाः डुरुंगना चोल..ताइंग ।
मेंयागाः कायोम ओन्डोरे से,
होन गामतींजलाः डुरुंगना चोल..ताइंज ।

४७४

बेराः रूसुंग सिकोय, मुलेरे सिकोय मेया..की ।
राजाः रूसुंग सिकोय, मुलेरे सिकोय मेया..की ।

४७५

सिकोय अण्डा लामे कुलाम भया रे,
आजीयाः तोनमे कुङुः होय..की ।

(११०)

गोरेज मेया: सिकोय अण्डा लामे भया रे,
आजीया: तोनमे कुंडु: होय...की ।

४७६

करम दौड़ाते बेटी जोई, कुंडु नोम को इया...मता ।

४७७

इना कोनसेल...लोरोब भोरोब, इंजाँ कायोम
ओंडोर डोड़े रो चो...नाम ।

इंया: कायोम कोनसेल दुनिया ते छबाय यो:

इंया: कायोम कोनसेल ओंडोर डोड़े रो चो...नाम ।

४७८

बेरा: रूसुंग कोकरो मुले से

कोकरो पतार गोडताईज ।

राजा: रूसुंग कोकरो

मुले से सिंगकोय पतार गोडताईज ।

४७९

हारे दैया निंदारी कोनसेल,

हारे दैया लेमेड आ: लेमेड ।

गोरेज मेया: लेमेड आ: लेमेड,

हारे दैया निंदारी कोनसेल लेमेड आ: लेमेड ।

४८०

आना से बोई खुटी कु:डींग,

मो:भी कालोब ते छेकाडोम कीनांग ।

मो:भी इडीब ते खुटी कु:डींग

मो:भी इडीब ते छेकाडोम कीनांग ।

४८१

जोरला कडरू ते ओमपाय छेकायो:

हायरे दैया रोमोड डा: गुरता ।

सावन भादो ते ओमपाय छेयायो:

हायरे दैया रोमोड डा: गुरता ।

(१११)

४८२

इंग को उमींग चोना अपा हो बसिया राईज ।
बसिया राईज डँडेना फंदेना
इंग को उमींग चोना अपा हो बसिया राईज ।

४८३

जाति जाति गामोब राजा
जाति नो की:ते तो: आवना ।
घोल उबार जाति करायोब राजा
जाति नो की:ते तो: आवना ।
गोइजकीम सीडकीम खोड़ी कीया: बंग
जाति नोम की:ते तो: आवना ।

४८४

लालु राजा दुबराज,
रानी या: राईज लुसुइ डोमताईज ।
रानी नोम अमा: जिमा ते,
राईज नोम ते लुसुइ डोमताईज ।

४८५

बेरा: बाय बाय कची बंगेला
कची बंगेला लोजो: गोडकी ?
कुवांर साहेब बायो: कची बंगेला
कची बंगेला लोजो: गोडकी ।

४८६

बेर गुडी डेम्बु केजते,
अबु गुडी अबु केजना तेरे ।
डेम्बु च:खना डबल डुबल,
अबु गुडी आबु केजना तेरे ।

४८७

तीले २ राजा देव साय
गांगी जमनी नोम लोजो:गा चोलताईज ।

(११२)

मोःभी इडीब ते राजा
गांगी जमुनी नोम लोजोःगा चोलताईज ।

४८८

देवान २ बोरिया देवान
खपरा ओः नो लोजोः जोमताईज ।
मोःभी तोहोन बोः ते बोरिया देवान,
खपरा ओः नोम लोजोः जोमताईज ।

४८९

ताताईंग ते तेरे भुंडोंग मारची,
दियो गोरेज डेलता ।
ताताईंग ते तेरे भुंडोंग मारची,
इंग नाना सींगकोय डाः जोंगिंग ।

४९०

खीरोम सितील ते गेतुपानी,
आतु कुयेम राजा निरंग डाः ।
एगना से राजा गेतुपानी
पाइलकोःटा ते कुयेम राजा निरंग डाः ।

४९१

आजी जोई ।
डाली भिःतर ते तारदीयोब ॥
करम मुमोब आजी ।
आजी जोई डाली भिःतर ते तारदीयोब ॥
मुनगा हरा ।
अमाः तिज डोडेम नो इयाः तिज् आवना ॥

४९२

लेरंग रे लेरंग मुःरेल कीम
सिनकोम रे सिनकोम जुहा एबोःता ॥

मोःभी तोः इडिबते रे लेरेंग मुःरेल की,
सिनकोम रे जुहा एबोःता ॥

४६३

मोलोय कुलाम, मोलोय परगना
पुर नोम ते आबु हीलेना तेरेम ॥२॥
पुर आमाः-आमाः जीमा गा
पुर नोम ते आबु हीलेना तेरेम ॥२॥

४६४

अमाः लेखे आर्वाकिग कुलाम
तेंग गाः कन्डायबोः गोर्डाकिग ॥
मांगाः कुन्डूम ते आर्वाकिग कुलाम
तेंग गाः कुलाम कन्डायबोः गोर्डाकिग ॥

४६५

बीरू सितिल ते मासो रोःनो जाःना
लाःकीम यया जोई ।
किङोः तारसोड कोनोघेर तेंगोः ते रो डोडते ।
गोरेज मोयाः मासो रोःनो जाःना
लाःकीम यया जोई ।
किङोः तारसोड कोनोघेर तेंगोः ते रो डोडते ।

४६६

खिरोम पारो आः कोनोसेल दादा जोई
योए से दादा हो कोनोसेल
पारोना रो पारोना गा लामते ।
खिरोम ते कोड़ी पंको डाः रोःनो डेलता ।
योए से दादा जोई हो कोनोसेल
पारोना रो पारोना गा लामते ।

४६७

ई कुमु बंग गोइजकीम राजा,
तिरिब लेखे बजा नो सोधोमता ।

(११४)

कुमु रंगा बंग गोइजकीम राजा,
तिरिब लेखे बजा नो सोधोमता ।

४६८

मघा डाँड़ ते कोले: रिरियायता, ।
तारे से सोने राम आमते बेर मना कराय ।
कोले: तारतार कलेगा बायोब कोनसेल,
अमा: बोकोब ते भोरे बोकोब सोखोब ।

४६९

आतु चोलकीम बोई जोड़ी कोनसेल,
ओलकाय गोडे बोइ लोटाते डा: ।
कोमु रंगाते हो जोड़ी कोनसेल,
ओलकाय गोडेम हो लोटा डा: ॥

५००

टोन्टी बीरू ते इ कोन्थेड तोरो:ता,
कोको पाको, पाको तेगा गामते ।
माँइ की कोडपुडू: उमिंग लाडाते
कोको पाको, पाको तेगा गामते ॥

५०१

धिमिर धिमिर खाडु चोलता,
मने आवकीम कालो महतो ।
सावन भावो खाडु चोलकीम,
मने आवकीम कालो महतो ।

५०२

दिरोम बो : कुइजनाम बोई जोई,
रा:रा: नोम को लेको:ता रो गुरता ।
इन्दो डाँड़ते कुजताम बोई जोई,
रा:रा: नोम लेको:ता रो गरता ।

(११५)

५०३

बेर ला बोयो कोइला गोरोठोब,
करकड बिरुते मोः डोम नो चोलकी ।
नायगोम ला कुलम कोइला गोरोठोब,
करकड बिरुते मोः डोम नो चोलकी ।

५०४

आतु चोलकीम लेरेः बोयो,
खिरोम ओमपाय भोरे गा डेलतैज ।
हाय समुरारि चोलताम रसिका
लेरेः कुलम खिरोम ओमपाय भोरे गा डेलता ।

कुवारी पाड़

५०५

डुहंगसोल ते तोमोंग गुडलु कोनसेल ?
गोरेज मेया: डुहंगसोलते गुडलु कोनसेल ।

५०६

होजे: को हेके भगीना,
हिलो डोलो बोकोबके: तोलसी: ।
उबार ति: कोनसेल जोड़े सी:,
हिलो डोलो बोकोबके: तोलसी: ॥

५०७

भगिना: सिगारते हिरा ओम्पाय
तुडाखोब रो डोठोब ॥
छेकाये से भोरा रे बोयो, भगिना: सिगार
ते तुडाखोब रो डोठोब ॥

५०८

संमपेड़ेनारे बेचू सिध,
लिला घोड़ा बिनुरे सोभाय ।
लिला घोड़ा गोइजकी,
भाँषरो बिरु जोंगोड गोडकी ॥

५०९

लेरांग रे मु:रेल की,
सिनकोम रे जुवा एबो:की ।
मो:भी तो: ते मु:रेल की
सिनकोम रे जुवा एबो:की ।

५१०

लेरांग भ्रिलीमिली मु:रेल के,
इना लेरांग गहेना धोखो: ।

(१२०)

धेयान कराय लेपड़ा खड़िया,
तोबेगा गहन छुटेना ।

५११

योम ला बोयो छेकाय ला
मराः को लोडोगा डेलता ।
लमलम डाँड़ मराः
लोडोगा चोलता ।

५१२

खड़ खड़ी तुबलुंगते लोहर सिंघ
चोल कानकी बरवय राजी ।
गोरेज मॅयाः लोहर सिंघ,
चोल कानकी बरवय राजी ।

५१३

द्विरोमबोः आॅनेम तेलेंगा,
गाड़ी ओरेज लोयो गा चोलता ।
राजा हजुर ते तेलेंगा गाड़ी,
ओरेज लोयो गा चोलता ।

५१४

बेर ला बोयो सोबोरन साय,
होडोमाः बेटेते सुन्दरोम तेरोब ॥
आखीर को बोयो सोबोरन साय,
होडोमाः बेटेते सुन्दरोम तेरोब ॥

५१५

बेर ओलोः मरहट्टा बरांगी,
नागपुर ते जेहेल करायोब ।
नागपुर ते भिल्लीमिली डांडीया,
नागपुर ते जेहेल करायोब ॥

(१२१)

५१६

तुनबो:ते गोब गोब बोई जोई
इडीबते कु:ढिग कुइजना चोलता ।
गियाल जो उम ला:ता बोई जोई,
इडिब ते कु:ढिग कुइजना चोलता ।

५१७

बामडा दुराते राजा
नौ साय भरिया लोयो गोडकीमोय ।
डेरायेसे बासा येसे
नौ साय भरिया लोयो गोडकीमोय ।

५१८

आतु ताय डेलकिम कौवा:
मोघेर बेलेड उगुर टुयोब ।
मुनु:सिंग ताय डेलकिम कौवा:
मोघेर बेलेड उगुर टुयोब ।

५१९

सुकुरडा डोंगा घाट ते लेबुकी
इघाय तुडा: डोमकीमाय ।
योय से भोरा बेटा लेबुकी
इघाय तुडा: डोमकीमाय ।

५२०

बेर योयो: लेरांगते
छाता लेखे मु:रेल गा डेलता ।
कोनसेल योयो: लेरांगते
छाता लेखे मु:रेल गा डेलता ।

५२१

माइकी कोडपुडू: उमिंग लाडाते,
बेरा:ते बोई लेरे:ना चोनाम ॥

(१२२)

आम्पा: को बोई भाई नो बोन्द
बेरा:ते बोई, लेरे:ना चोनाम ॥

५२२

मुरगु शहर ते पोखरा लायोब नो राजा ।
हिरा राजा गोइज गोडकी, कोनोन राजा महुरा तेरो: ।

५२३

लेबु जनम मोंइञ्जंगा जनम
इना आजी जोई रागोम चोलताम ॥
डा: भोरे काया कायोमता
इना आजी जोई रागोम चोलताम ॥

५२४

ऊ:फे कोनिया ढोंटीते,
डोड कानो: मलारिन कोनसेल ॥
काडोंग रो:नो तारना,
डोड कानो: मलारिन कोनसेल ॥

५२५

चांदवा घाट ते डेरा यो: तोमलेंग खड़िया कुलार्मिग की ।
किनीर २ पोड़ोब् लायो:पे रो जियोम बुयो:पे ।

५२६

डोम्बाते खांड़ा भलकेता
ओम्पाय सिर्निग ते लरेका होय की ॥
योय सेरे भोरा बेटा,
ओम्पाय सिर्निग ते लेरका लड़ाई होय की ॥

५२७

कुंटुवां रे बागेसेरा कि:ते एबो:कीपे
इन्वो कु:ढींग ॥
तिन साय खेलडी ओडेफोब, साय एबो:
एबो: कीपे, इन्वो कु:ढींग ॥

५२८

हायरे याया कंडायबो: बोरोल पाको ते
लुजे रो जोंगे ।

किड़ो:खेड मुछीया राजा की
राजी ते लुसुई कोन डोठो: की ।

५२९

- १ रो:डा: गढ़ पा:टो गढ़ पुरखा ठांड़ो
ओ हारे दाईया कुंडब मेलाय टुयोब ।
- २ सो:तो खन्डा बसाली गाय
बेरोड कोन हिरापुर ते डामकीम ।

५३०

- १ आमते नागो बेर रेमा:सी: धाय नागो चोनाम ।
- २ आम को नागो बेटो किया: गिता चाड़ी चोलताम
आमते नागो बेर रेमा:सी: धाय नागो चोनाम ।
- ३ आम को नागो बेटो किया: कालो
आमते नागो बेर रेमा:सी: ।

५३१

- १ खड़िया राजा सेम्भो राजा,
कुन्डु: नोम हकोन नोम पुर छपले की मोंए ।
- २ पोनोमेसोर सोरीते अगुर ते गुपा: ते

५३२

- १ कि:ते रो: लेरे:ननांग जोड़ी कुलम
आना से आजी डाय लामना ।
- २ आजी डाय तेरे बासी डा:
आना से आजी डाय लामना ।

५३३

- १ गुडलु डुरुंगना गामते भेरे को बोई जला जपीडताम ।
- २ कोनघेरा: मन्दड़ी सोधोमता भेरे को बोई डीडीताम
रो धोतेम ।

५३४

- १ बेरा: रुसुंग बोकोबके: केलोम:, बेरा: लहंगा सुडता
बोयो आ: केलोम बोकोबके:, बोईया: लहंगा सुडता ।

५३५

- १ भ्लाईर धोती नाईंग मां बिन्डा बोकोबके: नाईंग सिडकी
आना से मां लामना तेनतोन बो:ते गाय छन्देयोएज
आना से मां होबो: तेगा लामना ॥

५३६

- १ अमा: जो ईञा: जो कोले: टोंया,
सोगेनांग नना सिगांर ननांग नना ।
२ अजा को दियोगा रो: डेलता अजा ते नाना तेरे
भूडोंग मरची दियोगा रो: डेलता ।

५३७

- १ आता बिरुते ओलोंग रो: सायते
ओलोंग साये कोनघेर ओलोंग रो: साये
भोड़ी डा: गिमते भेरे भूड़ी चीज गा सुडता
२ कोन्डेंग बिरुते ओलोंग रो: सायते ॥२॥

५३८

- १ एबो: नापे ॥२॥ लेरे: बेटेंग की
उ समय की:ते तो: आवना ।
२ उ समय मां दुलार लेखे, एबो: नापे ॥२॥
लेरे: बेटेंग की,
उ समय कि:ते तो: आवना ॥

५३९

- १ टुंठगु जरा: तुंगलुइज हारा
हिन हारा लुकु कीभींग बो: ॥२॥
२ तोबलूंग ते लेरे: कोनघेर केजता २ तेरते
तुताते लेरे: कोनसेल राम ज्यों:ते ।

५४०

- १ मंना ते मंना ते डोडकनोः देवसाय राजा
अम्माः थोंग मंना सोनोराः पिजरा
मनाते मंना डोडकनोः देवसाय ।

५४१

- १ खिरोमाः डाः ते राजा गिताः बेड़ा
आतु कुएम राजा लोरेंग डाः ।
२ एंगना २ राजा पँलकोःटाते राजा लोरेंग डाः

५४२

- १ गोड्भूंग २ चोनाम रे तेलेंगा
कुन्डुम नोमते आबु हिलेना तेरेम ॥२॥
२ कुन्डुम नोमते मोंएज हजार रूपिया
कुन्डुम नोमते आबु हिलेना तेरेम ॥

५४३

ए होन गर्मातिग लाः बाबू ते पंगोडे
ईंग गर्मातिग लाः लेरेःना चोलतंग ।
गोरेज मँयाः गर्मातिग लाः
होन बाबू ते पंगोडे ईंग लेरेःना चोलतंग ।

५४४

बाएजकीम लाः को बोई तेरे तिगाः मुःधी
मुंदेरा बायना ।

५४५

भका मका रंथ चोलतैजः तबकर दारू ते छेका डोम की
सूंगे रे गोसाईः तबकर दारू ते छेका डोम की ।

५४६

हो छत्ता बेराः छत्ता,
हो छत्ता ते भिलपी आईज
हो छत्ता लेरेः कोनघेराः छत्ता
हो छत्ता ते भिलपी आईज ।

५४७

हो गुंगु बेरा: गुंगु
हो गुंगु ते भिलपी आईज ।
हो गुंगु लेरे: कोनसेला: गुंगु
हो गुंगु ते भिलपी आईज ।

५४८

गुंगु ते जतानेम कोनसेल
कुन्डाब ते डा: आईज ।
भङ्गसोंग ते ओखोडेम कोनसेल
कुन्डाब ते डा: आईज ।

५४९

- १ तेनतोन सुम्बो: ते गाय नंग छन्देयोएज
हारे बाईया बछरू नंग तोरो:तैज ।
- २ ओले से माँ जोई सिली सम्पड़े नंग
हारे बाईया बछरू नंग तोरो:तैज ।

५५०

- १ बेरा: ला कुही बेरा: ला बेसेरा
जरियाते कुही छु:टे गोडकी ॥२॥
- २ राजा: ला कुही राजा: ला बेसेरा
जरियाते कुही छु:टे गोडकी ॥२॥

५५१

- १ ई बेवता मनतेम ला कालो बेवसाय
पैलको:टा सहार ते मोलोय
एकड़ी बॉनतेल नो तारोब ॥२॥
- २ सो:तौं खान्डा: ते मनतेम ला कालो बेवसाय
पैलको:टा सहार ते मोलोय एकड़ी
बॉनतेल नो डेछोब ॥२॥

५५२

- १ ईना बंटी जोरोब जोरोब
ईञ्जाः कायोम ओन्डोर डोड़े रो चोनाम ।
- २ ईञ्जाः कायोम राजी टपायोः
ईञ्जाः कायोम ओन्डोर डोड़े रो चोनाम ।

५५३

आता किनिर ते महारा नंज गुपातम
तिरियो रियो रूतु पेडतेम ।
रोनोब किनिर महारा गुपातम
तिरियो रियो रूतु पेडतेम ।

५५४

ई कोनथेड तोरोःता मोःभीतोः ते बिरू तुताते ।
भंगराज तोरोःता मोःभीतोः ते बिरू तुताते ।

५५५

कोनोन भरे बिहायोः
गिताःना को गियाल रो लाःता ।
गोरेज मॅया कोल योना
हनतिज उतिज अंकेलगा चोलता ।

५५६

गुतु रे भाँवरा सोलोः
पोडोंग ते ठंका ठोड़े गा डोडतेम ।
हाड़ी रे भाँवरा सोलोः
पोडोंग ते मेलाय गोड़े ।

करम अलॉग

५५७

हायरे कोरमो दिनो

एनमा: लेमेड जो ऊम डेलकी, कोरमो दिनो ॥२॥

माँ को जन्म तेरो:

आपा को कोरमो तेरो:

उ मेमोन लेमेड जो ऊम डेलता, कोरमो दिनो ॥२॥

५५८

चुंडा: गोडभुंग ते निपुर रंनकेगा डेलता,

निपुर रंनकेगा डेलता ।

हारे ईंजां: जोड़ी नाईंग, हरे ईंजां: सांगो नाईंग

चुंडा: गोडभुंग ते रंनकेगा डेलता ॥२॥

५५९

करम २ गामोब रे कोनसेल

करम तो: इघाय डामना ।

सावन भावो चोल कानकी

कुवारे लेरंग करम मुमोइज ॥२॥

५६०

कुटवां रे बगोसेरा, बगोसेरा कनियाँ

बोरो:मोय । हो बगोसेरा कनियां बोरो:मोय ।

लमचंगीया पतर चंगीया आमते नोरे

कनियां तेरेमोय, हो आमते नोरे कनियां ।

५६१

रांचीया: गोरा पलटन डुरुन्डा सहरते छेका

डोमकीमोय, हो डुरुन्डा छेका डोमकीमोय ।

महां रानी चिट्टी लिखा डांगो:

डुरुन्डा सहरते छेका डोमकीमोय ।

५६२

पाइलकोःटा ते मेलायोब राजा
आतु कुएम राजा नीभोरो डाः ।
रांची सहर चोलकीम लोहोरदगा चोलकीम
हिनते कुयेम लोरेंग डाः, राजा हिनते कुएम लोरेंग डाः ।

५६३

अरमाई पोखरा ते आंझील भोरे गोडकी,
हो आंझील भोरे गोडकी ।
उम पालेम देवीलाल सरदार,
आंझील भोरे गोडकी ।

५६४

लुन्डी डीझोंब लुन्डी डीझोंब
कयार लोंगोयते लुन्डी डींजते ।
बोकसेलाः थोंग लिला सरी लुतूइ, बोकेराः थोंग
गमछा, हो कयार लोंगोयते लुन्डी डींजते ।

५६५

मनोवा की को लुवा लुकु लेखे,
मेमोन २ जोरोम ताकी ।
दारू राः राः गुड मोकोः ताकी
हायरे मनोवा सोबरे सोबरे मोकोः ताकी ।

५६६

योना बूंग को वुनिया, दारू लोंगोय लेखे योता ।
टोला टोला ते वोकान लेखे, योना बूंग उम गा योता ।

५६७

सिरकी केजना बूंग को, मां जोई, अराबडूः होयकींग ॥
डांड आः तोंडेंग राः राः गुड, मां जोई, उपुंग डोडतेज ॥

५६८

बेराः गा गोला अरोरेज,
(नीम) नीमो हरा पीजना गा चोलता ॥२॥

अपा: गोला ओरेज, नीमो हरा
पीजना गा चोलता ॥२॥

५६६

आमपा: परिया को ओरेज ते मलांग ला:धेयो: ॥२॥
ओय से मां ईन्ना: कौडी डांडा: नाइंग,
मलांग ओरेज छेकाना चोलतंग ।

५७०

ओय से मां तुम्बा ते रुमकुब, इंग को मा
सिनी डेजना चोनाइंग ॥२॥
सिनी डेजींग, ओलींग ला:, मां, गुडलू बीजोम,
गोडा: बीजोम बिडींग ।

५७१

योलो:तीज ताय तिरीब डा: डेलता
कुडा बेलोम लेखे योता ।
ओ:डेलकींग ला: को
मुंजडागा: मोड गुड योता ।

५७२

की:ते रो: बोई किलिर२ नाम,
बोकोबा: कालगा लोरेगा चोलता हो ॥२॥
जनापतर बोई किलिर२ नाम,
बोकोबा: कालगा लोरेगा चोलता ॥२॥

५७३

की:ते रो: बोइ भालाफुला नाम
द्विरोम समय चोलता ॥२॥
आमा: लेरे: बोइ इयां: लेरे: बोइ
पो:ठी डा: काडोंग लेखे छलकेगा चोलता ॥२॥

५७४

रा: रा: आरोना चोलकीम बेंटी जोइ
तोमोंग गोनबीड एंगना ला:की ॥२॥

(१३४)

ओले बेटा रा: रा: गमींग ला: को इते तेरींग
हो, इते तेरींग, इजो उम्बोडेज ।

५७५

जसपुरिया राजा बेटा, सेइरगा रामना,
उम तेरते ॥२॥
रामना को तेरते, बराबाइर बखरा बोरते,
बराबइर बखरा बोरते ।

५७६

करमा: मला: बंग जवा इंग जा:मायोज
जवा इकुड दगा तेरोब हो ॥२॥
आम ते जवा सेवा करायोज
जवा इकुड दगा तेरोब हो ॥ जवा इकुड दगा० ॥

५७७

नागफेनी डींगा घाटते हिरा राजा
दरेशन करायते, हिरा राजा ।
पूजाये कलोगा: हिरा राजा
दरेशन कराय हो ॥२॥

५७८

बेटा जनम तेरोब आयो,
लो:खा: मन्दडीया: घाड इयामता हो ॥२॥
बेटा जनम तेरोब आयो,
डो:रेङ्ग लुतूईया: घाड इयामता हो ॥ डो:रेङ्ग० ॥

५७९

मुंऊगा बेटा खिरोम पारो ओबसोंगोब खिरोम
भोरेकी नहियर मेलयडोमकी ॥२॥
खिरोम तोबलुंगते डोंगा, डोंगा तोबलुंगते लेबु,
लेब आ: रोमोड डा: गरता ।

५८०

चोनाम चोनाम, चोनाम मैना पलामु राजी हो ।
चोनाम मैना पलामु राजी ॥
पलामु राजी केलोम २ कानियां, चोनाम मैना पलामु
राजी हो । चोनाम मैना पलामु ।

५८१

मुनगा जो ओनोब दादा,
हिन मुनगा बोरोल गोडकी हो ॥२॥
सिंगकोय मुलो: पतार की
हिन मुनगा मुहम चोलकी हो ॥२॥ हिन

५८२

एनमागा: डा: बारखा,
तोभलुंगते बांधो कोङ्गो: हो ॥२॥
चावड़ा: डा: अजोड की,
बुदनु काडोंग हे:जोते ॥२॥ बुदनु

५८३

कयार कोचा बांधो कोंगते
सेमड़ी कोचा पोइनी चोलता हो ॥२॥
हिन बांधो पा: गोडकी,
डांड गोजलो: ते डा: चोलकी ॥ हो

५८४

मां आवना भेइर, अपा आवना भेइर रे, कुजना ले
एबो:ना लेरे: रे ॥ कुजना ले एबो:ना ले ॥
आयो गोज गोड(की)ना अपा गोज गोडना
घोल उबार बिपइत रो: होयना हो ॥
घोल ऊ:फे खिलपइत ॥

५८५

लेजतेम आयो, लेजतेम अपा इडीब
मेयां: आयो लेजतेम हो ॥ जाना पतार आयो० ॥

मुःनाइंग रो चोनाइंग लाः को आयो, उ राइजते
राइज उमिंग गामे रे । उ देश ते देश० ।

५८६

आखड़ा ते जोड़ी मन्दड़ी सोधोमता सोउनाज ते
इकुड लेमड डेलता हो ॥ सोउनाजते इकुड लेमेड० ॥
बेरोडना सोउनाज आना सोउनाज
सोरी २ कुःडींग कुजना निग हो ॥ सोरी २ कुःडीं० ॥

५८७

आमते कोनसेल बेर रेमाः सीः, धाय कोनसेल चोल
गोजना...रे, हो ॥ धाय कोनसेल चोल० ॥
भोरोम लेरेः भेरे आमते कोनसेल बेर रेमाः सीः
धाय कोनसेल चोल गोजना...रे, हो ।

५८८

रांची ते लड़ाई होइकी, डिगरी होयना नो उम्बोः ।
हो डिगरी होयना नो उम्बोः ॥
डिगरी को होयना लाः कुलम, जिनगी रे मुद्दाई होयना ।
हो जिनगी रे मुद्दाई होयनामोय ॥

५८९

आमीन जे डेलकी गोजलोःते एडते, (चावड़ा २
सिकरी डीजते ॥२॥)
साहेब ई नकल करायते ॥
आमीन जे डेलकी गोजलोःते एडते, चावड़ा २ सिकरी
डीजते । हो चावड़ा २ जरीब० ।

५९०

अपाः परिया भोलोंगाः भ्रोः...रे,
बेटाः परिया लपराः भ्रोः...हो ॥२॥ बेटाः परिया लपरा
अपाः परिया कम् उम चोलकी
बेटाः परिया कम् चोलकी हो ॥ बेटाः परिया कम्० ॥

५६१

हरे इजां: सहिया कुलम आतु चोलकी,
आतु उम्बो: हो ॥ आतु चोलकी आतु ॥
ससुराइर चोलकी जोड़ी, एंगभा:ना नो
उम्बो: हो ॥ एंगभा:ना नो उम्बो: ।

५६२

आबु लेजेम आयो, आबु लेजेम अया,
लेजेमा: जो बेरा: दुरा चोनाइंग ॥ हो० ॥
आले सेरे आयो अया, पुस माघ डेना तेरे,
गाड़ी डेबनाइंग भोटंग चोनाइंग ॥ हो० ॥

५६३

एनमागा: दिनो सोउनांज आते आवकीम, बोर बोर
बोरगा डेलताम ॥ सोउनांज बोर २ बोरगा० ॥
इयां: नहियर भोरे लेबु रे;
इंग सोउनांज एंगनाइंग नहियर रे ॥२॥

५६४

खिरोम सिनिंग आ: कोनसेल बड़ा ऊपर इकुन अंगुलडिडी
डोको २ योना लामते ॥ हो डोको २ ॥
किनकार कामु उतुनते, ससुर कामु एतोङ्गते
हिन भेरे कोलेज रो: ला:ता ॥ हो ॥

५६५

रायता रायता गामतेम बोइ,
करम दिनो इघाय डेना रे ॥२॥
सावन भादो कुहुइ बेरोड की, कुवारते
करम सुमडोमना रे । कुवार ते ॥ सुमडोम करम० ॥

५६६

कोनोन मोनोन तपकर बारूते
तोभलंग ते कोले: डोको की ॥ २ ॥

२, ओले से रे मां ईजा: का: कोम
तोभलूंग ते कोले: डोको सी: ॥ २ ॥

५६७

गुडलु पे: चकोंडा: चा:खना सीरोंग सोटोंग
लेटो पे:, हो सीरोंग सोटोंग लेटो चा:खना ।
सीलो: ताय डेलकींग लाय लाय ताय डेलकींग
सिरोंग सोटोंग चखेना हो ॥ २ ॥

५६८ .

आतु आ: गोडभुंग संगोड लेबु
लुतुइ छाता बोंग युंडते ।
राजा: ओ: चोलकीम हाकिम ओ: चोलकीम
लुतुइ छाता बंग युंठोब ॥ २ ॥

५६९

ची:को रे ची:को कुलम, बड़ी भि:तार ते लेबा
करायो: हो, बड़ी भि:तार ते लेबा करायो: ।
ना लेबा गोलेकी, ना लेबा बेलोमकी,
खीस बंग चि:को कोनसेलते गीलते ।

६००

आयो गे दुलारो, आता पुरते गे आयो कनियां
जुङ्गोब, आता पुरते गे आयो कनियां जुंगोंब ।
धीरीजा धोगे रे बेटा, भोइंसी नागपुरे, रे,
बेटा, बेटा कनियां जुंगोइज ॥२॥

६०१

ओसेल २ धोती नाइंग मां जोई,
धोती नाइंग इघाय कोडिल गोडकी ॥२॥
डोबको काय रे धोबिनया कोनसेल,
धोती नाइंग इघाय कोडिल गोडकी ।

(१३६)

६०२

आखड़ा लखोब पोडछोल इकुड डिसाःरे,
करमा सुमोब मोःभी खोड़ी ते ।
करमआः सुम्बोः ते दौड़ा भोरे राः२,
दौड़ा ते तारदी नो सलगेता ।

६०३

कुन्दा रे कुन्दा महतो, भगिना ते कुन्दा बृंग तारोः ॥२॥
भगिना याः कुन्डूम ते कुंडूः आइज
भगिना इ दोसीयोः ।

६०४

रुसुंग लोःखा लायता लायता भिगीया इंग ओनोएज
हारे भिगी राः २ बेड़ो मुःसींगकी नो जोरोम गोडकी ॥२॥
कोट कौया राः२ की, भिगी राः२ कोसोर की,
हारे भिगी राः२ गोइ, बेड़ो मुःसींगकी नो जोरोम गोडकी

६०५

डांडरजिया डिण्डा कोनघेर,
तबकार उलाः मडेवा सुमते ॥२॥
बिदा तेरे आयो बिदा तेरे अपा,
चोनाःथोंग राइज इकुड डिसाः ।

६०६

इ एबोः एबोःकीम रे नवागढ़ीया,
राइज नोम लुसुडोम गोडकी ।
जुवा एबोः एबोःकीम रे नवागढ़ीया
राइज नोम लुसुडोम गोडकी ।

६०७

आमते रे कोनसेल खांखड़ा धोखोः,
आमते कोनसेल बेरगा रोः छोडाये ।

आमा: जोड़ी कोनघेर कोड़ा राइज चोलकी
आमते कोनसेल बेरगा रो: छोड़ाये ।

६०८

इ देवता बायोब हो राजा सिंग, दूरा ते
राजा बकेरा सुंगोब ॥२॥
राइज देवता बायोब हो राजा सिंग, दूरा ते
राजा बाकेरा सुंगोब ।

६०९

कोनोर दारू ते इ कोनथेड तोरो:ता
कोनोर दारू ते खोता बेलते ॥२॥
तारे से कोनोन कुलम रे
खोता चचा:की, पेनेर जो पिजकी ।

६१०

बुलकीम २ दादा
ओ:ते को केलोम रो: सेंबघोरोब ।
मुईंग मुडूब उठोब, उबार मुडूब उठोब दादा
ओ:ते को केलोम सेंबघोरोब ।

६११

सारकारी रोवा ओनना चोलकीम रे बोइ
सो:लुई भोरे सोखोब डेम्बू रा: रा: ।
आमते रे कोनसेल गियाल उम ला:ता
सो:लुई भोरे सोखोब डेम्बू रा: रा: ।

६१२

सुरेली ओरेजा: इजथांग रे,
जो:डागे आयो ओ: रो किनभार ।
जो:डागे आयो, जोडागे,
भिलीमिली ओमपाया: डा: बुंग ।

६१३

एनमागाः डाः बरखा,
मधेसेर ते रगोज गोठोः ॥२॥
पुजाये रे कालो ओगाः,
मधेसेर ते रगोज गोठोः ।

६१४

एनमागाः बंतोड दादा,
मुङ्ग पाथा कोमसोर नो डुङ्गतीग ।
गोंगोएज डेयोङ्ग डाः ओलना चोलकीग,
बोकेर नाङ्ग ते मोने उम लाःता ।

६१५

भिमिीर भिमिीर डाः नो गिमोः,
सिलोय सोकोय ओमपाय भोरे गोडकी ।
पबरो काये भोरा रे कोनघेर,
सिलोय सोकोय ओमपाय भोरे गोडकी ।

६१६

इना रे डिण्डा कोनसेल, नवाटोली
गोडभुङ्ग छेका डोमकीम ॥२॥
छेकाना को छेका डोमकीम, कोंगको आः
बन्देना नोम लुमुडोम गोडकी,
कोंगको आः मुंगा नोम लुमुडोम गोडकी ।

६१७

इना ला बेवपरिया ओरेजते इ लाःधे डोडतेम,
ओरजते इ लाःधे डोडतेम ।
कोंगको ते ओंखोठोब घांट घुमैर घांटी
डेङ्ग ते तोलोब मराःगाः झाइल ।

६१८

बेरोडना से कोनघेर सिगकोय नो मुलोः
भोईस को चोलकी लवा कालोब ।

बनुइ सिगकोय रेंब भेंब मुलतेजमोय,
आमते कोनघेर लेमेड जुघाय होइकी ।

६१६

तेनतोन सुम्बोःते भोंइसी बथानीया,
अम्बेरा बोःते गयाः आरञ्जोःता २ ।
सेंग सेंग गाया, हिनकड़ाः लोःढो भोंइसी,
तिरीयो रियो रूतु सोधोमता ।

६२०

धाय से रे कोनघेर ओःनाइग ते यो डेनाम
तोमोंग भांडा ओखोड आइज ।
रूमांग योके सिगार योके तोलोंग योके, ईगते
बाइजकीम हो तोलोंग ते रितयायकीम ।

६२१

भीमीर भ्रुटा डाः रोः नो गिमते,
कोनोन कुलामिगाः रूसुंग गामछा सुड गोडकी ।
कोनोन कुलामिग चोलताएज सोसराइर
रूसुंग गामछा डोम सुड गोडकी ।

६२२

गोमुलाः चिःको दादा, बोनोरिया कुलमडायते
उनोः हो, बोनोरिया कुलमडायते उनोः ।
महा कड़ते इसरता दादा,
कोनोन कड़ते इकुड लेबुइता ॥२॥

६२३

जोड़ी२ किया हडका, हिनते उन२ अयीज,
हाय देया जोड़ी कोनघेर अतू कुर्यींग ।
बाः रूमकुब कुर्यींग, सोना रूपा कुर्यींग,
हाय देया जोड़ी कोनघेर अतू कुर्यींग ।

६२४

मुङ्गा: सिडीज रा: रा:,
रा: रा: ते आबू केजना तेरेम ॥२॥
फिनकार तेरो: लुतूइ, बोकेर तेरो:,
सांगसांग टिपा, कोडपुङ्गु: भुङ्गी सिंगार तेरो: ।

६२५

कोनके: कोनके: पोण्डोड इंग पु:खोइज,
कोलेड कोण्डेंगा: पोण्डोड ॥२॥
पुरेइन ऊलागा: खोलडा: इंग पोठोइज,
डोड कानो: की राजा: पाइजकोम ।

६२६

अमा: केंडोर चोलकी टापू राइज,
हरे कोनसेल हाल जो उम डांगते ।
चिठ्ठी लिखाय कुलम, पतर लिखाय कुलम,
हारे दया हाल उम डेलता ॥२॥

६२७

रुचमुचिया बिरू कोडपुङ्गु: नहिंयर नाइंग
उम रो: नो योता ॥२॥
मुनु:सिग ताय मु:सिग की, हरे इया
नहिंयर भिल्लीमीली, इयां: नहिंयर भकामकायता ।

६२८

हो हीरे तोमने नगर ते बेर डेछो:,
तोमने कोंडेंग तोमने नगर ते ।
सोना कोंडेंग रूपा: दे:टोम
तोमने नगर ते, बेर डेछो:, तोमने कोंडेंग ।

६२९

पोखेरा हिङ्गते मुंज गा चपा रा:सी: लहंर २
मुये सेरे बोयो चपा रा: रा: लहंर लहंर ।

(१४४)

धाय सेरे कोनोन कुलाम केजकोन ओलेम ला:
मुये सेरे बौयो चपा: कलगा लहूर लहूर ।

६३०

योयो:ले कुडा मुम्बो: ते चंची कोनथेड
इकुड रनकेता हारे दया ।
धाय सेरे कुलाम नाइंग धो: कोन ओलेम कुडा मुम्बो: ते,
चंची कोनथेड इकुड रनकेता हारे दया ।

६३१

इना: थोंग इयामताकीयार बोरिया डोमोनकुइ,
राईजा: थोंग इयामता बोरिया डोमोनकुइ ।
तेर गोड़े राजा उबार परगना
वेना: थोंग इयामताकीयार बोरिया डोमोनकुइ,
राईजा: थोंग इयामताइज ।

६३२

बेतोडा: तीरीब रे
आता कोचा डा: रो:नो गीमो: ।
सजयो: सजिया बेलाई पलगंकी
बेतोडा: तीरीब रे ।

६३३

हसुंग ली:खा लाय कोन बांगेला बयोईज रे,
बांगेला भी:तार ते हटिया लगायोइज ॥२॥
धायसे रे कुलाम यो ओंडोर डेनाम बांगेला रे
बांगेला भि:तार ते हटिया लगायोइज ।
योना को योयोज दाबा ओंडोर न जो
ओंडोरोइज, दाबा बांगेलानोम लोरेंगडा: योता ।

६३४

गा:डा: साखीन घोरना:,
भौंगी भौंगी लोरेगा डेलता ।

(१४५)

न झींगी लोक्कुता, न भींगी राःता हो
भींगी लोरेगा डेलता ।

६३५

जोःडागे कोनसेल जोइ, जोःडागे ओः दुवार,
जोःडागे किनभार दुवार ।
सुरली गायआः इजथांग रे
जीरी हीरी ओम्पायाः डाः बूंग ।

६३६

आम को मामी गोलांग रो गोलांग
बेइटनोम ते सकोय डोडते ।
डोडते लाः डोड गुडूः भगिना,
मोलोय गोठांग गिनींग तांग तेरे ।

६३७

इना बोयो दुनूमनु, इना बोयो मोन नोमते
उबगुरयोब हे दाइया ॥२॥
सोंगकाइंग मांदड़ी, सोंगकाइंग ओखोड
हरे दइया, इना बोयो मोन नोमते उगुरोब हरे दया ।

६३८

हिरा हिरा गामोब रे नागपुरिया कोनघेर
हिरा आतू कुयेम ।
हिराः मलाः बूंग नवागढ़ तेरोइज
बिरू राइज तेरोइज हिरा छपले गोडकी ।

६३९

आम जो डिंडा इंग जो डिंडा
आना सांगो चोनानांग डोनजांग ।
आमपाः राइज सांगों दलाय२ मराः भाइल
आना डिंडा आमपाः राइज ।

(१४६)

६४०

ओले से गे मां जोइ ढकीयाः बाः
इंग को जनम सोंगना चीनाइंग २ ।
बाः रुम्बकूब कुयेम सोना रूपा कुयेम
हारे देया जनम अत्त कुइना ।

६४१

अता पूरते राजा जितिया करम सुमोब
पाःखो गुंजरे मान्दड़ी सोधोमता ॥२॥
मधुपूर ते राजा जितिया करम सुमोः
पाःखो गुंजरे मान्दड़ी सोधोमता ॥२॥

६४२

अता लेरेः कोनघेर आः कोलेः कलगा
सिंगकोए सुलाःते लोरे गा डेलता ।
ददाः कोलेः कालगा,
सिंगकोए सुलाःते लोरे गा डेलता ॥२॥

६४३

उबडुः गंगा धोती बोकोबकेः तोलोज
हेनबुडूः गंगा कुःढींग लाःसीः ।
पबरो काये भोरा रे बेटा
हेनबुडूः गंगा कुःढींग लाःसीः ।

६४४

तबकार लोकुता हराहराते
लुवा लोकुता भोथा भोथा ॥२॥
तबकार सुम्बोः ते भुडी सुमोः
लुवा सुम्बोः ते कुःढींग लाःसीः ।

६४५

बेराः किनभर ते
त्रम्पा राः राः राःसिईः ॥२॥

(१४७)

धाँए से बेटी यो डेनम रे,
बेर केजे हिनकड़ तेगा ओनमोंगीज ॥२॥

६४६

लो:खा: मन्दड़ी ददा कुवारी ठठीअर उसल बंग
डालोज हो ददा उसल बंग डालोज ।
तारान ते ओखोठोब ति: बंग बुखोब,
हारे दइया कटा बंग कुइज किम ।

६४७

मंगा: ओ:ओते अवकींग अपा: ओ:ओते
अवकींग, जिनगी रे मुदाई अवकींग ।
गुतु रे गमेम ला: को उबडु: गा देनाइंग
हाड़ीरे गमेम ला: को हेनबुडू:गा चोनाइंग ।

६४८

कुदा बिरूते लम लम एबो:की
इन्दो डांड ते बन्दुक ते तुण्डू रो:की ।
तारे से रे राजा: पाइकोम,
सेलहोब खजार उलू:गा डेलता की ॥२॥

६४९

अता पुर ते राजा थाना डोको की
मुडू कुलम बे:एठी चोलकी ।
राय रतन पुरे ते थाना डोको की
कोनोन कुलम बे:एठी चोलकी ।

६५०

आम बोइ चमेलो अतू चोलकीम,
पोडछोला: रूतू डोम तुडा: डोम गोडकी ।
उबडु: को गंगा हिनबुडू: को जमूना अतू
चोलताम चमेलो पोडछोला: रूतू तुडा: डोमकी ।

६५१

उबडुः जो टिसन हिनबुडुः जो टिशन,
मोःभी ते रेल गाड़ी चोलता ॥२॥
गाड़ी ताय आरे की दुरबिल बंग योयोः
चाह बगान हरियर योता ।

६५२

ई राः राः सोखोब रे कोनसेल,
बागजोगनी गुड तरक्लेंग तम ।
गेन्दा राः राः सोखोब रे कोनसेल
बागजोगनी गुड तरक्लेंग तम ।

६५३

भोइंसाः बथान डंडते कतोर इंग बिठोइज
जोंः गोठोः की किनीर आः खजार ।
कोनोन कुलम सिसा तरोः महा कुलम गोली तरोः
डोडकानोः की राजाः पाइकोम,
खजार आः चांवर ह्युरना ।

६५४

बिरू तुता ते लेदेम लेदा जाः रे, लदेना
ओरेज अरजोंःना चोलता ॥२॥
लदाय से बोंड़िया जोंने से बोंड़िया
कटाते धुड़ी बेरोड गा चोलता ।

६५५

ई कयोम बंग हारे किम गंगाडाः
डेरा डांड ते देचुवा ई हेःजोते ।
कयोमलांग बंग हारे किम गंगाडाः
डेरा डांड ते देचुवा ई हेःजोते ।

६५६

आरमाइयाः बगैचा ते इ तरक्लेंग
तरक्लेंगता, इ तरक्लेंग तरक्लेंगता ।

जसपुरिया राजा बेटा चोलताइज बरात रे
हिन भिल्लीमिली रे हिन भकामकायता ।

६५७

सोन बिला: दोसोइंय डांडु नरसिंगा
नगेरा सोधोमता हो, नरसिंगा सोधोमगा डेलता ।
दड़ोमेरे कलोओगा:
नरसिंगा सोधोमगा डेलता ॥२॥

६५८

करम को करम को इ लामते
कोचा ते गोलंग आयीज
दौड़ा ते कोलोग आयीज
हिनजे: गा बोरते ।
ओले किसड़ों डाए
जोल मुन्दरोम्
करम राजा चोलताएज्
गंगा ऊवा:ना ॥

६५९

तोन्डेंग डांडते हेले किमरे कोनसेल
तोन्डेंग लो:ते ईधाय लेमेडनामरे
लेरे: कोनघेरआ:ते सोमो किमरे कोनसेल
तोडेंग लो:ते ईधाय लेमेडनाम ।

६६०

तोन्डेंग डांड ते हेले किम कोनसेल ।
तोन्डेंग डांड ते लेमेड् जो ऊम डेलता ॥२॥
भीमिर भीटा डा: डेलता ।
लिसोय लोसोय ओमपाय भोरे सिई: ॥२॥

६६१

ई रा: रा: ओनोब कोनघेर ।
ईडिब तुमबो: चोलतम् ।

केलोम ईडिब तुनबो: चोलतम् ॥
गन्धा रा: रा: श्रोनोब कोनघेर ।
ईडिब तुनबो: चोलतम् ।
केलोम ईडिब तुनबो: चोलतम् ॥

६६२

करम, करम बेर डेज्ते ॥२॥
कालो राजा डेज्ते करम राजा ते ॥२॥
श्रोले कालवाईन ॥२॥
जोल मुन्दरोम ॥२॥
करम राजा चोना ला: सिई:
गंगा ऊवा:ना ॥२॥

६६३

चमैली रा: रा: हीरा गुड् तारकेलेंगता
बेर कुलम तारते ॥२॥
बेर कुलम पिज् पिज् बन्दूक ते
बेर कुलम तारते ॥२॥

६६४

डुरूंग सोल ते कूर कूर पेरवाँ
रेंब भेंब मॅडरेता की ॥२॥
तारे से डुरूंग बेटी
केलोम कूर कूर पेरवाँ: पेनेर पिज्की
कूर कूर पेरवाँ रेंब भेंब मॅडरेता की ॥२॥

६६५

भण्डार कोचा थाय, तिरीब डा: येंब लेंगा डेलता ।
खिरोम पारो ते तेरोब रे ददा जोई छता लेखे
बोटो डेलता । पुड गोडनाइज रे ददा जोई २ ॥

६६६

डिण्डा कोनसेल पिण्डा ते गिता: कीम
सो:लुई नोम सुहम चोलकी ।

अले से कोनसेल कोड़ा राइज चोना तेरे,
भिका खोमसो सोंगकायतेरिर्ज ॥२॥

६६७

अता तो:ते चोलकीम रे बरंगी अता तो:ते एंगकीम ।
घोल उबार मेमोनते चोलकीम रे बरंगी,
घोल ऊ:फे मेमोन एंग डेलकीम ॥२॥

६६८

कोनोन आवकींग ददा, जिरा धनियां लेखे...वकींग ।
सोना लेखे ओबसोंगोब ददा सोना लेखे
ओलेम रो डि:भार रेम । रूपा लेखे डि:भ रेम ।

ति: तोय डोम की हो दाइया ।
सांगो नाइंग इडीब मेया: रा: २ तोयते ।

६६९

मांदड़ी जो पा: की ददा, आजी डाय चोलकी लेखे ला: की ।
मांदड़ी जो सोंगोंब ददा, आजी डाय डेलकी लेखे ला: की ।

६७०

नागपुरिया डिंडा कोनसेल मां गा: कायोम उम
ओडोर...ते ।
केंडोर आ: ति:ईते सोमो कीम रे कोनसेल,
कुण्डाब तिईज लेदेरा भुलायोब २ ।

करम लहसुवा

६७१

मुसगा: इडिब ते बेर बोंग
एबो: नाइंग मुगाम मुगाम
जबजब सांगो आतु चोलकी ॥
तरान ते गमछा रांगो: कोन
ति:-ते धोखो: लोटा उवा:ना चोलकी ।
इञ्जां: जबजब सांगो ॥

६७२

कोनोन मोनोन कोनसेल,
डा: ओलना चोलकी गोई कोंग जोमे,
हाय रे लभाईर लभाईर डा:
बिड्ते गोई कोंग जोमे ॥२॥
सोनोरा: बिन्डा रूपागा: कुयू,
हाय रे लभाईर लभाईर डा:
बिड्ते गोई कोंग जोमे ॥२॥
बोकोब ते बिन्डा, बिन्डा ते कुयू,
गोई कोंग जोमे,
हायरे लभाईर, लभाईर डा:
बिड्ते कोंग जोमे ॥२॥
तोडभूंग की कुयू पा:की,
होए की छिकी छन्द, गोई कोंग जोमे,
लभाईर लभाईर डा: बिड्ते, गोई
कोंग जोमे ॥२॥

६७३

केलोम केलोम कोनसेल,
काडोंग तारना चोलकी ॥२॥

टुकनु ते तरसोड गोठीः,
तोबडाः छिटकेकी, कुलम तिरीब दिलकेकी ॥
दिल दिला दिलाके की तिरीब दिलके की,
टुकनु ते तरसोड गोठीः,
तोबडाः छिटके की, कुलम तिरीब दिलके की ॥

६७४

मोएँग पथा बाः बाँग
सोंगोंएज् चपा राः राः ।
सोःखोएज् भोरे सोःलुई ॥
चपा कली तिरीती रकम दिलासा
पोःछोल को चोना डेना तोबडाः
की किनभर डाः ।
चोनम डेनाम ऊम डेनाम उम्बोः होरोज ॥

६७५

अनु ताय डेनाम पियार कोनथेड
बागजोगीनी तरकेलेंगता ।
जोगनी अनु ताय डेनाम भेंगराज ।
मुनूःसींग ताय डेनाम पियार कोनथेएड
बागजोगनी तरकेलेंगता
जोगनी योनलोः ताय डेनाम भेंगराज ॥

६७६

ईनाः थोम इयांमता आदड़ो कुन्डुः
हरे नुनुआः थोंग इयांमता बेतोड डाः बाँग ।
माडोम जो गोइज की अपड़ोम जो गेबकी
हरे तोमलेंगा आः थोंग इयांमता बेतोड डाः बंग ॥

६७७

भुमुनगा भक्का भुमैर राः ना,
टेपड़ोंज राः ता रूनु भुनु ॥२॥
मोःभीतोः चोलकी सिंगकोय सुलाः चोलकी
टेपड़ोंज राः की रून भन ॥२॥

६७८

सांगो चरकी किन्द्रेता
किन्द्रे किन्द्रे मँदड़ी सोधोमता
सांगो चकरी किन्द्रेता ।
मोःभीतोः ते चोलता
सिंगकोए सुलाः चोलता
सांगो चकरी किन्द्रेता ॥

६७९

एनमागाः मूरडाः
तोबलूंग तूता कुलम
हायरे हायरे ।

रोवा बाः
बेरोड् की नो डोको की कुलम्
हायरे हायरे ।

६८०

ए, ला तोमलेंग छिलकेता
लोहोरदगा गोई
ए कदम सुम्बोः ते ॥
सनोराः करछूल रूपागाः बटलही
ए, ला तोमलेंग छिलकेता
लोहोरदगा गोई
ए कदम सुम्बोः ते ॥

६८१

चिपाय कन्डाय चिपाय
बार गोलांग चिपाय ॥२॥
ऊडे केन्डोर ऊडे
बार गोलांग ऊडे ॥२॥

६८२

कयार कोचा बन्धो कोंगोंब
सेमड़ी कोचा पोईन ओछोब ।

(१५८)

हँसा राजा लड़ेगा डेलतारे
गेड़े राजा धिड़कायगा डेलतारे ।

६८३

हो होरे भँस नाँज को भँस नँज को
तोबडा: बुईडा: डेलकी
हो होरे भँस नँज को ।
खुर ठो:की सोरेंग पा: की डेड़ेंग
ठो:की हरा पिजूकी
हो होरे भँस नँज को भँस नँज को
तोब्डा: बुईडा: डेलकी
हो होरे भँस नँज को ।

६८४

कोलहू डेजे तेलीनया कोलहू डेजे
बेहरा दारू ते कोलहू डेजे ॥२॥
जोल तोने तेलीनया जोल तोने
रायमुली कतोर ते जोल तोने ॥२॥

६८५

बीरू सितील सितील ते लोईन सा: पोडसी
धाय सेरे बेटिंग कम ओलकायेम ॥२॥
आम को बेटिंग चोनाम सोसरार्ईर तोमलेंगाआ:
गिनींग अतु कुर्याज बेटिंग ।

६८६

संग संग गोसो: कनडय सुन्दरोम गोसो:
कनडय कवम दरू बो:ते तोगोंन सी:रे ॥२॥
सुसुर तेरो: रूपया, बावडोम तेरो: सोना रूपा कीरे ।
सौ डोम तेरो: जन्मो: बोरोल ना:रे ।

६८७

ईञ्जां: जोड़ी आईज संगो अमपा: जोड़ी
उम्बो: उम्बोडेज माय ।

बिजली लेखनरे उम्बोडेज मोए
भेनतुते डोको कीमय ।
किजते सुन्दरोम हारे दैया सोमोंग ते रोःकी
सुन्दरोम हारे दैया ।

६८८

ईनाः थोम ईयामता बार बोरिया डोमोनकुइ
कुसार लुतुइयाः थोम ईयामता बार ।
बोरिया डोमोनकुइ कुसर लुतुइ अतु कुइना
ईनाः ईयाम ताबर ।

६८९

जसपुराः रानी बेट्टी कोनकेः कोनकेः सुःत्रोम पोयतेरे
पोयना कोरे पोयो, सोनाः मला तोयोबरे
रूपाः मला तोयोबरे ।
बेडो लेरांग लेखे योतामरे ।

६९०

बेराः रूसूंग ओरेज
नीमो हारा पिजना नो चोलता हो ॥२॥
कालो आः रूसूंग ओरेज
नीमो हारा पिजना नो चोलता हो ॥२॥

६९१

कोनोन मोनोन मुरुन
भबरे सीः हारा
ए गोईराम कोनसेल लोरेगा चोलता ॥२॥
मुगाम मुगाम मंदडी बुःते
होकड़ाः लोःढो भांभ रे
ए गोईराम कोनसेल लोरेगा चोलता ।

६९२

ठोर नोम रूसूंग कोलेः बेलडे नोम हरियार,
कोलेः ओलकाय गोडेम गोराइर राः राः ।

कलसार ते केजेम हरा अबु पीजेम

कोले: श्रोला काय गोडेम गोराइर रा: रा: ।

६६३

पाइलको:टा पो:दाते अबू तेरेम ददा उमींग चोना ।

खोड़ी तेगा केलोम केलोम पोडछोल उमींग चोना ।

मुहुन दारु बो:ते जोड़ा मांदड़ी सोधोमतैज, उमींग

चोना, खोड़ी तेगा केलोम केलोम पोडछोल उमींग चोना ।

६६४

अतु ताय डेलकी पीयोरे कोनथेड, बागजोगोनी लेखे
तरकेलेंग अतु ताय डेलकी भेंगराज ॥२॥

मुनु:सींग ताय डेलकी पीयोरे कोनथेड, बागजोगोनी
तरकेलेंग, योलो: सींग ताय डेलकी भेंगराज ।

बागजोगोनी तरकेलेंग ।

६६५

अता बो:ते अयीज ददा तिलक चन्दन पींडा रे ददा
अता बो:ते अयीज उसलो: ॥२॥

मुनु:सींग तीज अयीज ददा तिलक चन्दन पींडा रे,
योलो: सींग तीज अयीज उसलो:

ददा योलो: सींग तीज अयीज उसलो: ।

६६६

अता पूर ते राइज राजा अता पूर ते हीरा राजा
राजा कुलम अता पूर ते तेलेंगा: डेरा ।

जसापुरा: राइज राजा नगापुरा: हीरा राजा

राजा कुलम कलीकत्ता तेलेंगा: डेरा ॥२॥

६६७

खोड़ीते केलोम केलोम पोडछोल रे ददा उमींग चोना ।

(हारे दैया) इंग को ददा उमींग गा रो: चोना हारे दैया ।

अखड़ा ते जोड़ा मन्दड़ी सोधोमता हरे दैया

इंग को ददा उमींग गा रो: चोना हरे दैया ।

जदुरा अलॉंग

६६८

डांडते चमकेता डांड सरहाम
बथानते चमकेता चमकेता गाए ।
चुंगडा: गोडभुंग चमकेता डिन्डा
कोनसेल हूं रे समय चोलकी ।

६६९

बाबू आ: थोंग रंगल तिरियो, बोइ आ: थोंग
रिंगी चींगी सुपली ॥२॥
हूरे कौवा: रे कौवा: खोता
कौवा: खोता रंगल तिरियो ॥२॥

७००

अमा: नेवान ते योयोइज बोई
सारू सा:ते संग संग एरोब ।
हेके नो उम्बो: बोई सारू सारू
सा:ते संग संग मायोंब ।

७०१

चांची रे लिला घोड़ा डेबकिम बिरू तोबलुंग ते ॥२॥
साय साय जा: उम आँ:ते
भा:पू दाना उम आँ:ते
चांची रे लिला घोड़ा डेब गोडकी बिरू तोबलुंग ते ।

७०२

आम को बोई डेम्बू बुंग हारे कीम, गुनी गुनी
रोमोड डा: गुरता । रसे रसे रोमोड डा: गुरता ।
कोड़ाज डांडते डेम्बू बुंग हारे कीम,
गनी गनी रोमोड डा: गरता ।

(१६४)

७०३

हरीयारो कोले: हरीयारो बेलेडरे
मराल सुगा कतरल जाएला ।
तीला रो कोले तीला सेंरसोंओ
मालाग कोडोंओग ।

७०४

बीरू पाट तोबलुंग कुही मरा: तोरो:ता
आम को बोइ थाम सौ कोनघेर भोइ उबुठोब,
बीरू पाट तोबलुंग कुही मरा: तारो: ।

७०५

पानरी उला: रीगी बीगी
पानारी गढ़ दीलकेता ।
बोइया: थोंग उला: रीगी बीग
बोयो आ: थोंग गढ़ दीलकेता ।

७०६

योय मामी जोई बेइटनोम्मा: आकील
तोबडा: सा:ते सार सायते ।
मायकी मामी उमींग ठकायते,
तोबडा: सा:ते सार सायते ।

७०७

साँख ओम्पाय साँख कोसोर गोडकी ?
अतु चोनाम रे कंसा बंकलुई ।
बेलेड नोम पीज गोडकी
अतु चोनाम रे कंसा बंकलुई ।

७०८

मुसा को हरियार तुडा को पीयर,
तुडा चोनाम बोइ कलकत्ता कोड़ा गो:भुंग ।
नहियार जे सपुता ससुराईर कपुता,
तुडा चोनाम बोइ कलकत्ता कोड़ा गो:भुंग ।

(१६५)

७०६

पालामु राइज बोइ पला पोरे की,
भोरोम कोनसेलते पला तारते ।
चंत लेरांग पला तारो: तीङेल
उला: जोरोम गोडकी, कोनसेलते पला तारो: ।

७१०

चाची रे रुसुंग घोड़ी डेबकी
डुगुल बिरू ते ।
साय साय जा: उम ज्यों:ते
जना पतार घोड़ी ठनकेता ।

७११

बेर तेरो: गोईराम रोरीया: मुन्दरोम,
बेर तेरो: गोईराम कोनके: कजार ।
सोउनोम तेरो: गोईराम रोरीया: मुन्दरोम
बोकेर तेरो: गोईराम कोनके: कजार ।

७१२

मघा सायना को कोड़ी कोबसुते,
जदुरा एबो:ना लेरे ला:ता ।
गोंङ्गों योंखो: ऊ:फे पोरसा,
गीता: गोङ्गों गोडकी केंडोड लेखे ॥

७१३

कुबुड २ कंडाय बो:ते गामना ला:सी:
कु:ढिंग ई भेरे ला:ना दरी कु:ढिंग ।
मुसा को एका देशी, तुडा को दोबा देशी
मडंगा: दरी कु:ढिंग ।

७१४

हाय खोड़ीया: ओसोंग तुम्बा, किनीरआ:
रुतुरे ओगी कुलम केन्देरा ब्र:ते ।

(१६६)

हाय केन्दरा: सोधोम दैया, टिरिटिपि सोधी
मेरे, चुबेता बाबा जी या: लो...र ।

७१५

हाय नहियर२ अबु गामे सांवरो नहियर
योयो:ले आम...पा: ।
दारु आ: जोरेलडा:, लो:खा: पोताय, तोभलुंगते की
ओल्लोंग तेल्लोंग ।

७१६

सेमड़ी रे सरहर सोने गिधी, खोता बेल...ते ।
सिनी रोड कोंगते खोता बेलते, लेबूते बायते आहा...रे ।

७१७

हाय बेरा: बोकोबते दैया संग संग गोसो:
गामछा, बेरा: बोकोबते केवरा रा:...रा: ।
राजा: बोकोबते संग २ गोसो: गमछा रानी
रानी या: बोकोबते केवरा रा:...रा: ।

७१८

हाय मुइंग कयार हरियर मोइंग कयार पियर
मोइंग कयार सुन्दरोम्मा: रा:...रा: ।
बोरोल को रोजोड ला:ता, बेलोम को सेबोल
ला:ता गदरा को इकुड सेबोल ।

७१९

हाय इनागा गे माई किनभार रोनीब किनीर,
इनागा दुनियाँ येल्लोंग ।
मोइंग बेटा: घाड् किनभार रोनीब किनीर,
केन्दोररा: घाड् दुनियाँ येल्लोंग ।

७२०

हा...य एरन्डी या: किनीर दैया, मुजूडा:
उम रेङ्गेता, हीन योकोन किङो: रिरपायता ।

हा...य किड़ो: जे रीबायो: गाय को
गोएज गोडकी बछर जनम अराबडु: ।

७२१

अमा: थोम जोड़ी जोड़ी कुलम
इंया: थोम जोड़ी ऊम्बो: ।
डिन्डा समय भाई ईकुड दुलर
कुलम अबु मेलायेम् ॥२॥
कुहुड़ कुहुड़ गुंडी डुहंगते
कुलम छेनेंग मेनेंग कोलोंग लाडते
डिन्डा समय ईकुड दुलर कुलम
कुलम अबु मेलायेम ॥२॥

७२२

छेछरा सोंग डा: ठेपी कुदड़ी
अर्जोंग नो लता सुबींग ।
खोन्डेज कडोंग एन्डू:ते
पु:ठी डा: भलकेता ॥

७२३

छकछकीया बिन्डा बोकोब के:
मांयोंग ते चन्दबा भोले युंड ते ॥
कटा बोकोब भोले सम्भडाय

७२४

कीई-धुनते तेनतोन बोई
सोमता पतार कडोंग ।
बदा: हीलाय तेनतोन बोई
कुलाम डाय ओलते कडोंग ।

७२५

सिक सिकी, सिकी कुलम ।
सी राइलो: राइलोंग ॥२॥
सोंगोल नो कुईता कुलम

भूरीनो कुईता

ऊबने तो: कुलम अतु आवकिम ॥२॥

७२६

बेर तेर ते गोइ रोरीया: सुन्द्रोम,

बेर तेर ते गोइ रूसुंग काजरा ।

गोमके तेर ते गोइ रोरीया: सुन्द्रोम,

बेर तेर ते गोइ रूसुंग काजरा ।

७२७

कुलम नोमला हेके नो आंड़ीई-ज

कुलम नोम ला भाईल बीरुते ॥२॥

७२८

कुहुड़-कुहुड़ ईजथांग नो राम ते,

दलै दलै ओलोग नो साएते

डुरगुड हिनबुडू: ते ठिसा ते

ओमपाय सिनींग ते कडोंग तार ते ।

बोइ या: घाड कुहुड़ कुहुड़ ईजथांग

नो राम ते बाबुवा: घाड दलै दलै

ओलोग नो सायते डुरगुड या: हिनबुडू: ते

ठिसाते ओमपाय सिनींग ते कडोंग तार ते ॥

७२९

मुइंग पथा बा: ते

बेर ते गुने ओडोर्गीञ्ज

अनी चोना नींग माडोम कुन्डू: चोना नींग

जदुरा एबो:ना ।

दलैदलै चोना नींग

कुहुड़ कुहुड़ जदुरा एबो:ना नींग,

मुइंग पथा बा: ते बेरते गुने ओडोर्गीञ्ज

माडोम कुडू चोना नींग जदुरा

एबो:ना नींग ॥

(१६६)

७३०

कुडा भरिया बोई तोमोंग जता,
कोमडोल भरिया बोई तोमोंग गन्वरीं ।
गोनमेर बाव लेमेए-ड किकयार
बोकेरिञ्ज बोर ते भोड़ ॥

७३१

दारू गोली कबतीबे भोज राय,
कदाली ते पाएजकोम सम्पड़ेता ।
पाएजकोम को सम्पड़ेता कुन्द नगरते
मोघेर तिरीब गुड गोली घुमरेता ॥

७३२

अतु ताय पुर राजा अतु ताय हिरा राजा,
राजा कुलम कलिकाता पाएजकोम्माः डेरा ।
भुन्दु ताय पुर राजा टमेड़ा ताय हिरा राजा
राजा कुलम कलिकाता पाएजकोम्माः डेरा ।

७३३

जोड़ी ला जोड़ी कुलम अबु चोनाम
डोन जांग पुर,
गोएज गोड नम बेतोः-ड
बेतोःड डाः बूंग ।
कटा ते तेरीञ्ज रूचु मुचिया जुता
गिड़ींग ते तेरीञ्ज सोनोर छाताः लोंगोय ।

७३४

करम दिनो करम एबोः डोडनम बोई
जदुर दिनो जदुर एबोः डोडनम ।
मुसगाः घड् आव डोडनम बोई
तुडा से चोनम समुरेइर ।

(१७०)

७३५

बेर तेरते गोई सोमोंग हूसंगते सुन्दरोम
सौ डोम तेरते गोई सोमोंगते हूसंग ।

७३६

आमपा: पो:दाते उघाय रंग
ईघाय बोरोल नंग दैया लुतुय उम्बोड़ेज ।
कुण्डाबतीज कुण्डु: ईयामता मुगामतीय रंग ला:ता
ईघाय बोरोल नंग दैया लुतुय को लुतुय उम्बोड़ेज ।

७३७

पेलको:टा: बीरू ताय सेन्द्रोम डा: मु:की
डा: तोबलूंग ते सारघा: बंगाम लोरेता सो:तोगा ।
डेजे से राजा सो:तो खंडा बोंग, सो:तोगा
सरघा: बंगाम कुण्डू: ते लोबगोंय सी: सो:तोगा ।

७३८

कि:ता: ते तोरो: ना किनिरआ:
पीयो कोन्थेड ।
हारे कि:ता: ते कोनघेर डेना ॥
मो:भी तो:ते तोरो: क्री
किनिरआ: पीयो कोन्थेड ।
हारे मेयां:ते डामकी कोनघेर ॥

७३९

तिङ्गेल बेलोंगनो ददा ।
अना ददा तिङ्गेल बोएज् कायेम ॥२॥
एनमागा: बेतोड् नो ददा ।
अना ददा तिङ्गेल बोएज् कायेम ॥२॥

७४०

चांच चीज् नो लीला घोड़ा
डेबकी बीरू आ: बीरू ते ॥२॥

(१७१)

जना पातर घोड़ी ठनकेता
साए साए घांस ऊम यों:ते ॥२॥

७४१

हाय रे दाईया ।
भोरोम कोनसेल ते करड कड तार डोठो: ॥
पलामु नगर ते करड कड गूरकी ।
तिङ्गेल ऊला: ते तारो: ।
हाय रे दाईया भोरोम कोनसेल ते
करड कड तार डोठो: ॥

७४२

तिङ्गेल खून्टो ते डोको कीम डेचूबा
कोनके: डा: ठिसा गोठोब ॥२॥
पोट्छोल लाखो: अखड़ा
कोनके: डा: ठिसा गोठोब ॥२॥

७४३

कि:ता: ते कोड़ाएज् दाईल इबसीनेम
इडिब ते सांगी जदूरा एबो: नार्निग ॥२॥
पोट्छोल लाखो: अखड़ा
कि:ता: ते कोड़ाएज् दाईल इबसीनेम
इडिब ते सांगी जदूरा एबो: नार्निग ॥२॥

७४४

हाय रे ईजां: केन्डोर आ: आकील
पलकी ऊम ओलकायते ॥२॥
सीसी लो: डाँड ते घोखूला जुरा:
कटा नाईज् ऊम चोलता ॥२॥
जवा गोहोम आ: सतुबानो
भिर हीरि ओमपायआ: पोईन ॥२॥

(१७२)

७४५

भते ला जमुना डाः
अते ला पोखेरा डाः ॥२॥
भून्डू ते जमुना डाः
टमेड़ा ते पोखेरा डाः ॥२॥

७४६

हो, हो एले योयोः ले
चोलकनकी भून्डू रो टमेड़ा
हो हो एले योयोः ले ।
तरन ते गमछा तीः ते धोखोः टोहीला
चोलकनकी भून्डू रो टमेड़ा
हो हो एले योयोः ले ।

७४७

तेलेंगाः ओःओ डेलकिंग बोई
कटा बोकोब ते तेरोः सम्पड़े ।
छक छकिया बिन्डा बोकोबकेः
मांञ्जोंगते चन्दोवा लावकेता ।

७४८

चॅटडी पाट तोबलुंगते
कुही रो बेसरा मराः तारते ॥२॥
डेलताईज भेरे यो डेलताईज
ओन्डोरतंग भेरे ओन्डोर डेलताईज
कुही रो बेसरा मराः तारते ।

७४९

लुहूर लुहूर डेनम डियर डूः कोनसेल ।
सोलोः ताल डांडाः कुयेम ।
अबु रागोम नाम डियर डूः कोनसेल
आम मेलाय होडोम ऊम्बोः ।

(१७३)

७५०

अतु चोनम ला लेरे: कोनघेर
तिरिब तन घन ओडेब तेज् ॥२॥
सामुराईर चोनमला लेरे: कोनघेर
तिरिब तन घन ओडेब तेज् ॥२॥

७५१

अना सांगो मुन सूनिया सा: कमना
ओमपाय सितिलते ।
खों:चा ते ओमपेंग ईंग ते रेमागेम्
अमा: कल कल ते तूर गोड़ींग
ओमपाय सितिलते ॥

७५२

बोरोल मन्वड़ी बुगे कोनघेर
ल्पुंगा तुता ते कोनघेर लोगोंयना ।
डोको सी: हिनकड़ ते बासी पे:ए
मन्वड़ी कड़ ते लेटो पे:ए ,
एबो: कीते तोमलेंग ओमपेंग,
योयो कीते ठेपो ॥

७५३

सेञ्जंग रा: रा: ता रुम्भा,
भाड़ी कोन्थेङ् रास ऊडना चोलता की ।
अनी कुलम रास जोबगा
कोन्थेङ् कीते तारना ।

७५४

तेनतोन खोलडा: रिगी बिगी
लेरे: कोनघेर आ: ओ:ओ दिलकेता ।
बोई आ: घङ् तेनतोन खोलडा: रिगी बिगी,
बाबू आ: घङ् ओ:ओ दिहील, दिहील ॥

७५५

माँज डा: अजोड् की किनिर भांकोय गेबकी
मचा जो गेबकीनो ॥
धांय से बोई यो डेनाम्, मचा जो गेबकीनो
किनिर भांकोय गेबकी मचा जो गेबकीनो ॥
योना को यो डेलकींज, भ्रोलोंग जो खरपा की,
किनिर भांकोय गेबकी, मचा जो गेबकीनो ॥

७५६

मुरुन मुरुन रामना चोलसी खोएज्
मुरुन आ: घड् लेछो: की ।
सैरगा सैरगा रामना चोलसी खोएज्
सैरगा: घड् लेछो: की ॥

७५७

रा: रा: तोयना चोलता की
इंग जो नो रे सोना रा: रा: तोयना चोनाईंग ।
चुंदी रा: रा: तोयना चोलता की
इंग जो नो सँगो चुंदी रा: रा: गोलना चोनाईंग ।
रा: रा: तोयना तोयना ती:ई नाईज ते तोय डोम कींग,
चुंदी रा: रा: तोयना तोयना कटा लोयो की ।

७५८

आना से बोई सारु सा: कमना, सारु बीरू ।
सारु बीरू ते थैली भन्डा सूमसी: मोय ।

७५९

डिंडा भेरे इकुड लेबुय कीम, मया मला: अबुमेलायेम ।
कंडाय लेखे दुलार कंडाय लेखे अबुमेलायेम
डिंडा भेरे इकुड दुलार कीम ।

७६०

तुन बो:ते को मन नोम हरियर बोई,
इडीब ते को मन कोइल ।

(१७५)

आम्पा: जोड़ी कोनघेर चोलकी बोइ
कलिकत्ता कोड़ा गोडभुंग ।

७६१

पाइलको:टा शहर ते सिरि चम्पा रा:सी:,
घांड़ी ला:ता भाया भोरे नागपुर ।
इन्दर आ: रानी बेटी इकुड किसानों फुले, राजा
बृत नाथ बुंग पाइलको:टा हेपा...ड ।
पाइलको:टा शहर ते ॥

७६२

जाल फेकाय गोड़े से केंवटा, ओम्पाय सिनिंग्
ते कडोंग् तारना... ..॥
रभम २ डा: गीमते ओम्पाय ढोढ़ा भोरेता...ज ॥
जाल फेकाय गोड़ेसे केंवटा० ॥

७६३

बिहू सिनिंगते भोरोम कुलम गोइज गोड्की, इ कराइंग
बोइ तोभलुंग ते रावण गीधी मेंडरेता...॥
भा:टा डेजता २ डालोज बोई, ई कराइंग
बोई तोभलुंगते रावण गीधी मेंडरेता... ।
बिहू सिनिंगते ॥

७६४

लाली रे लीली घोड़ी डेबकी, बिहू तोभलुंग ॥
जनापतार ठनके कीम घोड़ी, साय २ जा: उम
यो:तेम लाली रे लीली घोड़ी ।

७६५

बुचा बिहू लमलम एबो:ना चोलकीम बोयो,
हेपड २ बन्दुक तुनडुरोब ॥
राइजा: भेद उम कुयोब बेटी ते ढाल तरबाइर ॥
बचा बिहू लमलम ।

(१७६)

७६६

जेपुङ्ग हुतुङ् २ बोई, यॅरी नोमते कोडील डोकोकी ... ॥
हुतुङ्ना को हुतुबठोब बोई, चुङ्गडा: बो:ते
चोनाम रो कोडील छोड़ायेम ... ॥
जेपुङ्ग हुतुङ् २ बोइ ॥

७६७

केलोम मॅना अतु कुयोब, मॅना रा: २ जॉ:ना
जॉंगोर २ सुयेम मॅना कोड़ोम कांडेइर अबु पिजेम ...
सुयेम मॅना जॉंगेम मॅना रा: रा: यॉ:ना ।

७६८

गाय या: थोकते चोलकीम रे किड़ो:
मो:भीते जीयोम ओसिठोब ॥
बिरू तोभलुंग ताय आरे कीम रे किड़ो:
गाय मो:भी ते जीमोय चोलकी ... गाय या: थोक ते० ॥

७६९

लेरे: कोनसेल नोम को चोल गोडकी,
कलिकत्ता कोड़ा गो:भुङ्ग ... ॥
जौ गोहोम्मा: सातु जिर्रीहिरी ओम्पए या:
डा: जॉंना माड़े यो: डोनजांग्गा: कुलम कलिकत्ता ॥

७७०

मेलायडोमकी सांगो हांसा राजा घोड़ा नॅज
मेलायडोमकी सांगो ढाल तारवाईर ॥२॥
चोर मॅगला चंगड़ा लोहोरदगा बंगला
खुखरा ओडोओ डॉयसा कली कॅलकता
गोबिन्दपुर ते मेलायडोमकी कुहु ईजां: बेसरा ।

७७१

अना से बोई योना चोना नंग डॉयसा: रानी
बन्डी घोड़ी ते बेटी डेबसी:ई ॥२॥

(१७७)

खोड़खोड़ो बेंटी बूची तरवाईर
बन्डी घोड़ी ते बेंटी डेबसीःई ।
कोडपुडूः की लपेएज लूपुईज
कोनसेलडुः भंस लेखे
बन्डी घोड़ी ते बेंटी डेबसीःई ।

७७२

पंखी गढ़ २ राजा सोरेंग सोनोंग ।
भीःतर ते रूनु भुनु राजा
बाहेर ते सोरेंग सोनोंग ।

७७३

पंलकोःटाः सहारते सीरी चम्पा राः की
मोहकेगा डेलता बोई हिरापुर भोरे ॥२॥
केऊंभराः राः रानी बेंटी बिरू केशेलपुरते
मोहकेगा डेलता नागपुर भोरे ।

७७४

गाय नंजायांः डेडेंग दाईया टेदो मेदो रे
भाईस नंजांः डेडेंग दाईया राःराः छत्तना ।
गाय नंग अरजोंःता, रोनीब कीनिर ते
भाईस नंग अरजोंःता तोनडेंग ओमपाय ।

७७५

केशेलपुराः कुन्दुः की टीकली मालाः थोम मलाः ताकी ।
लुहर २ चोनापे डोम्बा पेंठिया
पलकोःटाः हटिया इकुड ओबसोंगता डिस्साः हटिया
केशेलपुराः कुन्दुः की टीकली मालाः थोम मलाः ताकी

७७६

हिरापुराः भाईस चोलकी तोनडेंग ओमपाय
केसेलपर ते ठोडकोब सोधोमता ।

धायँ से कुलाम यो डेनम धायँ से कुलाम भ्रोनडोर डेनाम
हिरापुरा: भंस चोलकी तोन्डेंग भ्रोमपाय
केसेलपुरते ठोड़कोब सोधोमता ।

७७७

एबो:ना चोलकींग राईरतन पुरते
ईरीब् डोमकी सांगो
टिहली मेलायडोमकी नागपुरते
बोईया: घड् सांगो... राईरतन पुरते
बाबु आ: घड् सांगो
टिहली मेलायडोमकी नागपुरते ।

७७८

अतु चोनम ददा
धोती मुडोड़े
अतु चोनम ददा: तोलोंग मेलाय टुईए ।
सासुराईर चोनम ददा, धोती मुडोड़े
सासुराईर चोनम ददा तोलोंग मेलाय टुईए ।

७७९

गन्वरी कडोंग
मुइंग कुयू भोड़ ।
मुगाम ते गोनमेर बावीञ्ज बोई ।
कुन्डाब ती-ज बोकेरीञ्ज भोड़ बोरते ॥

देशवैल

७८०

कोनथेड रे किनीर किनीर कोनथेड
डोकोकीम रे निमा: हारा ।
हारा ते डोकोकीम उला: ते डोकोकीम
डोकोकीम रे निमा: हारा ।

७८१

बेरोडना से कोनघेर तारदी नो तरदीये
ई, ई, सुरुम चोलकी ॥२॥
बा: रुमकुब भाड़ी को आइज
कुलमडाइंग को सुरुम चोलकी ॥२॥

७८२

बोरोल भैर को बुदा इकुड रे बिपैत रे
गोइजनाको जियोम पासतैता ॥२॥
गोइजना सिडना भैर पो:दा: कुलम
कुलमडाय की बोरोल भैरे इकुड बिपैत ॥२॥

७८३

कुलहु डेजे तेलिनिया कुलहु डेजे
बेहेरा दाहू आ: कुलहु डेजे ॥२॥
जोल तोने तेलिया जोल तोने
रायमुनी कातोरा: जोल तोने
रायमुनी मघा: जोल तोने ।

७८४

गुड़गुड़िया चुंगडा: लोरेंग बो: डा:
कोनसेल लेरे:सोन डा: झोलते ॥२॥
तारे से कोनघेर का: झोडेबे
कोनसेल लेरे:सोन डा: बिडते ॥२॥

७८५

बरांगी २ कुलम ईयमता की
मनोवा जोरोब जोरोब ईयमता की ॥२॥
तोले से ललित राम
भिल्लि मिली बोकोबके:
बोकोबके: तोले से रोमोड डा: गूरता ॥२॥

७८६

अतु ताय डेलकिम कुलमडाय ईञां:
अतु चोनाम अमा: गोनमेर पुर
अतु डेनाम् मगा: पुर, तिमसोंग गुरकी
मगा: पुर बजार गुरकी गोनमेर पुर
कुलम कुलमडाय मेलाय डोमकी अतु चोनाम
गोनमेर पुर, अते डेनाम मगा: पुर ।

७८७

मरुन मरुइज डाँड ते कौड़ी ला डाँडा: नाईजं गुरकी
ई ईज रो: मां, ई ईज रो: नो अपा:, कुन्डाब मुगाम
ईञां: राम भाम, ओबडो:गा ओलते, कौड़ी ला डाँडा:
नाईज गुर गोडकी ।

७८८

किनिर तेको कोन्थेड हरा हरा ऊला: ऊला: डोकोताकी
किनिर आ: दाह को हरा हरा तोभलुंग तोभलुंग
रा: रा: ताकी
लेबु की योते की रो ईकुड लेरे: ताकी ।

७८९

हायरे ईञां: सांगो नंज, हायरे ईञां: जोड़ी नंज
ईञां: कायोम ओन्डोर डोड़े रो चोनाम ।
हायरे ईञां: सांगो नंज, हायरे ईञां: जोड़ी नंज
अता बो:ते डोकोसी:डेम जपा:सी:डेम
अमा: लेखे उमिंग कृईये ।

(१८३)

७६०

इना कायर दनू मूनू रे, इना कायर डूज किम हारा
इना कायर ऊडूछीब हारा ।

बेरा: ओःते महाबेटी हिनकड़ा: ओःते डूजकिम हारा
हिनकड़ा: ओःते ऊडूछीब हारा ।

७६१

मां जोई दुलारी अतापुर ताय मां ओलडाय ओलकायेम ।
अले से रे बेटाईज धिराज धोगेम रे
भंसी हिरापुर ताय ओलडाय ओलकायिंग ॥

७६२

अतु ताय सिरजे कीपे रे लेबुकी
अतु ताय जोरमे ठांडो अमपा: ॥२॥
लोरेंग बीरू ते सिरजे कीपे रे लेबुकी
आजोडा: पुरते जोरमे ठांडो अमपा: ॥२॥
रो: डा: गढ़ते सिरजे कीपे रे लेबुकी
डेल डा: पुरते जोरमे ठांडो अमपा: ॥२॥
पा:टो पुरते सिरजे कीपे रे लेबुकी
हीरापुर जोरमे ठांडो अमपा:
हीरापुर भुईहार ठांडो अमपा: ॥२॥

७६३

पेलकोःटाते मां मनुःसिग ताए मनोवा
आरेकिमोय, मनोवा डेलकीमोय ॥
भुईहर आ: उसलोःते ओसगांएज ते डोको कीमोय ॥

७६४

बेरा: बेइटडोम ला बोरे ला: तेरे नो ऊम्बो:
कोड़ीते रेसेम, घा:तीते फुदना, बोरे ला: तेरे नो ऊम्बो:।

७६५

किनकार डेंज ते भोर भोरा
कीमिन डोम डेंज ते, कोसोर लो: ।

मां जोई मोएँज ठीपा जो ज्ञों:खोएँज
ला: भोर ऊम्बो: ।

७६६

कुटुवा: बागसेरा: काय खेढी
एबो: कीपे इन्दो डाँडते ॥
कुटुवा: बागसेरा: हारे कीपे जोराग बीरन्दा
बाघीमा डाँडते ॥

७६७

बेरा: मन्दड़ी ददा बंकलुई टोंया मन्दड़ी सोभेता
ददाईज आ: मन्दड़ी बंकलुई टोंया बोंग सोभेता ।

७६८

इना ईयमताबर ऊबर डोनकुई,
इना: थोंग ईमयताबर ऊबर डोनकुई ।
कोंगलो: दुवार ते मगा: पुर आ: थोम ईयमताबर
ऊबर डोनकुई, कोंगलो: दुवारते जोनमेर पुर आ:
घड् ईयमताबर ऊबर डोनकुई दियोगा ।

७६९

बेर ला रूसुंग बोकोबके:कोन, ईञ्जां: दूवारते डोको
सी: पाएज्कोमगा गोयोलना डोकोसी: ।
अले से रे पाएज्कोम मेंया:ना से तेरे,
गोला ओरेज् ते तेरिग ।

८००

डेजछोंग डेछोब ततंग तुम्बा बिजोम गारो: ओनोब
ऊ:फे ठोंगा तुम्बा नोम जो लुकू की
अमा: गा ततंग बिजोम बोकोब हेके ।

८०१

ओलोंग सायते दलाय दलाय, ईज्थांग रामते कुहुड़ कुहुड़
मुसगा: घड आव डोडना बोई, तुडा रो:ओ चोनाम
जोनमेर पर ।

(१८५)

८०२

मुरुन रामना चोलकीम बोई टूकनु ते आतु मेलायोब
टूकनु ते डोठो:
मे:छे: मेलेंग कोनघेर, मुरुन ते ज्ञोंखो: रूसुंग ओरेज ।

८०३

हरियार पुर नो बोई छतरपुर डा: बोंग गा बोई
ऊलहांग मलहांग ताकी
योता योता बोई जीयोम लेरे:ता ।

८०४

चटी कु:ढींग ते बोयो डाएनोमा: बेटा जोरमेनो:
इनाम रो: बोयो गामोब ऊतूनोब अबु चोना
अमा: डाएनोम बेटा जोरमेनो:
योना लेबुते रो: गीघाल ला:ता ।

८०५

कोनोन भेरे गोएज डाएकी, हाय ऊघय ईञ्जां:
नासीब हाय ऊघय ईञ्जा: किसमाईत
कोनोन तेगा गोएज डाएकी ।

८०६

ओ हारे रायलेंग किनिर ते
रायलेंग किनिर ते लम २ एबो:ताकी
ओहोरे रायलेंग किनिर ते
घोल गोठंग कुलाम की
घोल गोठंग सोलो:की
ओहोरे रायलेंग किनिर ते
रायलेंग किनिर ते लम लम एबो:ताकी ।

८०७

उबने महा पो:दा ते बेर जो सांगो उम्बो:डेज रे ।
कुलम कुलमडाय कुईजना चोना रे ॥२॥

(१८६)

लोःखाः मंदड़ी पितर आः भांभू रे
कुलम कुलमडाय कुईजना चोना रे ॥२॥

८०८

बेराः हसुंग गाय रे,
भिल्ली मिली डाः कोंग कोंग पोखरा ते
ओडोःना चोलसीः रे ॥२॥

राजाः हसुंग गाय रे
भिल्ली मिली डाः कोंग कोंग पोखरा ते
ओडोःना चोलसीः ।

८०९

चंकोन्डा को जन्मे सीः घुड़लोः सिनिंगते ॥२॥
हो चंकोन्डा राः राः बोंग गा युंडते ॥२॥
काडे से आजी लिहिर लिपिर उलुई ते ॥२॥
हो उलुई राः राः बोंग गा युंडते ।

८१०

लेरेः रे लेरेः कोनघेर तोबडा गाः माला ओलकम रे ॥२॥
ओलना को ओलोब, सुना को सुईयोएज
एबलोंगा आवना भेरे तेरिंग रे ॥२॥

८११

अखड़ा ते को ददा जोड़ी मन्दड़ी सोधोमता
ईजते ददा लेमेड ऊम डेलता ।
अना ददा सोरीगा चोनानंग
सोरीगा डेनानंग
उम्बोः बोई गिताः चड़ी नंग ओलोंगना ॥

८१२

सोःलुई ते बोई सुतेम राः राः, रुमांग नोम को बोई
मोकोः सीः ।
अबु चोनाम बोई कुःढींग डांड लेब लडाएकी ।

(१८७)

८१३

ऊबडुः आए डोःरेंग लुतुई कोनसेल
आम ऊम्बोः लाः ईञ्जांः लेरेः ऊम्बोः ।
जनापातर मोःभी तोः गोरेज मेंयाः जौ
आम ऊम्बोः लाः लेरेः ऊम्बोः ।

८१४

होडोम्माः कोनसेल डाएकी को डेलकीमोंए
ईयाः कोनसेल डाए को डेलकी नो ऊम्बोः
जनापातर गोरेज मेंयाः योना योना
ईञ्जांः मोंड गुमुलता ।

कसासिंग कुःडिंग
लहसुवा

८१५

एबोःना २ बंग बोई जोई, गुर गोडकी सोनाः
कलगा, गुर गोडकी रूपाः कलगा ।
इञांः कायोम बंग चोनाम लाः कोनघेर
सोनाः कलगा तेरगोडींग, रूपाः कलगा सोंगकायइंज ॥

८१६

हो २ रे डोको डोडना, डोकोना कोनघेर
कुडा दारु लोंगोय ते, डोको डोडना ॥२॥
उबडु गाः ओमपाय छेकायोः, हिनबुडु गाः ओमपाय
छेकायोः, डोको डोडना ॥२॥

८१७

अता बिरुते सराहरा सेमड़ी,
हरे दाइया राय गिधीनी खोता रोःनो बेलसीः, हरे दाइया ।
सीनी रोडकोंग ते खोता रोःनो बेलसीः ॥
हरे दाइया लेबु किते चेरेंना रोः बायोः, हरे दाइया ॥

८१८

किनिर मोःभीते सिलीम रोःनो राःसीः, हरे दाइया
अना नना सिलीम रोःनो रोएजना, हरे दाइया ।
रोजे रो ओले नांग, गाजे रो योगें नांग, हरे दाइया
अना नना सिलीम रोएजना हरे दाइया ।

८१९

बॅकलुई ते बेर तारोः ।
डोकोकी नीम आः हरा ते ।
बॅकलई ते बेर तारोः ॥

कोनोन कुलम कोम तुइंजोः ।

महा कुलम बन्दूक गालोः ।

बॅकलुई ते बेर तारोः ॥

८२०

कोनोनडुः भोरार्ईन बेटी योनाः घड केलोम

गंगा जमुनाः डाः ईकुड लोसरेता ॥

मैलाय मैलाय चोना एडी याः पोंईरी

गंगा जमुनाः डाः ईकुड लोसरेता ॥

८२१

एनमागाः मुरडाः तोभलुंग रो तुता

कुलम दिरोम दिरोम ।

रोवा बाः बेरोडकी डोकोकी

कुलम दिरोम दिरोम ।

गुडलु आः गोलॅंग ऊर्डेनिंग

कुदाः लेटो आॅर्गेनिंग

हाय रे जोंढराः लवा गाएज आॅर्गेनिंग ॥२॥

८२२

पोखरा गाः हिङोते

मोंएग बुदा लुवा रूसूंग रूसूंग

भदडीब रे रस्स जोबते दिरोम दिरोम ॥२॥

धांय सेरे कोनोन कुलम

केज ओलकायेम, राम ओलकायेम दिरोम दिरोम

भदडीब रे रस्स जोबते दिरोम दिरोम ।

८२३

बेराः घड बोकोब कोयडोमकीम राजा दशहराता

बेराः घड जोगी बोनेकीम राजा दशहराता ।

राजाः घड बोकोब कोयडोमकीम राजा दशहराता

बेराः घड जोगी बोनेकीम राजा दशहराता ।

अपा: घड बोकोब कोयडोम
आयो आ: घड जोगी बोनेकीम राजा दशहराता

८२४

हनिया रो सुनिया बरिया कुलमडाय
कोनके: २ सु:त्रोम पोयते ॥२॥
टिबरु हाथा: गमेछा सवा हाथा: फुदेना,
कोनके: २ सु:त्रोम पोयते ॥२॥

८२५

ददा जोई ददा मुनगा ओनोब
मुनगा नो भुबरे की हारा ।
कुलमडाय रे कुलमडाय नरा नरा पिजेम
कुलमडाय हारा ते आबु पिजेम ।

८२६

मोएँज पथा कुदा, होजे: रिडना चोलकी
घुनुर घुनुर चकरी सोधोमता, गोई कोंगजोमे
दिरोम दिरोम, दिरोम रे घुनुर घुनुर
चकरी सोधोमता, गोई कोंगजोमे ।
हो चकरी ओतोन डोमकी,
हो चकरी पा: की,
कोनसेल आ: रोमोड डा: गूरता गोई कोंगजोमे,
दिरोम दिरोम, दिरोम रे कोनसेल आ:
रोमड डा: गूरता गोई कोंगजोमे ।

८२७

एनमागा: भूती ऊ:फे पथा
कोमसोर डुरुंग डोमकी ।
डुरुंगोंएज रो सोबरो खोएज
गोंगोंएज रो ताछोएज
तेऊ जो बोकसेल नाईज आ:
मोन ऊम भोरेकी ॥

(१६४)

८२८

तुरी कोनसेल रिगी बिगी
डाली बायकाय गोडेम
तुरी कोनसेल ।
पैलकोःटाः कोनोन कोनोन बिती बोंग,
डाली बायकाय गोडेम,
तुरी कोनसेल ॥

८२९

चकोंडा को जन्मेसीः घुड़लोः सितिल ते ॥२॥
हायरे, हो चकोंडा राःराः एनेम उम ऊडते ॥२॥
आजी याः उलई को लेहेर लेपेर उलई रे ॥२॥
हायरे, हो उलई राः राः एनेम उम ऊडते ॥२॥

८३०

पोखरा गा हिड़ोते मोंएंग बुदा चम्पा लाहेईर लाहेईर
लाहेईर २ ददा, चपागाः कलगा लाहेईर लाहेईर ॥२॥
धांयसे रे चुटड कुलम केज अरोलकायेम
बोर अरोलकायेम लाहेईर लाहेईर
लाहेईर लाहेईर ददा चपागाः कलगा लाहेईर लाहेईर ।

८३१

मामू हो भगिना
इंग को चोनाईंग राजाः लमलम रे,
इंग को चोनाईंग राजाः लमलम रे ॥२॥
सोनोराः काः रुपागाः कोम
इंग को चोनाईंग राजाः लमलम रे,
इंग को चोनाईंग ॥२॥

८३२

बीरु मुम्बोः, मुम्बोः तोमलेंगडाःनो
राः राः सीः कोंग जोमे,

थाम कुलम आः घड तोमलेंगडाः
राः राः सीः कोंग जोमे ॥
काँडेर काँडेर पिजेम
हरा अबु पिजेम कोंग जोमे,
थाम कुलम आः घड तोमलेंगडाः
राः राः सीः कोंग जोमे ॥

८३३

अखड़ा बयोब राजा इकुड डीसाःते
कोरमो सुमोब अखड़ा मोःभीते ।
ईना कोरमो ठकायनो गोठोब कुलम ।

८३४

गोडभूंग गोडभूंग चोनामसे ला पाएजकोम,
हिन्तोर ते भाइरसक अबु लुसूइना तेरेम ॥२॥
हिन्तोर भोरे को ऊबर एकड़ी रुपया,
हिन्तोर ते भाइरसक अबु लुसूइना तेरेम ॥२॥

८३५

बुलीज लोःखा गोजलोः ते
लाए लाए किंग
लिट लिटा ईकुड लोयोकिंग ॥२॥
सिलोःना चोलकिम बोकेर
अरई किन्दराएगा डेलतम
अरई मलकाएगा डेलतम ॥२॥

८३६

तोनडेंग आः पिजरा रे ॥२॥
तोनडेंग आः राः राः मलाँग हरा,
मलाँग हरा भदड़ीब तारते ॥२॥
पिजरा युःता युःता योये से ॥२॥
तोंडेंग आः राः राः मलाँग हरा,
मलाँग हरा भदड़ीब तारते ॥२॥

(१६६)

८३७

पेइठ चोलताम ददा मांढड़ी सोङ्गना,
इंग जो चोनेंग कडाम सोंगना ।
अमाः मन्ढड़ी पाःकी ददा,
इञ्जांः कडाम जिनगी नो आवकी ॥२॥

८३८

धांयसे रे कोनघेरा पला बिरू यो डेनाम,
कंङायबोः कोनसेल बमके नो गोडकी ॥२॥
गोटा दुनिया डिगरी नो होयकी
कंङायबोः कोनसेल बमके नो गोडकी ॥२॥

८३९

कोनोन मोनोन बिरूते तोमलेंगडाः राः राः सीः
घोल भन कुलमाः थोंग एकड़ी कुलमाः थोंग राः २ सीः
धांयसे रे कोनोन कुलम केज रोःनो ओलेम, राः २ सीः
घोल भन कुलमाः थोंग एकड़ी भन कुलमाः थोंग ।

८४०

आलू बिरू ते सराहरा सेमड़ी ददा जोइ,
राय गिधनी खोता रोःनो बेलते ददा जोइ ।
सिनी रोडकोंग ते खोता रोःनो बेलते ददा जोइ,
लेबू किते चेंगेना नो बायते ददा जोइ ॥२॥

८४१

हरे तोमलेंगडाः हरे तोमलेंगडाः
कुलमडाय डिडा भेरे मा दुलैर करायोः ॥२॥
कोनघेराः तिः ते सोमोकिम रे कोनसेल
जनापतार रोमोड डाः गुरकी ॥२॥

८४२

अडेल रो डाः गरजे गा डेलता आना सौनेंग
दारू बोःते बानचेना चोनानांग ।

आँचरा ते बेलनांग गमछा ते अँकुनानांग
आना सौनेंग दारू बोःते बानचेना चोनानांग ।

८४३

सिरकी को केजना रे भला २
आजी जोई तोंडेंग राः गोडकी ।
सावन भादो केजना रे भला २
आजी जोई तोंडेंग राः गोडकी ।

८४४

चिरो उलाः जनम डोठोः रे,
चिरो रे चिरोचिट्टी गुनानी करायोः ॥२॥
लेरेः कोनघेर जिरी हिरी एबोःता
डिंडा कोनसेल गुनेन करायते ॥२॥

८४५

कुलहु डेजे तेलिनिया ॥२॥
बेहेरा दारू आः कुलहु डेजे ।
जोल तोने तेलिनिया ॥२॥
रायमुनली कत्तौराः जोल तोने ।

८४६

सराहरा सेमड़ी रूसुंग रूसुंग राः राः ॥२॥
मंना कोनथेड रस जोबना चोलता ॥२॥
ओलेसे गे मा जोइ इन्जांः काः कोम ॥२॥
मंना कोनथेड रस जोबना डेलता ॥२॥

८४७

कोसोर दारू ते टेबा कोनथेड डोकोसीः ॥२॥
योता योता संबरो जियोम मलाःता ।
ओले से बोइ इन्जांः काः कोम ॥२॥
योता योता संबरो जियोम मलाःता ॥२॥

८४८

चवाँर धोगे बोकेर चवाँर धोगे, चवाँर नोम
को रे बोकेर लोरेंगडा: योता हो ॥२॥
संम्पडेना से बोकेर रूसुंग २ हो चवाँर
नोम को लोरेंगडा: योता ॥२॥

८४९

इना रे कयार दुनु मुनु इना कयार ओडुछोब हरा ।
बेरा: ओ:ते कोनसेल बो: बेटी,
हिनकड़ा: ओ:ते डुइजकिम हरा ॥२॥

८५०

अते चोनाम हो लेरे: कोनघेर ।
भरिया ते पेछौरी उगुर टुयोब ॥२॥
गोनमेर चोलताम हो कोनघेर
भरिया ते पेछौरी उगुर टुयोब ।

८५१

हारे डोंगी डा: हारे डोंगी डा:
डोंगी डा: मोहोलते चोलता रे
पुजाये कालो राजा, डोंगी डा: अजोड गोडकी ।

८५२

अयोइंग को लेबुईता युंदुम युंदुम
नाहीअर डेलतंग आयो ।
सामुराईर एंगतंग मा गीड़ींग गीड़ींग
सामुराईर एंगतंग मा: ।

८५३

बेर भाईया ईञ्जा: किनभरते
रूसूंग बोकोबके:
डुरा सितिल ते डोकोसी: ॥२॥

ईंअर हेकेजर गोनमेर
बरिया आराम नोम
बेईटनोमते बिदा तेर गोड़े नो
रोमोड डा: गुरता ।

८५४

सीराईलोग किनिरते डेलकिम ददा जोई अमा:ते गा,
गेनूंकिग बाएर्जकिग ददा जोई अमा: मला: बोंग ॥२॥
साजू गुईजना गुईजना बोंग
गेनूंकिग बाएर्जकिग ददा जोई अमा: मला: बोंग ॥२॥
सँगसँग धनिया रिडना बोंग
गेनूंकिग बाएर्जकिग ददा जोई अमा: मला: बोंग ॥२॥

८५५

डिन्डा रे बेटी पिन्डा ते गिता: कीम
ऊंजऊंज बाडके: मुरुम चोलकी रे ॥२॥
मां गा: ऊंज ऊंज बाडके:
अपा: ऊंज ऊंज बाडके:
ऊंज ऊंज बाडके: मुरुम चोलकी रे ॥२॥

८५६

अतु चोलकीम हो महा कालो
ऊंजऊंज बाडके: मुरुम चोलकी ।
डिन्डा गा: मला: बोंग
पिन्डा ते गिता: कीम
ऊंजऊंज बाडके: मुरुम चोलकी हो ।

८५७

तेलमँग लो:ते हेलेकीम रे कोनसेल
तेलमँग नँग लोजो: गोडकी रे ।
लेरे: कोनघेर आ: ते सोमोकिम रे कोनसेल
बा: डोबको कुयु लेखे अवकीम ।

८५८

हारे ईञ्जा: जोड़ी कुलम ॥२॥
अता बिरुते ओल्लोंग सायतेम ।
एडी भोरे तोल्लोंग, कटा भोरे लम्बाय
अता बिरुते ओल्लोंग सायतेम ।

८५९

करम को सुमो: इकूड डिसा: ते
अखड़ा को लाखो: खोड़ी मो:भी ते ।
करम ते डोड कनो: नहियारपुर
हरे करम इकूड दगा तेरोब ।

८६०

ओमपाय सीतिल सीतिल ते गायनेवरा तरना चोनेंग ।
ओले से रे माँ ईञ्जा: का: कोम गाय नेवरा तरना चोनेंग ।

कसा कुःढींग

८६१

कोनोन मोनोन मुरुन
भाक भुमाईर हरा रे ।
ए गोईराम, कोनसेल इडिब ते चोलता ॥२॥
मुगाम मुगाम मन्दड़ी काड
कुन्डब कुन्डब कोनसेल
ए गोईराम, कोनसेल ईडिब ते चोलता ॥२॥

८६२

टुकू आः ओलेत ते योयेम रे कोनघेर
भाइल मराः लोरेगा चोलता ॥२॥
मुगाम मुगाम मन्दड़ी काड
कुन्डब तीज भलीया
योयेम रे कोनघेर
भाइल मराः लोरेगा चोलता ॥२॥

८६३

आइल डाः डेलता अना सांगो माचाते यारेनंग रे ।
लुतुई बेलकाय गोड़ींग रे गमछा अंगकु गोड़ींग रे ॥

८६४

ओह रे दंया अपागाः सका
दुराते पाएकोम नो डोकोता ।
पतारना तेरे रे पाएकोम रुसुंग ओरेज ते तेर
गोड़ींग रे, ओसेल ओरेजते तेर गोड़ींग रे ।

८६५

कोनथेड रे किनीर कोनथेड
डोकोकी रे नीमो हाराते ।

(२०४)

हाराते डोको की हारा पीजकी
डोको की रे नीमो दाहते रे ।

८६६

बेरा: डोली भारो गोडभुंग गोडभुंगते चोलता
राजा: डोली भारो गोडभुंग गोडभुंगते चोलता रे

८६७

तुता: दोरोहो हेंडो हेंडो रे
तीबलुंग दोरोहो कडोंग तारींग ।
सोंगकाय से मा कोनके: सु:त्रोम आ: गीरा
कुलंग कलेड कडोंग तारींग रे ।

८६८

कोनोन डू: सिडिज दाह माँ
अबु गा केजेम नो ।
किनकर डोम रूसूंग रूसूंग लुतुई रे
किमिन डोम ओसेल २ लुतुई रे ॥

८६९

हायरे अरबडू: बेटा, डा: भी:तर ते
ईयामना चोलकीम ।
राजा हीरा बोरते, डा: भी:तर ते
इयमना चोलकीम ॥

८७०

मोएंग बाड़ी सिडीज
ऊबर बाड़ी सिडीज ।
रिठोएज तूंयोएज थाम साए तुड़ाय ॥
पोयोएज सु:त्रोम कोनके: कोनके:,
ताँजकाए गोडे चि:को कुलम राएमुली गमछा,
रेसेम फवना तिलासारी ॥

(२०५)

८७१

टोंगरी सितिल सितिल ते ॥२॥
लेदेम लेदा: जा: रे ।
दुलार बो: भाईस आरजों:ना चोलता ॥
रोएजना को रोछोएज
मोहाएना को मोहायोज
ति: ते घीव राचे गोडकी ॥

८७२

ऊबने महा पो:दा बेर जो ऊम्बो कुलम की
छिपी डुभा गेब मोयकी ॥२॥
चुटाड कुलम ते डोड कनो: की मुन्सी रो दरोगा
महा कुलम ते तोल डोठो: की ॥२॥

८७३

अनी से चटकटोला:
रेंगारी किनिर ते लमलम एबो:ना ॥२॥
मेयागा: तो: ते चटकटोला:
रेंगारी किनिर ते लमलम एबो:ना ॥२॥

८७४

एनमागा: कोबलोंग ब:छा
ईकूड हलाकाईत ला,
ए गोई नागपुर ते पुर येंलोंग की ।
योंने से बाँड़ियाँ अबु ऊ:छीये डोरिया,
ए गोई नागपुर ते पुर येंलोंग की ।

८७५

कोनोन मोनोन मुरुन पासरे की हरा,
ए गोई भाईल मरा: लोरेगा चोलता ॥
मुगाम मुगाम मन्वड़ी काड़,
कुन्डाब ते भाईल काड़,
ए गोई भाईल मरा: लोरेगा चोलता ॥

(२०६)

८७६

भोईस नंग को तोबडा: बुइडा: डेलसी:
धायसे रे कोनघेर ऊवा: बुलीजेम ।

८७७

एनमागा: कु:ढींग डांडते
सांगो नंगा: कड़ामनो गुर गोडकी
दियोम ओले अपा, तरदी ओले अपा, सांगो
नंगा: कड़ामनो गुर गोडकी अपा ।

८७८

एनमागा: कु:ढींग डांडते अना सांगो
चोनाम नो डम्बो: सांगो ।
डा: नो गिमते भोड़ीते कुलाम डाईज
मुड गा डेलता सांगो, गुंगु ओले अपा
छता ओले अपा, कुलाम डाईज
मुड गा डेलता ।

८७९

कोनोन कुलम कयार नो ओनोब
हारे कयार भुण्डकुर नो गोडकीम ॥२॥
कोनोन कुलम्मा: ओ:ते बेटिनो महासी:
हारे कोनघेर हो तेगा चोलकीम: ॥२॥

८८०

सिसी लो: डांडते डुरगुड कोनथेड बेर बेर कुलम
तारो:पे, बेहार कुलम तारो: ।
भूड़ीया:तय कोनोन कुलम तारो: ला, सीसीलोगा:
डुरगुड ते कोनोन कुलम तारो: ।

८८१

बेरा: रूसूंग गाय रे, रूसूंग गाय
पोखरा ते ओडो:कीरे ।

राजा: रूसूंग गाय रे, रूसूंग गाय
पोखरा ते ओड़ो:कीरे ।

८८२

सिलो: डांड ते बिड़होज कोनथेड अण्डायो:
डोमोनकुई डो:कीकियर बोरिया डोमोनकुई ।
धांय से रे कोनघेर खुभी फन्दा ओन डेनाम
डोमोनकुई डो:कीकियर बोरिया डोमोनकुई ।

८८३

गुड़री सिनिंगते तोमलेंगडा: जोरमेकी केलोमबो: ।
तोमलेंगडा: भाबरे की केलोमबो: ।
धांय से रे कोनोन कुलम रा: रा: केज ओलेम केलोमबो:
तोमलेंगडा: भाबरे की हरा केलोमबो: ।

८८४

सराहारा सेमड़ी रूसूंग रूसूंग रा: रा:
मंना कोनथेड रास जोबते ।
ओलकाए से मां ईञ्जां: का: कोम
मंना कोनथेड रास जोबना चीलता ।

ठोयोल

८८५

अनुआः घंसिन बेटी रे
ऊते आतु भोरा बेटा भूमाईर लगाय ॥२॥
बरोयाः घंसिन बेटी रे
ऊते आतु रे भोरा बेटा भूमाईर लगाय ॥२॥

८८६

केलोम, केलोम रे केंवट कुलम
लेबधायोः भांवर जाल,
ओमपाए सितिल सितिल ते ॥
मेसोन जाल लेबधायोः केंवट
बरसोन जाल लेबधायोः रे
ओमपाए सितिल सितिल ते ॥२॥

८८७

केलोम, केलोम कोसोर ओमपाए रे
कोनघेर आः तिरयो तुडाः डोमता
तिरयो तुडाः डोमता कोसोर ओमपाए ते ॥
ऊबडूः ते गंगा हेमडूः ते जमूना
कोसोर ओमपाए कोनघेर आः
तिरयो तुडाः डोम गा चोलता ॥

८८८

पोखरागाः हिडो ते
मोएंग दारू लूवा रूसूंग रूसूंग
भदड़ीब नो रास जोबते दीरोम दीरोम ॥२॥
ओले से रे मां जोई
ईडांः काः कोम दीरोम दीरोम
केलोम भदड़ीब रास जोबते दीरोम दीरोम ॥२॥

(२१२)

८८६

मन्दड़ी काड़ दिरोम चोनम
कटा बोंग कटा ते तोडभूंगतम
मन्दड़ी काड़ दिरोम चोनम ।
बेलो: की साड़ी ते, बेलो: की दुलाईची ते
मन्दड़ी काड़ दिरोम चोनम ।

८९०

तुम्बा सोकोड़ सोकोड़ ला बेङगा बेटा
डेबेंग डेबेंग ला बितलायते ।

८९१

मरा: रे भाईल मरा:
इना: थोंग कुलमडाया: रोमोड डा: गूरता ॥२॥
तुता घाट आ: राजा बेटा
इना: थोंग कुलमडाया: रोमोड डा: गूरता ॥२॥
केन्दोर डोम चोलकी टापू राइज
हिना घाड रोमोड डा: गूरता ।

८९२

सोंगडा:ते लुरी काडोंग डेबता
एन्देर बासी ठोयोल ठोयोल ॥२॥
बेलो: की साड़ी ते, बेलो: की दुलाईची ते
एन्देर बासी ठोयोल ठोयोल ।

८९३

ईजां: कुन्डब सींग ते लुवा दारू
लुहर लुहर कोयो डेलता ॥२॥
लुवा जो ऊम लूकू सी:
लुवा जो ऊम बेलोंग सी:
लुहर लुहर कोयो डेलता ॥२॥

८६४

बेरा: रूसूंग आरोज
किनिर ते ठोडकोब सोधोमता
किनिर ते घंटी सोधोमता ॥
राजा गा: गोला आरोज
किनिर ते ठोडकोब सोधोमता
किनिर ते घंटी सोधोमता ॥

८६५

हो, हो गुदनु कडोंग
बँकलुई मेन्डरे गा डेलता
हो गुदनु कडोंग रे ॥
गोजलीगा: डा: आजोड की गन्दरी कडोंग
बँकलुई राम तेरो ज्यों:ते
हो गन्दरी कडोंग रे ।

८६६

डुगुर डुगुर, डुगुर चोनाम रे मँना,
चोनम पलामो राईज रे ॥२॥
मो:भी तो: चोलकी सिगकोय मुला: चोलकी
चोनम रे मँना पलामो देश रे ॥२॥

८६७

सीसी गोजलो: ते बिड़होएज
अण्डा ते कोनोन कोनोन
डो: गोडकी बोरिया डोमोनकुई
कोनोन कोनोन ॥
धाय से ला कोनघेर
खुजी सारकोए भोन उनम
डो: गोडकी बोरिया डोमोनकुई
कोनोन कोनोन ॥

८६८

पलकोःटाः पोःदाते अब्बु तेरेम दादा
ऊर्मांग चोना, खोड़ी तेगा केलोम केलोम
कोनघेर की, ऊर्मांग चोना ।

तेनतोन कयार दारु सुमबोः ते
जोड़ा मंदड़ी सोधोमता, ऊर्मांग चोना
खोड़ी तेगा केलोम केलोम कोनघेर ऊर्मांग चोना ।

८६९

अतू आः धोबिनी कोनसेल रे
उते अतू रे कोनघेर लाःकी भूमैरया रे ॥२॥
बरवायाः धोबिनी कोनसेल रे
नगापूर ते रे कोनघेर लाःकी भूमैरया रे ॥२॥

९००

हो हारे कुपुंग लोकू भोथा भोथा,
अना कोनघेर कुपुंग केजना चोनानांग ॥२॥
अम चोनाम गाःढा गाःढा इंग चोनांग डिपा २
अना कोनघेर कुपुंग केजना चोनानांग,
कुपुंग लोकू भोथा २ ।

९०१

हो हारे अनी चोनानिंग ढेबुवा बोतोल ते
आरखी रोःनो उडना चोनानिंग ।
मोकराः कोनघेर पोड़ीयाः कोनसेल
चोनानिंग ढेबुवा बोतोल ते
आरखी रोःनो उडना चोनानिंग ।

९०२

हो हारे तेरोम किनीर ते, तेरोम किनीर ते एबोःता
लमलम रे तेरोम किनीर ते ।

(२१५)

खजार तारो: बारो डांग, लिटया तारो: तेरो डांग
हो होरे तेरोम किनीर ते ॥२॥

६०३

ओ होरे भाईस नंग को, भाईस नंग को

तोबडा: बुईडा: डेलकी

ओ होरे भाईस नंग को ।

खुरठो: की सोरेंग पा: की, डेडेंग ठो: की

हारा पिजकी ओ होरे भोंईस नंग को ।

कुआरी जतरा
लहसुवा

६०४

कोले: कुलम कोले: हरियारा बेलेड
ओल काय गोडेम गोराइर रा: रा: ।
रा: रा: कामेम हारा अबु पिजेम
कोले: कुलम ओल काय गोडेम गोराइर रा: ॥२॥

६०५

पी पियो पियो हारा: डोको पियो,
पियो २ हरा ते अबु ओसुंगेम ॥२॥
सोना: हारा पियो रूपा: उला:
पियो हरा ते अबु ओसुंगेम ॥२॥

६०६

भोंइसा: डेङ्गे ते डोको किम रे ढेचुवा केलोम युंठोब
कोनके: राग चलायोब रे ढेचुवा केलोम युंठो: ।
ओले से गे मा जोइ ईञ्जां: का: कौम केलोम युंउते
कोनके: राग चलायोब रे ढेचुवा केलोम युंठो: ।

६०७

अता हरा ते डोको की राए गिधनी रे कोइलिया
अता हारा तीज बोकोब नो लेबकोखोब ।
मुनु:सिंग हरा ते डोको की राए गिधनी रे कोइलिया
योलो:सिंग हारा तीज बोकोब नो लेबकोखोब ।

६०८

घून घून घून करम सुमो: की
घून कुलमडाय की सेवा करायो: की ।
कोनघेर जो मन्दड़ी सोबधोमते कोनसेल जे कुइजता
कोड़ीया: घूनसी उसलो:ते लोरे गा चोलता ।

६०६

चिकड़ों चिकड़ों ओः आइज चिकड़ों २ पिडा रे
आयो गे हिन ओःते जियोम मलाःता ।
सावा सैतिन ओःते तेरोब नो गे मां जोइ
मोःभी ओःते रोमोड डाः गुरता ।

६१०

अना राजा सोना भोरी सोना भोरी,
बनासी एबोःना अना राजा सोना भोरी ।
डोइर जो तेज गोडकी बनसी जो सिड गोडकी
अना राजा सोना भोरी सोना भोरी बनसी एबोःना ।

६११

डिडा कौनसेल कियाः तरपत
सिरासिता आंकाल ते अबकी ।
धांय से रे कोनोन कुलम(रे) तरपत लमना रे
सिरासिता आंकाल ते अबकी ।

६१२

गंगा जमुना बरिया कुलम डाए नो
हंसा जोरी दीरोम दीरोम
दीरोम दीरोम रे कुलम लेंगेता
रोमोड डाः दीरोम दीरोम ॥
मां चोलकी मुनुः सींग
अपा चोलकी धीनलोः दीरोम दीरोम
दीरोम दीरोम रे कुलम लेंगेता
रोमोड डाः दीरोम दीरोम ॥

६१३

एनमागाः इन्वो डांइते किःते लेमेंड नाम रे
पोडछोल बेडो मुःसिंग गोडकी ।
सबएथाः खटिया लारोगाः भेनदू
एनेम पोडछोल लेमेड जो उम डेलता ।

(२२१)

६१४

बोकोब आ: बेड़ा ते बेलोंग कोन्डेंगरे
हायरे कोनघेर लखो: का: कोन्डेंग ॥२॥
कोम जे छु:टे की डा: लेखन
हायरे बन्दूक छु:टे की ईकुड बो: ॥२॥

६१५

कठो: सोखो: मांग ओछो:
खो:चा ते रा: रा: धोखो:,
बोकसेल अमा: बोकोब तेगा मघा रा: रा: ॥२॥
कोनघेर आ: ति: ते सोमो किम रे कोनसेल
हायरे कोदो डूरूंगना बोंग दिनो नोम चोलता ॥२॥

६१६

कोनोन मोनोन कोइरिन बेटी
मोंएज मु:ठी कोड़ी ।
श्री हो राम पोखरा हिड़ो ते
बोकोब तुरना चोलता ॥२॥
कठो: सोखो: मांग ओछो: साम्पड़े डोमकी ॥२॥
श्री हो राम पोखरा हिड़ो ते
बोकोब तुरना चोलता ॥

६१७

बंकलुई रे बंकलुई कडोंग योता योता
बंकलुई जीयोम गेबता,
बंकलुई कडोंग योता योता
बंकलुई जीयोम गेबता ॥२॥
मन्दड़ी कड़ ते एगों मंगो
संगो कुलम एबो: कड़ ते गुड़ीजा: गिनिल
बंकलुई कडोंग योता योता
बंकलुई जीयोम गेबता ॥२॥

६१८

बुलीजना चोलकिम लोरेंग डा: ते
कलगा नोम कुलम डाए
हिलेना डोलेना ला: सी: ॥२॥
भरिया भोरे गोडकी लोरेंग डा:
कलगा नोम कुलम डाए
हिलेना डोलेना ला: सी: ॥२॥

६१९

भूमिर भ्रिटा डा: गिमते,
लिसाए लोसोए ओमपाए भोरेसि: ॥२॥
दारू आ: डोलोंग कोन्डेंग आ: खेवा
कोनघेर बेटा लेरेए: बोंग डोंगा चलाएते ॥२॥

६२०

मंना मंना रेमा: ते
मंना अतु चोलकी,
मंना: थोम हँसली ओब ढराय गोडींग मंना: थोम ॥
अमा: थोम गा मंना सोनोर आ: पिजरा
अमा: थोम मंना ह्वा गा: पिजरा
अमा: थोम गा रे मंना हँसली ओब
ढराय गोडींग अमा: थोम गा ॥

६२१

बा: होइकी गुडलु गुडलु होयकी
चोलो एनेम डा-गा:
डा: उम्बो: ला: सोना आला:की
मला:की एनेम डा-गा: ॥
इघाय बुये नींग कुन्डु: हकोन
इघाय छु:टे ना नींग सका
एनेम डा-गा: ॥
एनेम डागा: रे सोना अला:की
मला:की एनेम डागा: ।

६२२

गुड़गुड़ी चुंगडा: लोरेंग बो: डा: ॥२॥
केलोम सांगो लोधमा ताय डा: ओलते ॥२॥
कटा जोड़ी कोनसेल की, डा: ओलना चोलता की ॥२॥
केलोम संगो लोधमा ताय डा:-ओलतेकी ॥२॥

६२३

ददा जोइ ददा मुनगा नो ओनोब
ददा मुनगा नोम भाबरेकी हारा ॥२॥
कुलाम डाय रे कुलाम डाय मुनगा: भोइ उडेम
कुलाम डाय एकड़ी दिनों रोमोड डा: गुर्ता ॥२॥

६२४

एबो:ना रेमा खोज उम
डेलकी एबो:ना केलोम सीता ।
एबलोंगा एबो:कीऊज जनापातर केलोम सीता ॥२॥
डेंज गोठो:ज दाईल चा:खाना
कोमडोला: तारकारी केलोम सीता
एबलोंगा एबो:कीज जनापातर केलोम सीता ॥२॥

६२५

एरेंडी था: किनिरते बछरू सिडकी
इंग को चोनाईग,
इंग को चोनाईग मां बछरू लामना रे
इंग को चोनाईग ॥२॥
ओले से रे मां जोई सेंग सेंग रेंगाय गमछा,
इंग को चोनाईग,
इंग को चोनाईग मां बछरू लामना रे
इंग को चोनाईग ॥२॥

६२६

अना कुलमडाए दोसांय योना,
ऊर्मींग चोना ददा दोसांय
डाई तोबडा: आईज ऊर्मींग चोना ।

सोना गुड जीयोम आईज रूपा गुड
घेंरी आईज ऊर्मीग चोना,
ऊर्मीग चोना ददा दोसांय डांड
तोबडा: आईज ऊर्मीग चोना ।

६२७

हरे चांवर बांडिया ॥२॥
खेलडी ते निपूर तोलोब ॥२॥
केलोम ऊर्मी बंबरोठोब
हरे चांवर बांडिया
खेलडी ते निपूर तोलोब ॥२॥

६२८

ओसांग रे ओसांग तुम्बा
गोसाई कुलम केन्दरा बाएतेरे ॥२॥
गोसाई कुलम केन्दरा बाएते ।
किनिर कोलेड डोंगी कोनडेंग,
खोड़ी आ: ओसांग तुम्बा लो:रे
गोसाई रे केन्दरा बाएते ॥२॥

६२९

सीसी लो: ते मला कोकरो अरऊों:ता ॥२॥
अरऊों:ना तेरे बोकेर, मला कोकरो ते
अरऊों:ना तेरे ॥२॥
मोंड नोम पुडू की बोकेर
का: कोम मेलय डोमकी,
अरऊों:ना तेरे बोकेर,
मला कोकरो ते अरऊों:ना तेरे ॥

६३०

मंना को चरे बरे ॥२॥
गंगाई हिनते डोकोकी ॥२॥
ओले से मां हेंडां: का: कोम ॥२॥
मंना तारना चोनाईग ॥२॥

६३१

माम् जोई भागीना ॥२॥
माम् जोई अना माम् किनिर लमलम ॥२॥
खजर नो सड़ा तेरो: कोम ईंग मेलायोएज
हारे दाईया ठो:की केलोमबो: कुलामिगते ॥२॥

६३२

चकोंडागा: रूनु भूनू एरेंडी या: घाईधला,
होते कुलम गिता: की निरभेदा नो मां कोंग जोमे ॥२॥
गिता: ना को गिता: की कुलम
निरभेद गिता: किम ॥२॥
होते कुलम गिता: की निरभेद कोंग जोमे ॥२॥

६३३

कोइलो, कोइलो रेमा: ते ॥२॥
कोइलो, कोइलो को कदम सुम्बो:ते,
पातर गोडकी ॥२॥
कायर हरा ओन्डोर ते कोइलो
निम हरा गुमडिमता ॥२॥
कोइजो, कोइलो को कदम सुम्बो:ते
गुमडिम गोडकी ॥२॥

६३४

केंवटा ला भाईया ईकुड हलबलिया,
खोड़ी खोड़ी गोलते भांवर जाल ॥२॥
मेसोन जाल लेबधा यो: केंवटा
बरसोन जाल लेबधायो:
डो: की मोंय घोंघी रो आंड़ील ॥२॥

६३५

ऊ समय, समय समय, उघय बिनो रे चोलकनकी,
चोलकनकी ददा डिन्डा समयनोम चोलकनकी ॥

(२२६)

भोएँज पथा कुदा बोंग सोंगोएज
चम्पा राः राः रामु, रामु,
रामु, रामु ददा डिन्डा समय नोम चोलकनकी ॥

६३६

ओमपाय सितिल सितिल कुलमडाए चोलकनकी ॥२॥
दिरोम दिरोम लेरेः कोनघेर धंएते ॥२॥
मोंएज लोःखा चोलकिम कुलमडाए
ऊबर लोःखा चोलकिम ॥२॥
दिरोम दिरोम लेरेः कोनघेर धंएते ॥२॥

६३७

भिमिीर भिमिीर डाः गिम गोठोः
तेनतोन सुम्बोः ते,
रेः पेः गोंगते तेनतोन सुम्बोः ते ॥२॥
सोनोराः करल्लुल रुपागाः बटलही ॥२॥
रेः पेः गोंगते तेनतोन सुम्बोः ते ॥२॥

६३८

कोनोन मोनोन रगंनी
भक्का भुमाईर हरा ॥२॥
रगंनी भक्का भुमाईर डाईरनो
तपकर सुम्बोः ते ॥२॥
रगंनी रे रगंनी थाम बरन राःकीम
रगंनी भक्का भुमाईर हरानो तपकर सुम्बोः ते ॥२॥

६३९

गुडलू आः कुलांग कलेड
हेलेकिम रे कोनघेर,
माँ आराम ते गानड बोंग तेरोः सोदा ॥२॥
धाँय से रे माँ मुनसी ते ओब ओन्डोरेम,
माँ पैलकोःटा थाना ते ओडेब गोडेम ॥२॥

कोनोन मोनोन जोन्डरा बाड़ी
 होतेगा डियरकी सूरूम,
 सूरूम आँड़ीज कुलमडाय
 लेरे: कोनघेर होजे: हेके ॥२॥
 तारदी सालगाय कुलमडाय
 बती सालगाय ॥२॥
 तारदी ते सप्तारे
 सूरूम आँड़िज कुलमडाय
 लेरे: कोनघेर होजे: हेके ॥२॥

तुताखोड़ी गुडलू तोबलूंग खोड़ी कूदा
 नना जोई, खोड़ी मो:भीते बिड बिड जोन्डरा।
 गुडलू आ: गोलूंग उडेनिंग हा:निंग
 कुदा: लेटो ज़ोंगेनिंग हा:निंग,
 नना जोई, जोन्डरा: लवा गाएज
 ज़ोंगेनांग हा:नांग ॥

बोकोब नोम भुतूर भूमा:
 डीलू की समय रे
 डोडना डेलकी मोंय
 डोडना डेलकी मोंय अतु कुयोब ओ: रे
 डोडना डेलकी मोंय ॥२॥
 बोकोब ते पोटोम भोटोम
 ती: ते तेनतोन सोंटी
 गिलना ला: सि:
 गिलना ला: सि: बिजली लेखन रे
 गिलना ला: सि: ॥२॥

(२२८)

६४३

श्रोमपाय आः डिन्डा बेंटी ईकुड मालकेता
सोःलुई हिनते कोनसेल ऊनते
तमकु, कोनघेर आः घड ॥२॥
कोनघेर जो ऊम आँःते
कोनघेर जो ऊम ऊडते
सोःलुई हिनते कोनसेल
ऊनते तलाक तमकु कोनघेर आः घड ॥२॥

६४४

करामाः हरा ते रूसूंग कोनन्थेड डोकोता कोंगजोमे
करामाः हरा पिजकी गोई कोंगजोमे (साजीन) ॥२॥
करामाः सेबोल बोंग लेमेड जो
ऊम डेलता गोई कोंगजोमे,
करामाः हरा पिजकी गोई कोंगजोमे (साजीन) ॥२॥

६४५

हीङो तुताते बांकचुई नो डोकोसीः, तारे सेरे ददा
इजांः लेरेः कोरे ददा कलेगा बायना ।
तारना जो तारोब ददा बायना जो बायोब
इजांः लेरेः कोरे ददा कलेगा बायोब ।

६४६

हरे कुडा दारू, हरे कुडा दारू,
कुडा दारू ते कोनघेर डेबता ।
आरेना से सहीया, आरेना से सहीया,
चीपा गोलांग उर्मिज तेरे छंडाय गोलांग तेरींग ।

६४७

आना बोइ २ दोसोंय योंना चोनानांग,
उर्मिग चोना ददा तोबडाः अयीज ।
सोना लेखे जियोंम अयीज रूपा लेखे लुतुई
अयीज उर्मिग चोना तोबडाः अयीज ।

(२२६)

६४८

मोःभी खोड़ी ते गुलेंची नो राः सीः हरे दइया
संगों नाइंज इडीब मेयाः, राः राः तोयते ।
राः राः ते तोयना २ तीः डोमते तोय डोमकी
हरे बाइया, संगो नाइंग इडीब मेयाः राः राः तोयते ।

६४९

रिंगी चिंगी दौड़ा सखिन उलाः डलना,
हिनते तारदी नो सलगेता ।
उ पोःदाः कोनघेर कोनसेल होइ की मोय
भुड़ीगारे सलगे तारदी मोलिब गोडकी ।

६५०

तुरीन तरीन गे संगो रिंगी चिंगी दौड़ा
बयकायेम गे संगो ।
करम्माः लहंत ते रिंगी चिंगी दौड़ा
बयकायेम गे संगो ।

६५१

रिमी भिमी डाः रोः नो गिमते तेनतोन मुम्बोःते
नवागढ़ रे बोयो पेः रोः नो गोंगते तेनतोन मुम्बोःते ।
रुपा आः बटलोही सोना आः करछल तेनतोन मुम्बोःते,
नवागढ़ रे बेटा पेः गोंगते तेनतोन मुम्बोःते ।

६५२

पोःदा तेगा सोसुराइ पोःदा तेगा नहीयर
दियो दियो नहियरा चोलता हो ॥२॥
कटा ते डेजना लुतूर ते सेज गोठोः
ठूठी कटा ते पयारी नो सुयोः हो
बुची लुतूर ते श्रोड़ेग नो सुयोः ।

६५३

हाय डिंडा कोनसेल ठेचुवा दलाय लेखे सोःलुई नोम
किजते तोः आवना हो ॥२॥

भोरुम डाः नोम चोलकानकी हाय डिडा कोन-
सेल देन्नुवा दलाय लेखे सोःलुई नोम किजते तोः आबना ॥२॥

६५४

चुःचीगुड बनासी कुसर आः डोइर रे ॥२॥
धांय से रे बोकेर बनसी एबोःना हो ॥२॥
डोइर जो तेजकी बनासी जो सिडकी हो
बोकेर नाइंग को हेःजोते हो ॥२॥

६५५

बेर ला बोयो बेड़ो जी सिलोःता,
कँज गोड़े रे बोयो श्रोरेज लोयो नो गोडकी हो ॥२॥
कोनोन बोयो बेड़ो जी सिलोःता
कँज गोड़े रे बोयो लोयो नो गोडकी हो ॥२॥

६५६

सोनाः बनासी रुपाः डोइर ॥२॥
श्रोडोः श्रोलोब रे बोकेर, चोड़ेज काडोंग ते श्रोडोः श्रोलोब
गोङ्गोंज डेञ्जोंःज डाः श्रोलना चोलकींग ॥२॥
ञ्जोंःगोठोः रे बोकेर सोलोः रो बिलाइ काडोंग नोमते ॥२॥

६५७

मुइंग बाड़ी सिडीज उबार बाड़ी ॥२॥
पोये से अजी गोरेज मेयांः ॥२॥
रिठोएज पोयोएज मोलोए पोलासुःत्रोम ॥२॥
तांज कये रे चिःकोरे कुलम रेसेम फुदेना लगाय
कयेम लिला साडी ।

ਠਡੀਆ

६५८

घोरना सुम्बो: सुम्बो: ते
जोकोर लरँग गा चोजता ॥२॥
मोएँज गोठँग पु:ठी डा:
जोकोर आ: चा:खना
ज्यों:ते की केलोम बो: ला:ता ॥२॥

६५९

सीसी लो: ते डा: लोरता
लोरता लोरँग डा: ॥२॥
डा: बेतोड डा: भेरे
कूर कूर पेरँवा दूरे दूरे डा: ऊडतेकी ॥२॥

६६०

कोनोन मोनोन तपकर दाहू रे
ऊँगूल ते कोले: डोको की ॥२॥
श्रोले से माँ ईञ्जां: का: कोम
ऊँगूल ते कोले: डोकोसि: ॥२॥

६६१

बेरा: बोकोब ते सँग सँग रँगाए गमछा
बेरा: बोकोब ते जवा रा: रा: ॥२॥
राजा: बोकोब ते सँग सँग रँगाए गमछा
रानीया: बोकोब ते जवा रा: रा: ॥२॥

६६२

हारे रेल चोलता ॥२॥
बाँगला भि:तर ते रेल चोलता ॥२॥
भि:तर ते तिमसोंग डा:
बाहेर ते काल ॥२॥
हारे रेल चोलता बाँगला भि:तर चोलता ॥२॥

६६३

हारे आमिन कुलम ॥२॥
गोजलो: गोजलो: सोरेंग मुमो: ॥२॥
डेलकी मोंय आमिन
एठो: की डाङ्गकाल ॥२॥
गोजलो: गोजलो: सिकरी चालयो:की ॥२॥

६६४

मुडूगा बेटिंग खिरोम पारो तेरोएज
खिरोम भोरे सि: छुटे की नहीयर ॥२॥
खिरोम हिन्ते डोलोंग
डोलोंग हिन्ते मनोवा
मनोवा: रोमोड डा: गुरता ॥२॥

६६५

अपा: जुंग जुंग कन्डाय
माँ गा: जुंग जुंग कन्डाय
बहा: जोड़े कन्डाय,
बेर ला बेर कुलम लुसुये रो डोड़े ॥२॥
ओले से रे माँ मोएँज चेपुड डेबुआ
बहा: जोड़े कन्डाय
बेर ला बेर कुलम लुसुये रो डोड़े ॥२॥

६६६

हारे तिङ्इल बुदा, हारे तिङ्इल बुदा
तिङ्इल बुदा रे जोंगोड गोडकी ॥२॥
ओलेंग ना को ओलेंग ओ:
रेंगायना को रेंगायो:
हारे तिङ्इल बुदा रे जोंगोड गोडकी ॥२॥

६६७

ओम्पाय सितील सितील ते हारियार जा:
खाड़ ओरेज चोलकानकी ॥२॥

छन्देये से महारा तोले से महारा
हीयो हियोरोः गाया ते रेमाः ते ॥२॥

६६८

मुगाम मुगाम भँस लाः कुन्डाब ते
महारा कोनघेर रूतु पेएडते
हाय रे कोनघेर रूतु पेएडते ॥२॥
भीमीर भीटा डाः नो गीमते
भंसनोम को चोलकी लुआ डांङ ते ॥२॥

६६९

एनमागाः बेतोड् नो माँ जोई
कून्डूः हकोन तोलडोमकी मोय ॥२॥
ओले से रे माँ जोई
ऊबर एकड़ी रूपैया
कून्डूः हकोन ते काज ओरलिंग ॥२॥

६७०

अता किनीर ते कोनोर बेलोंगता
अता किनीर ते लुवा बेलोंगता ॥२॥
तुता दोरहोते हेलोते
तुभलूंग दोरहोते कडोंग तारते ॥२॥

६७१

ओम्पाय सिनिंग सिनींग ते
किलकिला तोरोः गा चोलता ॥२॥
कडोंगाः मलाः बोंग कँडो डाः मलाः बोंग
किलकिला तोरोः गा चोलता ॥२॥

६७२

संग संग रंगाय कोनसेल
कदाम सुम्बोः तोगोन रे
कोनसेल इयामता वीरोम वीरोम रे ॥२॥

किमकार तेरो: लुतूई, बावडोम
तेरो: ठिपा सुन्द्रोम
केन्डोर तेरो: सोनोरा: सिंगार ॥२॥

६७३

मां अपा: ओ: ते आवकीम रे कोनसेल
मघा रा: रा: गुड् आवकीम ॥२॥
कोनघेर आ: ती: ते सोमोकीम रे कोनसेल
जनमो इयामतोबरोगे ॥२॥

६७४

कका रे कका भतिजा
कका भतिजा लडाई ताकियर ॥२॥
रांची रे लोहरदगिया
कका भतिजा लडाई ताबियर ॥२॥

६७५

बेरा: किनभर ते मंना घुमरेता ॥२॥
बेरा: किनभर ते गोई बरछा रो रा: रा: भूमकेता ॥२॥
राजा: किनभर ते मंना घुमरेता ॥२॥
बेरा: किनभर ते गोई बरछा रो रा: रा: भूमकेता ॥२॥

६७६

हारे केलोम चुंगडा: ॥२॥
सोमता पातर डा: ओलते ॥२॥
बोकोब ते बिन्डा बिन्डा ते क्यू,
सोमता पातर डा: ओलते ॥२॥

६७७

बीरू आ: सितिल सितिल ते लोरेंग बो: डा: रे,
यें:लु डा: काडोंग लोरेगा डेलता ॥२॥
आँडिज् यें:लु डा: आँडिज् पो:ठी डा: रे,
बोरिया कुलमडाए लोरेगा डेलता ॥२॥

६७८

हारे ईजाः जोड़ी कुलम ॥२॥
अता बीरू ते ओलॉंग साएते ॥२॥
मोएंज मुःठी ओलॉंग
एड़ी भोरे लम्बाए,
अता बीरू ते ओलॉंग साएते ॥२॥

६७९

पँलकोःटाः रानी बेंटी,
कोनकेः कोनकेः सुःत्रोम पोएते रे ॥२॥
रिङ्ना को रिठोब, पोएना को पोयोब्,
लेरांग बेड़ो मला तोयोब् रे ॥२॥

६८०

पँलकोट रे पुगू गोमलाः, राजा लेखे
बेर किसडों अयीज ॥२॥
बाः ते अटकारे राजा देबुवाते जमा कराय,
डलंगी भोरे नो गोडकी, छटका भोरे नो गोडकी ।

६८१

एनमा गाः बेतोड आयो मुरून रे
चलान होइकी रे, मुरून चलान होइकी ।
सिंगकोय सुलाःते (अकाल) बेतोड
आयो, गोरेज मेयाः चलान होइकी ॥२॥

६८२

कुइंजना २ बूंग गुर गोडकी कोलेः
कलगा हो, गुर गोडकी मराः कलगा ।
ईजाः कायोमते चोनाम लाः
कोनघेर, तेर गोइंग कोलेः गाः कलगा ॥२॥

६८३

हरे तुलसी उलाः हरे तुलसी उलाः
डिडा भेरे तुलसी उलाः ॥२॥

तुलसी उला: चिट्ठी डाँगिग रे
इन्नां: नहियार उम गा नो योता ॥२॥

६८४

कुडा भोरी कयार भोरी फुदना जोरोम
नो गोडकी, फुदना जोरोम नो गोडकी ।
अता कोनघेर बूंग सोमोकिम रे कोनसेल
फुदना जोरोम नो गोडकी ।

६८५

कि:ते तोगा: करार करायोब रे कोनघेर,
होय गोडकी मेमोन दिनों ॥२॥
जोल होयकी सुन्दरोम, सुन्दरोम होयकी मुनु
किया होयकी लुवा: रा: रा: ।

६८६

बेरा: डोली डंडी, गोडभुंग डेनेब ते
छेकाडोम गोडकी ॥२॥
राजा: डोली डंडी रे गोडभुंग
डेनेब ते छेकाडोम गोडकी ॥२॥

६८७

एनमा गा: कनियां रे तेनतोन सुम्बो:
ते तोरो: ता तेनतोन सुम्बो: ते तोरो:ता ।
बोकोब ते मोटा कुण्डाब ते सोंटी
अना बोइ चोनाम नो उम्बो: ।

६८८

कुंठवां रे बगेसेरा, बगेसेरा कनियां जुंगभ्रोज,
बगेसेरा कनियां जुंगभ्रोज ।
लमचंगिया पतर चंगिया,
अमते नोरे कनियां तीरंग ॥२॥

६८६

इरीन राः २ भुका भुमर,
चपा राः राः ऊंगुल हरा रे ॥२॥
इंग को रे कोनसेल अमाः मलाः बूंग
डेलकींग इना कोनसेल होडोम होइकीम ।

६९०

अरमाइयाः पोखेरा ते,
अंडील भोरे नो गोडकी ॥२॥
मोना रूपा उपले गोडकी,
बैराग ओड़ोः नो गोडकी ।

६९१

बैरनीयाः बिंडा गोलोब रे,
कोनघेर अमाः जोड़ी कनियां लामेम ॥२॥
अबु इयांम बोयो अबु तोरोः नाम रे,
नागपूर ते बोयो, अमाः जोड़ी कनियां आईज ॥२॥

६९२

आजी आः मलाः आयो, डाहू उलाः बूंग
कुलमडाय तेगोइज ॥२॥
मपुतला कुलम नाइंग कोसुगे कुलमडाइंग,
जनापतार रोमोड डाः गुरता ॥२॥

६९३

कुदड़ी लायता चोलकीम रे बिजला
कुदड़ी ते मेलाय टुयोब ॥२॥
डाः ओलना चोलकीम रे बिजली
बिंडा ते इरीब टुयोब ॥२॥

बिहा अलॉग

६६४

बिरुते गीमते जोड़ाते आरेता
ददा ते गामे से ई गारो बिडेनींग ॥२॥
बुदाते छोपायनींग डौहराते रामेनींग
ददा ते गामे से ई गारो: बिडेनींग ॥२॥

६६५

कोनोन बीरू री महा बीरू री
जा:ती भल्लोंग कोनघेर कोनसेल ते चपू काडू: तींग
गोरेज मॅया: नो तोहोन बो: ते नो जा:ती
भल्लोंग कोनघेर कोनसेल ते चपू काडू: तींग ।

६६६

अता कोचा ते सोमरा सिनी डेजतेम
सिनी ऊम्बो: ई डेजतेम, डेनेज नोम ठौ ठौता ।
अता कोचा ते सोमरी कडोंग आएजतेम
कडोंग ऊम्बो: ई आएजतेम कोनबिड नोम भी भीता ।

६६७

मुगी को गामते लाएज कोसु, लाएज कोसु गामते
बासु को गामते डोड़िग गा डोड़िग गा उमींग मेलाय गामते

६६८

ऊ पुरा: माँ आम बसाली गाय
गोरेज मॅया: ओर ओछोब, कोंगतेम आम
गोरेज मेया: किनभर जाँमतांगों:म ॥२॥
घोल ऊबर जोड़ी कोंगतांग
घोल ऊबर जोड़ी ब:छा
अरलो: डेबलो: मन:सींग योनलो:

हीरा पुर हरियार पुर ते आऐंतर पाऐंतर ना
गोरेज मेया: ओर ओछोब ।

६६६

भन्डा कुटुम ददा तुम्बा कुटुम्ब
अना ददा चीनानांग बरवाय पुर ते कनिय्यां लामना ।
बरोया पुर ते ददा केलोम केलोम कन्डाय,
अना ददा चीनानांग बरवाय पुर ते कन्डाय लामना ।

१०००

अना सहिया चीनानांग लारो: बीरु लारो: सायना चीनानांग
लारो: बुदा ते लेरे: कोनसेल जपा: सी: ।
बोकोब तोबलुंग ते सो:लुई, सो:लुई तोबलुंग ते खोमसो
खोमसो तोबलुंग ते जिलापी । हारे जिलापी तारकेल्लेगता ।

१००१

धांय पेसे बेटाईज लमलम एबो:ना रायल्लोंग किनिर ते,
तुता आ:पे एबो:ना बिरु तोबलुंग ते एबो:नापे
हारे रायल्लोंग बीरु ।

१००२

थाम साम बरोया थाम साय बरोया नो मा
मोएज राजा देवसाय ॥
जुघाय ऊर्माणिग कायोम ना जुघाय ऊर्माणिग कोले जना
आनिग डोनजांग आ: हेर्केनिग ॥

१००३

हाय बरोया हाय बरोया,
लोसोड फोसोड सोमधी जोरायोब बरोया ।
गुंज लेखे बेटी तेरोएज हाय बरोया
तिलासारी अराम कुप्रोएज हाय बरोया ।

१००४

तोरो रोरो बोई टेने नेने
अमा: खातिर बोई हतु सोधोमता
अमा: खातिर बोई पेंडेड सोधोमता ।

(२४५)

१००८

मूहन दाह ते केरे जापाः सीः, मोएंज केरे जाए,
जाएता मोएंज केरे कोलेज् ता ।

१००५

तेनतोन मुम्बोः ते हिरा तारकेलेंगता ।
तारकेलेंगता बोई फनलीआः मुगाम ते तारकेलेंगता ॥

१००६

मुनगा राः राः भोमपा भोमपा राः राः सीः
कोयो डाः डेलता भेरे जोरोमता ।

१००७

चाचाः भेनतु डोड साने नांग देवान डोड सने नांग
अमाः जो चोलकी ईजां जो चोलकी
चाचाः भेनतु डोड सने नांग ।

१००८

मोःभी डांड ते फनला कोमडोल ओनोः
कोमडोल ऊलाः अबु हिलेनाम
फनली ते हिलायेम ॥

१००९

ई बिलम ते बेन्दु ई बिलमतेम
थाम साय कोनघेर ते कयोम सिखायोब, छी बिलमतेम ।

१०१०

ई बिलमतेम फनली ई बिलमतेम
थाम साय कोनघेर ऊनसीः डेम
सीलोः नाः घाड ई बिलमतेम ॥

१०११

एलाः बोई को राईजोल राईजोल गोसोः ते ॥२॥
अरुपाः बाबु को सोसो जोल गांसोः ते
सोसो जोल गोसोः ते ।

(२४६)

एलाः बोई को काडते भेलोब भेलोब ऊलूईते
अमपाः बाबु को काडते पान्डु ऊलूईते ॥२॥

१०१२

हेमडूः ते डोकौना सानिचर बाबु ॥२॥
घोल ऊबर मेमौनाः पन्डू केन्डोर बोः ॥२॥

१०१३

अमाः मेरोम डाः देवान ईजाः तेरोमडाः ॥२॥
गाजे जोगेनांग देवान मरची बायेनांग ॥२॥

१०१४

उलाः चोना नांग ददा सोरीगा
सोंगोल चोना नांग ददा सोरीगा
दीप दीपी रे ददा कुदा कोलेंग ॥२॥

१०१५

बीरू सितिल ते सोसो बेलेंग सीः ॥२॥
अतीज ताघ कोलः रोः नो डेलकी सोयोः
रोः नो डोथोः बुधू कोनघेर ।

१०१६

मोने रो डोकौना शानिचर बाबु ॥२॥
ईजाः कुलाम डाईज आः थोम होडोम लामिज ॥२॥

१०१७

बीरू सितिल ते सीलोःतम रे कोनघेर
नोनो रे नोनो रे गामतेम् तोतो रे गामतेम् ॥२॥
रूसुंग ओरेज् ते सिलोःतम रे कोनघेर
तोतो रे नोनो रे गामतेम् ॥२॥
ओसेल ओरेज् ते सीलोःतम रे कोनघेर
तोतो रे नोनो रे गामतेम् ॥२॥
मोघेर ओरेज् ते सिलोःतम रे कोनघेर
तोतो रे नोनो रे गामतेम् ॥२॥

(२४७)

चंवरा ओरेज् ते सिलोःतम रे कोनघेर
तोतो रे नोनो रे गामतेम् ॥२॥

१०१८

केलोम केलोम बेटा जोरोमायोब्
केलोम केलोम बेटा जोरोमायोब् अपा
इना, इना अपा सोनोर गिर्बानिग तेम
इना, इना अपा रूपा गिर्बानिग तेम ।
अडियाः बेइटडोम होडोमाः होयकी
होडोमाः बेटा अडियाः होयकी
इना, इना अपा सोनोर गिर्बानिग तेम
इना, इना अपा रूपा गिर्बानिग तेम ।

१०१९

हाय रे ईञ्जाः बछारू हाय रे ईञ्जाः बछारू
खोड़ी खोड़ी बुलीताज् बछारू ॥२॥
तोले से महारा छन्वेये से महारा
सोनोर तोनोल तोले से महारा
रूपा छन्दन छन्वेये से महारा ॥२॥
काजे से महारा काजे से महारा
सोनोर तोनोल काजे से महारा
रूपा तोनोल काजे से महारा ॥२॥
योंने से महारा योंने से महारा
रोनोब किनिर ते योंने से महारा
बिजोम किनिर ते योंने से महारा ॥२॥

१०२०

जोगं घाले से रे मां जोई बछारू आः गींगतांग ते ॥२॥
आमगा मां मिरिजायोब् आमगा मां बड़ो भ्रोः खोब
मां उघय भ्रोः रे अपा उघय भ्रोः रे ॥२॥

(२४८)

१०२१

नोरे नोरे भेड़ी गुपा, नोरे नोरे मेरोम गुपा
अता रोछोब रे कुलम् कुलामडाईजाः पुर आईज् ॥२॥
हानतिज् उतीज् सोंगोल पुर उतीज् हानतिज् रतन पुर
हो रोछोब रे कुलम् कुलामडाए नोमाः पुर आईज् ॥२॥

१०२२

नो राजा बरोया नो राजा बरोया
नो राजा बरोया केलोम बोः युंड्तेम ॥२॥
सोनोराः हुका रूपा गाः चिलम लाःधेना बोंग
ऊड्ना बोंग केलोम बोः युंड्तेम ॥२॥

१२२३

पोकटागाः किनिर ॥२॥
कोनोर मुम्बोः ते बन्धो नो कोंगोब ॥२॥
पोईन डोम को चोना लाः सीः ॥२॥
खोड़ी मोःभी ते पोईन चोलता ॥२॥
पोईन को चोना लाः सीः ॥२॥
चुंगडाः गोडभूंगते पोईन चोलता ॥२॥
सोंगडाः को ऊःढे तेकी ॥२॥
डोःकीमोंय घुंधी रो अंडील ॥२॥

१०२४

मुडूगा योयोएज हिरापुर आः नागबांसी राजा ॥२॥
एनेम लगम आः घोड़ा ओबघांयोब् ॥२॥
मुडूगा योयोएज हिरापुर आः ऊःफे रानी ॥२॥
सोनोराः तुन्दूर बलाय भाबराय डोमसीः
रूपा तुन्दूर बलाय सोःलुई भाबराय डोमसीः ।

१०२५

साहू बिहू ते हारियार डाः सेमड़ी नो मां
हो सेमड़ी राःराः की तोबलंग ते नो मां ॥२॥

(२४६)

सोनोर गेधी जाटा गेधी सिनि रोडकोंगाः
थोका नो बेलोः मां लेबु कीते कुन्दुः सींग बयोः नो मां ।

१०२६

बेर डाए डेलता बेंटी बेर डाए डेलता ॥२॥
मंगरा डाए डेलता बेंटी छमर छमर ॥२॥

१०२७

दियोगा बुनुई डाः दियोगा सिंगकोय डाः
तोड़ दारू ते ददा रूतुनोम भूलेता भोड़ोब भोड़ोब ।

१०२८

रेगॉल खूंटो हिलेता हरे घाःतीं नोम बोई जोरोमता
अबू गामे ददा गियाल ताईज ।

१०२९

होबने तोः को बोई मगाः कुन्दुम ते आवकीम
अपाः हिनतोर ते आवकीम, तंग को बोई तेरेम
तोबगा बोनेना ॥२॥

१०३०

बेड़ो मुःसिंगतानो कोनसेल कोइलसींगतम
मोःभी तोः होयता नो कोनसेल लाडा कयोमतम ॥

१०३१

इना बेंटी लोरो भोरोतम ॥२॥
अपनोम मनोम को इंज तेगा तेरिंग गामते ॥२॥
किःते लेकोः योयेम ॥२॥
बदानोम को कुदड़ी श्रोरेज डोठोः ॥२॥

१०३२

भेन्तु बेले आजी, ददाईज रांगाता रो डेलताएण्
तिमसींग गुजे आजी, उम्बोः लाः गिताः चाड़ी
आजी दिप दिपी ना ॥२॥

(२५०)

१०३३

खरसा भन्डा तेजे बेटी, खरसा भन्डा तेजे
खरसा भन्डा हिलेता टिविल टिविल ।
कोनसेल डाए बेबरोड्ते खरसा भन्डा
हिलेता टिविल टिविल ।

दुरंग

१०३४

बगैचा भिःतार ते खजार कुण्डुः !
पुड पुड ओबोः ताइज ॥२॥
अंडीज सरहम अंडीज खजार कुण्डुः
अपाः जुंगजुंग बहा जोड़े कनिय्या ।

१०३५

अतु चोनाम रे पोडछोल
कुन्डाब तिज तरवइर तिःते पल्लिता तरकेलेंगता ॥२॥
ससुराईर चोलतैज डेम रे पोडछोल
कुन्डाब तिज तरवइर, तिःते पल्लिता तरकेलेंगता ।

१०३६

है रे इञ्जाः अरबडूः है रे इञ्जाः तुरबडूः
कुन्डाब तिज कोन्डोय नो बितलाय तैज ।
बेहार जो उमोय गामते आये से डोकोना
बेहार जो उमोय तेरते डोको ठांडी,
है रे इञ्जाः अरबडूः कुन्डाब तिज कोन्डोय नो बितलायते ।

१०३७

ओड़िया रानी ओड़िया देस रे
कुटुम कि हिलेता की कुटुम की डोलेता की ।
कुटुमाः मलाः बोंग बेटिंग ते तेरोइज
कुटुम योता बेटिंग ते तेरोइज ।

१०३८

मुहन बार ते हारे पियो कोनथेड तोरोः ता ॥२॥
अंडीज पियो अंडीज कोनथेड जोड़ी जोड़ी
सांगो जोड़ी इपामता ॥२॥

(२५४)

१०३६

इंग को इंग को सहिया खटिया मचिया ते
उर्मांग गा रोः डोको नाइंग ।
इंग को इंग को सहिया कोसोर लारोः
बोरोल लारोः भेनतु ते गा डोको नाइंग ॥२॥

१०४०

गिताः चाड़ीते ददा जोइ,
भान्डा २ गोलांग चंठी चंठी तामखू ।
अमाः खातिर ददा ओड़ेंग नंग रोः भुलेता,
ओड़ेंग नंग रोः भुलेता ।

१०४१

है रे नन्देना है रे नन्देना
बरवाय राईजते छौनी छवायोब रे नन्देना ॥२॥
बाः हमकुब भाड़ी गा चोलकी बोकोब तोबलुंग ते
भिलीमिली बोकोब केः तोलोब ।

१०४२

हारे नायना मोःड एनेम २ नायना मोड एनेम ॥२॥
मोड एनेम दुनिया जेजोंग योता,
मोड एनेम नायना दुनिया जेलोंग ।

१०४३

लेबू वाः जन्म अपा मेसोन गा होएता ॥२॥
साह साः लेखे मेसोनगा
जियोम मुःता रो चोलता
लेबू वाः जन्म ।

१०४४

बल्लिरे कलिकत्ता इकुड डिसाः
कलिकत्ता इकुड डिसाः राजी ।
उबडु ते गंगा हिन बुडुः ते जमुना
कलिकत्ता राजी इकुड डिसाः ॥२॥

(२५५)

१०४५

जसापुर आः राजा बनाई बम्मड़ा
हरे बिहा चोलकी ॥२॥
ऊःफे एकड़ी घोड़ा घोल एकड़ी
भरिया सड़क ते धुड़ी बेरोड गा चोलता ॥२॥

१०४६

है रे अगुवा २ अतिज ताय घोल अगुवा
अतिज ताय एकड़ी अगुवा ।
सोःलुइ ते खोमसो खोमसो ते जिड़ोए,
जिड़ोए ते जिलोपी, होकड़ाः थोंग गा,
घोल अगुवा एकड़ी अगुवा डेलता ।

१०४७

है रे काडोंग अतू चोनाम रे काडोंग
अतू चोनाम रे काडोंग ।
तुता ते कुमोनी तोभलुंग ते भिमोरी
अतू चोनाम रे काडोंग ।

१०४८

है रे जियोम है रे जियोम
लोःखाः झेंरी ते आइज भेरे जियोम ॥२॥
लोःखाः झेंरी ते मेलाये रे जियोम
हीन दिनों झेंरी को लोःखाः गाःढा ते लोःखा ते मिलेना ।

१०४९

मुरगुवाः डांडते सोना लेखे रे बन्दुक
तरकेलेंगता रुपा लेखे रे बन्दुक तरकेलेंगता ।
ई भेरे लड़े नाम रे तेलेंगा
सोना लेखे रे बन्दुक तरकेलेंगता ।

१०५०

भोरी भोरी नो कोनसेल आज आज
काडोंग नो मजाय काडोंग नो ।

भिखे कुएम नो कोनसेल आज आज नो
काडोंग मजाय नो काडोंग ।

१०५१

भौरो रे भौरो गुंजरेता
इयोता भौरो गुंजरेता ।
मुनगा रे मुनगा राः गोडसीः
राः राः योता भौरो गुंजरेता ।

१०५२

देवान देवान बोरिया देवान
पालकी जोंगोड की हिरा राजा ॥२॥
मुइंग ठिपा सुन्दरोम बंग होइकीम
साभा पन्ती होयकी कुटुम्ब की बिदा कीमोय ।

१०५३

अना गुडी चोना नांग,
सीनकोम जोरी सेरिगा रामना ।
ढीरीरीरी गामे भेरे कोवा तेगा
सीरे आंगे नांग ।

१०५४

बरवय राजी ताय आरे कीम रे ददा,
कोड़ी ते खुतो नोम रे ददा ।
डोरीब बेलोंग कोनसेल ते बाजकिम नो रे ददा,
कोड़ी नोम ते खुतो नो रे ददा ।

१०५५

हाय अमाः अकील बोयो उघाय,
अकील अतु सीखेकीम बोयो अतु सीखे ।
राजा बेटा ओंडरोयोः लाः को
आम ते बोयो बाते सीखाये, बोयो कायोम पढ़ाये ।

१०५६

कोलेः लेखे आवकीम रे जीयोम,
लोःखाः पिजौरा ते लिसोय लोसोय आवकीम ।

तांग को रे जियोम आयो ते मेलायोब,
अपा ते मेलायोब, ददा ते मेलायोब,
आजी ते मेलायोब, कुलम कुलमडाय ते मेलायोब।
कोले: लेखे आवकीम रे जीयोम ॥२॥

१०५७

ओमपाय सितिल ते अपा रेमा: सी:
अनी चोना नींग अपा: कायोम ओंडोरना ।
ओमपाय जो भोरे की डोंगा जो ओड़ो: की (इघाय)
इघाय चोना नींग अपा: कायोम ओंडोरना ।

१०५८

आमपा: ओ:ते आवकींग ददा जोइ,
भाइल मरा: लेखे यूठोज ।
ओबसोंगयोब अपा २ ओ: दुरानोम, जोंगोडकी
खोड़ी गो:भुंग नोम जोंगोडकी ।

१०५९

पीण्डा रंगते चकरी घुमराय, चकरी घुयराय रे
राजा: सिपाही डेलताज, जींगोर जोंगोर,
हरे मामी जोई बोतोंग डा: कींग,
छेछरा ओ: ते यार डीयार कींग रे ।

१०६०

डंग को मे मा जोई, राजा बीहा चोनाइ ॥२॥
एंग नाइंग ला: मां जोई रुमांग नाइंग ते घोयेम,
गोइज नाइंग ला: समुद्र ते मिलेनाइंग ।

१०६१

अना सांगो चोनानांग लारो: बीरु
लारो: सायना चोनानांग ।
अता लेरे: कोनसेल दारु सुंबो: ते जपा: सी:
बोकोब डोम नो योता, बोकोब डोमते ।

सोःलुई डोम ते खोमसो, खोमसो डोमते जिडोय
जिडोय डोमते जिलोपी, हरे हरे जिलोपी तरकेलेंगता ।

१०६२

अना केंडोर चोनानांग
किनीर केला कोने लायना चोनानांग ।
धुकाय नांग नो लाये, लाये नांग नो नो ओजे नांग,
ओजे नांग नो ओले नांग, ओले नांग भोलाय नांग,
भोलाय नांग नो बाये नांग, बाये नांग नो गाजे नांग,
गाजे नांग नो ञोंगे नांग, आना केंडोर चोनानांग
किनीर केला कोने लायना चोनानांग ।

१०६३

आयो नाइंग जो गोइजकी अबा नाइंग जो गोइजकी
हरे दाइया बेराः दुरा चोनाइंग ।
मामुइंग जो लेजते मामिंग जो लेजते
हरे दाइया बेराः दुरा चोनाइंग ।
आले से रे मामी माःघो लेरंग डेना तेरे
गाड़ी डेब नाइंग भोटानं चोनाइंग ।

१०६४

जन्मायोब आयो नाइंग, जन्मायोब रे
ठेहुना धोःता २ जन्मायोब रे ।
उसलोः धोःता २ जन्मायोब ॥
बुयोब आयो नाइंग, बुयोब रे,
तोरेज कुण्डा बूंग बुयोब रे ।
तोरेज बूंग कुण्डा बूंग बुयोब ॥
ओबसोंगोब आयो नाइंग, ओबसोंगोब रे,
बेतोड ओःते ओबसोंगोब, बेतोड ओःते ॥
हारेकीम आयो नाइंग, हारेकीम रे
कायोम लङ्ग बूंग हारेकीम रे ।
कायोम लङ्ग बूंग हारेकीम ॥

(२५६)

१०६५

इकुड किसड़ों ओगा: बेटा हो राम राजी मेलाय कोन
राजी बोर २ चोलताम हो राम ॥ देशे मेलाय देशे ॥
एङ्गना २ से राम लक्ष्मन बोरीया कुलम आम्पा:
नहियर सम्पति हो राम ॥ आम्पा: नहियर बनती हो राम ॥

१०६६

सेंग को आयो सेइरगा उला: लेखे गोतोब २ उनोब
सेइरगा उला: लेखे गोतोब २ उनोब ॥
तांग को आयो खोलडा: मुडुब लेखे फेकाय गोठोब
खोलडा: मुडुब लेखे ॥

१०६७

धांय बोइ ओंडोरेम रो चोनाम, योये रो नो डेनाम ॥
दिंलिंग दिपिड़ बिंलिंगबिरा डांड ते रे बोई,
दिंलिंग दिपिड़ बिंलिंगबिरा डांडते ॥

१०६८

लारो: बिरुते डा: नो गिमो: डा: नो गिमते ।
भोड़ी ते गिमते कोयोते तापा: ते हाय दैया आराबडु:,
आखो: ते डोकोनाइंग, आखो: ते डोकोनाइंग जापा:नाइंग ॥

१०६९

ह्यरे तिब्वत बिर, तिबडगा डेलकींञ्ज,
ह्यरे विरिज बिर, बिरिमगा आरेकींञ्ज ॥
उतिज जो बनाय तोरो:ता हन्तीज जो किड़ो: हांकंडेता,
ह्य दैया आखो: ते जियोम उकुबिंज हेबनेहा कया
ते ओलेडिज ॥

१०७०

कोनान जो ओम्पाय महा जो ओम्पाय
ह्य दैया इंगते बेर पबरोये ॥ हाय दाइया ॥
माइंग जो उम्बोडेज आपाइंग जो उम्बोडेज
ह्य दैया इंगते बेर पबरोये ॥ हाय दाइया ॥

(२६०)

१०७१

मुनुःसिंगतय डेलकी, कुहुड़ रो कोयो,
योलीःसिंगतय डेलकी आडेल डाः ॥२॥
इंजाः कुंडबसिंगते तुरी रे बेंटी,
ताएंजकाय गोडेंम लेबु डालना छाता ॥२॥

१०७२

भाःटा तोर तोर ओःते तेरोब गे आयो,
ओः योकोन लेमेड उम डेलता ॥२॥
इयेम बेंटींग इयेम पुता,
डोनजांगते तारदी मोलिब गोडकी ॥२॥

१०७३

मुःरेल राजी चोलकींग, योंलोः राजी चोलकींग,
हरे दैया, जोड़ी २ चोलकींग ।
घांटी तेरे बाबु सिटी तेरे साहेब
हरे दैया जोड़ी २ चोलकींग ॥२॥

१०७४

कोनोन साहेब डेलता महा साहेब डेलता,
चाह बुदा हरियर योता ॥२॥
मोटर गाड़ी डेलता रेल गाड़ी डेलता
चाह बुदा हरियर योता ॥२॥

१०७५

होबनेमहा बंगेलाः राजा अतु चोलकी
कोठोरी कोठाते रानी इयामतामाय ॥
कोसोर उलाः लेंग चोलकानकी
हिनघाय गा राजा लेंग गोडकी ॥२॥

१०७६

बिरू जो गेबता परबत जो लंजरेता
हिनघाय गा हरे जियोम गेबता ।

इघाय लेखे जियोम आता बो:ते आइज
जियोम गेबता बेर जो उम योतेजमोय ॥२॥

१०७७

हो होरे जियोम हो होरे काया
भि:तार २ हरे जियोम गेबता ॥२॥
बिहू गेबता राजी दुनियां योते
जियोम गेबता बेर रो: योतेमोय ॥२॥

१०७८

अतिज ताय डेलकी मलारिन बेंटी रे,
जाये खोदा ताये ढेबुआ डोडते ॥२॥
मुनु:सिगतय डेलकी मलारिन बेंटी
जाये खोदा ताये ढेबुआ लु:ते ॥२॥

१०७९

राजी २ बुलिकींग देशे देशे बुलिकींग
कुलम उम कुइकी अमा: जोड़ी कनडाय ॥२॥
चिट्टी पोढ़ेना कुलम रे, कागज बछाये कुलम रे,
रांची लोहोरदगा अमा: जोड़ी कनडाय ॥२॥

१०८०

कुटा राटा कबटो ॥२॥ बेर ला कुलम युखोब कबटो ॥२॥
उबडु: डोकोना आराम,
घो:ते डोकोना आराम कुलमडाय देवता युखो: कबटो ॥२॥

१०८१

देशेते कुलम रे ॥२॥ मोंज बिता ठांडो रे ॥२॥
भी:तार ते को बा: हमकुब,
बाहेर ते को आदडो बछरू,
इघाय तेरिंग ठांडो ॥२॥
होन से कुलमडाय तिगा: काड़ाम रे गोडभुंगते
ओबसोंग खे:जा, दिनो धो:गा चोनाम ॥२॥

(२६२)

उर्मिग डोड़े कुलम रे तीगाः काडाम ते
गोडभुंगते डाहु, लुवा, जराः बेलोमसिः
रामिग पुरिज रो दिनो धोःगा चोनाइंग ।

१०८२

लमचंगिआ आराम ॥२॥
हिनकाइ ते बेटिंग ते तेरोज ॥२॥
तीः ते नाधा, तरन ते सिनी,
हिनकाइ ते बेटिंग ते तेरिङ्ग ॥२॥

१०८३

आयो गामते, यारे २, अपा गामते तारे २
कुलम गामते, मुःना रो धाय ॥२॥
आले से रे कुलम ओनमोःडोमना तेरे,
ओःनोम को रे ओःगोड गोडना ॥२॥

१०८४

खोड़ी मोःभीते ई राः राः राःसीः ।
इघाय सुइंग राः २ केलोम भबरे सीः ॥२॥
भीःतार ते को किनकर सोमुंरिग ।
बाहेर ते को बाविंग बोकेरिंग
इघाय सुइंग राः राः केलोम भबरे सीः ॥२॥

१०८५

किनिर ते बेटींग तेरोज, उलाः २ मड़ेवा बायते
उलाः २ मड़ेवा बायते ।
बिदा ओले आयो बिदा ओले आयो
इजांः राजी इकुड डिसाः ॥२॥

१०८६

जोड़ी ओलकाय आयो, जोड़ी ओलकाय
आयो जोड़ी एनेम. लेसेड लम डेलना ॥२॥

(२६३)

बा: लूमकुब कुइंग, सोना रूपा कुइंग
हरे दया जोड़ी आतु कुइंग ॥२॥

१०८७

ढोढोरिया: मंना, हरा: फिकड़ो,
मंना फिकड़ो चारा लामना चोलकी ॥२॥
चारा जो उम कुयो: जियोम जो चोलकी
कुंडू: डोमकी चेंवमेंव ताजमोय ॥२॥

१०८८

रुमुङ्ग सिङ्कोय राम राम गामते
मो:भी इडीब, राम राम गामते ।
बेरोडना से आजी बेरोडना से आजी
आमते को आजी लेमेड इकुड जुघाय ॥२॥

१०८९

खोड़ी ते तोरो:ता कुही रो बेसरा, भोरीते तोरो:ता
सालो कोलै:, भरियाते तोरो:ता सालो कोले: ।
आबु तोरो:ना कुही बेसरा, आबु तोरो:ना कोले:,
आम्बरा: लेखे इजां: जो बिपाइत ॥२॥

१०९०

सेंगको सहिया डेना चोना ला:किंग,
सहिया ते इकुड प्रेम करायोब ॥२॥
तांग को सहिया बिहा सादी करायोब
सहियाते कुमाया करायोब ॥२॥

१०९१

बगंचा भि:तार ते ई लावकन लवकेता
ई लावकन लवकेता ।
ना लागे जोगी, ना लागे फकिर,
कुन्डाबा: भैया: छाती या: को
चन्देवा जे लवकेता ॥२॥

१०६२

खुटी डेज डेज पाःतड़ा, उम तुंगलीज सीः ॥२॥

(सरहर सेमड़ी जोंगोर २ राः सीः)

आना से कोनसेल उलाः केजना, उलाः केजना ।

१०६३

सरहर सेमड़ी जोंगोर २ राः सीः

लुकुताज भुनुर लेखे लुकुताइज ॥२॥

राः २ लुकु गोडकी, होयकी समतुल, लेंगना,

लाःताइज बिजली लेखे ॥२॥

१०६४

ओः बायोब अपा, उत्तर दखिन पूरब पछिम बायोब,

आपा पूरब पछिम उत्तर दखिन बायोब ।

कबटो सुमोब अपा कबटो ते सोना तवके

हो हो रे दाइया ।

मंडवा तोलोब अपा, मंडवाते कुटुम भलारे

हो हो रे दाइया ।

जहांज ओलोब अपा, जहांज ते कनियां लभारे

हो हो रे दाइया ।

घोड़ा सोंगोब अपा, घोड़ा ते फंटा भलारे

हो हो रे दाइया ।

हाथी सोंगोब अपा, हांथी ते होवा भलारे

हो हो रे दाइया । हांथी ते महुत मलके

हो हो रे दाइया ।

१०६५

आम को फुलु गोजकीम ताय जो दुरांग ताम

कुलु गोजकीम ॥२॥

ईङ्ग उमिंग दुरांगता, ईङ्ग उमिंग आलोंगता

कोसोर कोन्डेग दुरांगता ॥२॥

(२६५)

१०६६

आना ददा बरवाय राइज कन्डाय लामना
बरवाय राइज कन्डाय लामना ।
बरवाय राइज ते भला २ कन्डाय कुइता की
हरे भोले कन्डाय कुइता की ।

१०६७

होबनेतो: बेटी, तोन्डेंग रा: रा:
लेखे योकिम ॥२॥
तांग को रे बेटी बड़ोम बेटी लेखे योताम
बड़ोम बेटी लेखे योकीम ॥

१०६८

कोनोन भेरे आयो बेटी बेटा गमोब
महा भेरे मां जो ऊम गमोब ॥२॥
इजं गोजनाइंग भेरे बेटी बेटा आबु
इयांम नाम, लो:खा जो आबु तेरेम ॥२॥

१०६९

सहीया सहीया गमोब आना सहिया कोड़ा राजी
घुमरी घुमरी उला: केजेम ॥२॥
कामुनानांग सहिया देबुवा डोइनांग एला:
राजी बिहाना चोनानांग ॥२॥

११००

डुरगुड दुरेता, बेसरा डोड़े रो चोनाम रे सिबा पाडू ॥
बिह तुता ते डुरगुड दुरेता बेसरा डोड़ेम रो
चोनाम रे (पाडू) सिबा पाडू ॥२॥

११०१

बरा: कड़रु डा: कुम्भी पोखराते ओड़ो: की ।
राजा: कड़रु डा: कुम्भी पोखराते ओड़ो: की ॥२॥

(२६६)

११०२

अतु चोनाम रसिका अतु कुयेम लोरेंग डाः ।
एंगना २ राजा, पलीकोटो शहर ते लोरेंग डाः कुयेम ॥

११०३

हाय अतु चोलकीम,
कुलमडयाः मोड डाः गुरता ।
भाइंग को चोलकी भरीया,
कुलमडयाः रोमोड डाः गुरता ॥२॥

११०४

बीजोम मुःरेल लेरांग ते
ई जाति सुंग जोंगेनिंग ॥२॥
पोनोमोसोर आः गिडिंग लेरांग आः यीमी बोंग
जाति सुंग योंगे निंग ॥२॥

११०५

बसीया पुरते, मा जोइ इंज को उमीज आवना ॥२॥
बेड़ो मुःसिंग ता लेखे पैजकोम डेलता ।
मा जोइ इंज को उमीज आवना ।
योंःना उडना ते जो, लाडा लेरेःते जो,
डोको तोंगोंन ते जो, उम सोहे ते ।
मां जोइ इंज को उमीज आवना ॥

११०६

हारे इञ्जाः कौनतांग नैंग, हाय उबार कौन
तांग नैंग, इञ्जाः हिरा समदायोःबार ॥
मुइंज तोनोंग उबार तोनोंग तेरोःबार
हायरे यीमीबार ते उमीजगा रोः इरीबे ।
सुरीली गाय सुगनी गाय गा गमीज ।

११०७

काःलांग बुयोब आपा कोइली ते जो बुयोब
अपा जोइ डोको ठाडों मइंज गा उन तेम ।

होडोम होडोम डोको ठाड़ों बायेम लाः आपा
काःलांग रो कोइली नोम हिरा पुरते सोभेना ।

११०८

कोएंजारा रोरी बीरुते, सोंगोल गा नो
पीजे उलाः गा नो केजे
आनार गी नो पीजे, गमोब नो रे नना जोई ।
उम्बड़ाः महा बिरुते, सोंगोल गानो पीजे ।
उलाः गानो केजे आनारगी नो पीजे गामोब नो रे नना जोई ।
पाइलकोःटा शहर ते, ले बड़ी कठी, ले बड़ी पतोई,
ले बड़ा दातून, गाम कोन खेःजा योब रे नना जोई ।

११०९

डोम्बा बिरु तोबलूंग ते आटा डोकोकीम,
कांसीर आः कोनसेल ते छेका गा डोडते ।
होसियार आवनाम रे होसियार साहेब ।
हिलो डोलो बोकोबकेः नोम होयता ।
कांसीर आः कोनसेल ते छेका गा डोडते ।

१११०

अतू ताय डेलकीम हीरा पूर ते राजा ॥२॥
कुन्डाब मुगाम तेलेंगा सोरी डेलताइजू ॥२॥
तेलेंगाः तिते कुदड़ी, कोडेज, बाछा, तरबैर,
हीरा पुर ते मलके की ॥२॥
हो योकोन किड़ोः बनाय यारोः
हरे राजा केलोम रोः जीमी डोमकीम ।

११११

(सोःभी) मोःभी ओःते मुन्धीड़ी बाहेर ते
तिगाः ओरु आइज हाय रे राम आतु चोलकीम
ओः दुघार नोम जोंगोड सीः ॥२॥

अपा आयो आः कायोम तेगा पुराना लाः सीः डींज्
एंगनांज हो ओः दुरा तेगा, हीन भरे गा
गोटा हीरा पुर पतारना ।

१११२

मामू जोई इंज को मामू बंडा बोनतेलत ते योनना
चोलताइज । आम मामू तोर्नासिंग लुवांग डोइम ।
इंज बंडा बोनतेल ते योन ओडामोईज् ।
गोरेज मेयाः मामू गोर्नासिंग गोर डिपाते ।
बंडा बोनतेल गुर की, उमनांग सिलोःता मामू
बंडा बोनतेल ते पसा योंगेनांग ।

१११३

ओले से मां लारोः बिंडा लारोः बिंडा २
डाः ओलना चोलताइंज ।
उमेंम बोतोंगता नो माइ उम बोतोंगता नो माइ
पःतडा सिलिते बनाय बिरिम सीः ।
गःदा डिपाते किडो जपाः सीः ।
अबु चोना माइ २ मुइंजगा इञ्जांः हीरा लेखे आजडेम ।

१११४

बेरोडना से गोला ओरेज आना से गोला
ओरेज सोरी सांगो मेलाय टुइतेइजकी ।
मोइ जो लिमिट २ लुतुर जो टपर २ तोबलुंग
ते सोना रुपा गिधी मेडरेताइज की ।

१११५

लेबु जनम को मुइंज गा जन्म रे २
सारु उलाः मां सारु उलागाः डाः ढरके गोडकी रे ।

१११६

मां जोइ अपा जोई अतु चोलकीम ॥२॥
बिरुते भाखोडते लुलुंग ओब,
अतु चोलकीम मां जोइ अपा जोई ।

(२६६)

१११७

इंग को इङ्ग को ददा कोसोर लारो: बोरोल
लारो: भेनतु ते उमींग गा रो: डोको नाइंग
ददा कोसोर लारो: बोरेल लारो: भेनतु ते उमींग गा ।
इङ्ग को इङ्ग को ददा, खटीया ते मचीया ते
पलंग हिनते डोको नाइंग ॥२॥

१११८

बीरु सितिल ते सिलो:ताम रे ददा,
तोतो रे नोनो रे, गामतेम ॥२॥
कोड़ी ते चिडरा डा:, कोड़ी ते कोनथेड डा:
कोड़ी ते पोइंग डा: लोबरो: कोबसोरो: रो
तेरोब नो रे ददा ॥२॥

१११९

डिडा रे कोनसेल पींडा ते रांना रांना गामते ॥२॥
हूका लोबलुंग ते नार आइज नार तोबलुंग ते
चिलाम आईज, चिलाम तोबलुंगते तामखु आईज,
तामखु तोबलुंग, लराज आईज
डिडा रे कोनसेल पींडा ते रांना रांना गामते की ।

११२०

आयो गे आयो अता ठांडो ते तेरोब ॥२॥
भी:तर तेजे बा: हमकुब, बाहेर ते ओरेज कोनतांग
खिरकी दुरा ते भोइंसी तोल तोल हीन ठांडो ते
मुइंग लोटा डा: आइजा: थोंग तेरोइज ।
घोल साय डोनकुई एकड़ी साय डोनकुई
हीन ठांडो ते तेरोइज ।

११२१

ओले नोनी डा: ओले नोनी डा: ,
इकुड डिसा: ताय डेलकींग नोनी बेतोड डा: होइकींग ।

डोइर जो तेजकी छीपी जो पाःकी,
धांय ददा लोरेंग डाः उडडेनाम रे ।

११२२

मरची बाडी ते पीयो कोनथेड तोरोःता,
पीयो कोनथेड तोरोःता ।
अंडीज पीयो अंडीज कोनथेड,
कीमीन कुन्डू रंम भंम गा डेलता ।

११२३

कोनोन बीरु महा बीरु उलाः योता हरीयर २,
बोकसेल नाइंग ते डोठोः की मुरुम रे,
हाय रे इञ्जांः लेमेड रे ।
कयार दारु कोडेंग बुदा उलाः योता हरीयर २,
बोकसेल नाइंग ते डोठोः की मुरुम रे,
हाय रे इञ्जांः लेमेड ।

११२४

हयरे इञ्जांः सोना बेटाइंग
उधाय अकील अतु सीखोकीम ।
सीखे न को सीखेकींग मां जोई
हाकिम दुराते अकील सीखेकींग ।

११२५

ओम्पाय सीतील २ लाः बीड २ जीरा,
हरे जीरा जोरोम गोडकी ।
रम रीम राम रम कोन कबतीब फोइज,
बोनिया कुलम भेल कराय ते बनिया कुलम जुलुम कराय ते ।

११२६

बोइ ते ओबसोंगोब मां जोइ बोइ ते अबु
हेःजोयेम बोइ ते अबु गुनाम मां जोइ ।
चोनाम मां जोइ चोनाम अपा जोइ,
किमिन ओलेम हिन जेः सोचायेम ।

(२७१)

११२७

हरे मोटोर चोलता हरे मोटोर चोलता,
रिगिड़ रिगिड़ मोटोर चोलता ।
हाकिम या: हुकुम कम्पनी हुकुम,
रिगिड़ रिगिड़ मोटोर चोलता ॥२॥

११२८

ओले से गे मां जोई बासी पे:, सिनी डेजना चोनाइंज,
रोडकॉंग डेजना चोनाइंज ॥२॥
संखो ओमपाय भोरे की पियार ओमपाय भोरे की,
गया गोयोल डा: मां जोइ भंसी गोदोलो
डा: मां जोइ भोरे की ॥

११२९

डा: ओलना चोलकीम गेरवां राजा या: हटिया
राजा या: हटिया ।
घाटते छेकायो: राजा या: पाइजकोम मेलय
से पाइजकोम मेलय, आचरा नाइंज सुडताइज ।

११३०

चुंगडा: नो गों:भुग ते, बेर हतु पेडते बेर हतु पेडते ।
जोड़ी नो कोनसेल डा: ओलना चोलता की,
रीमोड डा: ढरके की रो गुरकी ।
धाय से माइ जोई मां ते, ओबोडोर गोडेम
आपा ते ओबोडोर गोडेम ।
इंग उमिज चोना इंग उमिज चोना ।

११३१

बिरु सितील ते सिलो:ताम रे ददा बोकोब ते
बोकोबके:, कोड़ी ते हतु नो रे ददा ।
कुपुंग बेल्लोंग कोनसेल बंग आवकीम रे
ददा बोकोब ते बोकोबके:, कोड़ी ते हतु नो रे ददा ।

११३२

बुची गोजलो: कामु कीम ददा,
हिड़ो एनेम हिड़ो एनेम उम युँडते ।
सिलो: कीम रो बिठोब नो रे ददा,
गेरवा हेरी जोही हेरी जोही डेलता ।

११३३

ओले से मां जोई भलि भपाइर गुंगू
इंग को मां जोइ भुती बनी करार्यींग ।
कुन्डाब ते गुंगू मुगोम ते कुंडू: इयामता

११३४

कुन्डा भुंग तोरेज भुंग बुयोज नो रे बेटीइंज ।
ओमपाया: भीला लेखे योताम,
ओमपाया: पो:ठी काडोंग लेखे योताम ॥
फोंगटा ताय एंडुगे रो योये से मां जोइ
ओमपाया: भीला काडोंग लेखे योताइंज ॥

११३५

बा: जुरबा २ बेटी गुडलु जुरबा २ रे ।
अमा बीहा भेरे बेटी धोघो चोनाइंज ।

११३६

मामी जोइ मामी मामु नाइंज अतु चोलकी ।
मामु नोम को भगिना गीरी बिह
ते मरा: तारना चोलकी ।

११३७

तोबलुंग ते बेड़ो तुता ते लेबु
इना बेड़ो ऊहम डा: ला:ताम ॥२॥
इ:फोन लेरंग रांगा इ:फोन लेरंग गीईींग,
इ:फोन लेरंग डा: रो: नो गीमते ॥२॥

११३८

मुइंज पथा गंगंड तुम्बाते नो उनीएज
किडोः तारसोड कोने रोःनी जोंखोः ॥२॥
आले से रे कोने पतर नातेरे,
ओतो न गोतो न नोम ते गमींग रोःनो मेलाइंज ॥

११३९

तेलमिग बेडा गे मां जोई कुरु कुरु कुरु दुरेता ॥२॥
तारे से ददा जोइ अरोइ डांडाः बंग
रुतु डांडाः बंगा तारे ॥२॥

११४०

डाः ओलना चोलकीम बोइ याः माडोम,
काडोंग ते मेलायोब खांखड़ा ते मेलायोब,
बोइ याः माडोम केंडोड ते बिन्डा बंग तारोब ।
लाम लाम चोलकीम बाबु आः आपडोम खजार,
ते मेलायोब सोल्होब ते मेलायोब ।
बन्डो ते तारोब रो ओलोब बाबु आः आपडोम ।

११४१

भदड़ीब सोय २ लूवा अतू
क्येम रे बोइनी ।
ओले से आयो मुइंज पथा डेबूवा सोंगा
जोंगा उडगा चोलकान नाइंग रांची
कलीकत्ता डुरुनडा पेइठ चोलकान नाइंग ॥

११४२

दरजिलींग पला बिरु ते
भीली भीली भाका माका ओः बाय सीःडेम ।
मिसतीरी भाईया भीली मिली भाका माका
दारु आः ओः बाय सीःडेम ।

११४३

सोरी २ आवकीनांग सहीया
तापकार दारु लेखे महाकीनांग ।

(२७४)

तांग को सहिया छुःटे कीनांग,
ई भेरे कोल कुइना नांग ॥

११४४

टुकुआः ओलथा ते डोको कीम रे बन्देरा ॥२॥
कोनोन भैयाः सीसा महा भैयाः गोली
ठोः गोडकी रे बन्देरा ॥

११४५

अतीज ताय डेलकीम देवान रे संवरो,
अतीज ताय डेलकी बेटा आराम ॥२॥
पुरुब ताय डेसकी देवान रे संवरो
पछिम ताय डेलकी बेटा आराम ।

११४६

हटीया चुटीया शहर ते रांची डुहंडा नगर ते,
हरे राजा बेटा चाक तारते चाक डोकोता ह्यरे ॥२॥
हांथी सार ते हांघी गोजकी, घोड़ा सार ते घोड़ा
गोजकी, हूँरे तोभे गा राजा बेतोड होइकी
तोभे रानी बेतोड होइकी ।

११४७

सोलोः रे सोलोः, अना सोलोः
किनीर लमलम एबोःना ॥२॥
खजर जे सड़ा तेरोः काः ते ओडे फोइज
कोम जे तुजोइज ठोः गोडकी मुन्दारो भाई ॥२॥
भाःटा डेजता डेजता मुन्दारो भाईया ते
डालोइज तोबलुंग ते सोने गीधी लेंगता ॥२॥
हीन मास डोम गले गले उसलोःते मिलेकी,
जांग नोम चोलकी होडोम राजी रे ॥२॥

११४८

चीरचीठी टोंगोरी नांयो चीरचीठी टोंगोरी रे,
चिरचीठी टोंगेइर नांयो मरागाः खधेइर रे ।

हीन मरा: तारता तारता कलगा नो बायोज हरे,
हीन कलगा धो:ता २ रायमुली कनीयाँ बोरोइज ॥२॥

११४६

पाइलकोटा: शहर ते आफीम ओनो:की आफीम ओनो:की,
धांय सेरे कोइरीन बेटी केज ओल काम साहेबा: थोंग ।

११५०

इना रे बड़ोम कोनघेर
दुरा दुरा पींडा पींडा डोको ताम ॥२॥
तेर गोड़े किमानीन कोमसोर
रुमकुब मंगीया: दाइल । एले ।
एले डोड़ेले कयोम हारे कनियां
एले डोड़ेले बहा जोरल कनियां ।

११५१

पोखरा लायोब हो अबा हीड़ो हीड़ो ते गा लो:खा
फेकायोब बाबा हीड़ो २ ते गा फेकायोब ॥
कयार ओनोब हो बाबा जोरोय जोरोय कयार ओनोब ।

११५२

हीड़ो तोबलुंग ते मुरुन दारु सराहरा डाइर रे
गोजलो: ते उला: हिलेता रे ।
मुगाम कुन्डाब तोंगोनेना से पांच भाया कुलामडाय
नोम ते हराय डोठो: की, कुलमडाय नोमते जीते डोठो: की।

११५३

कोनोन बन्दरा रुनु भुनु महा बन्दरा रुनु भुनु
कीनभार ते, कुटूम डोको सी:मोय ।
आयो को फुड़ी बायो: अपा को मड़वा सुमो:
कीनभार ते कुटूम डोको सी:मोय ।

११५४

मामी जोइ मामी कुयू आ: पेन्दरी,
इ राम भामता ॥२॥

(२७६)

होजे: गा हेके भगीना बहा जोरल,
कायोम हारल कनियां ॥२॥

११५५

बीरू शीतील ते सिलो:तामरे कोनघेर
लिहोरे लालारे घरीगा गामतेम ।
ना लागे किड़ो: ना लागे बनाय,
किमीन कुड़: लोडो गा रो: डेलता ।

११५६

कोनोन मोनोन चाड़ी मुनुसिगते दुरा रे,
कीनभार ते धर्मी दारू रे ॥२॥
हीन दारू रा: रा: की रुसुंग रुसुंग रा: रा: रे,
सात साय भांवरा रसां जोबना डेलता ।
तारे से ददा सोना आ: का: बुंग
रूपा: कोम बुंग तार गोठोब ।
गुर गोडकी देवनादि ओमपाय तुता ते ॥२॥

११५७

कलीकत्ता शहारे लोहा: खाइन रे,
पहिया तोभलुंग ते रेल चोलता,
रटांभिगा बना रे, पुरुब चोलता पछिम चोलता
उत्तर चोलता दखिन चोलता,
रटांभिगा बना रे लोहा उपारे रेल चलाय ।

११५८

रैरतन पुर ते बेंटी इंग तेरोइज, दुलार बेंटीइंज ते,
हीन बेंटी सोलो: रो बिलाइ घाय होइकी ।
मुइंग पथा कुदा कलवा बियारी रे ।
गामे बेंटींज कोसू रो रंगा रे ॥
सोने चिट्टी लिखा डांगें रूपा चिट्टी लिखा डांगें,
गामे बेंटीइंज कोसू रो रंगा रे ।

११५६

कनियां लामना चोलकिम हो अपा,
घोल उबार लेरांग ते एंग डेलकीम रे ॥२॥
कनियां बोर ना चोलकी हो अपा
सोना: तारदी रूपा: बत्ती सोंग ओलोब रे ।

११६०

हायरे हायरे उलमुलिया भांडा नोम
गंसी बूंग सुरुम चोलकी हायरे ॥
तालसाये तालसाये पो:दा महतो भंडारी ठीकेदार,
भांडा नाइंग को गंसी बूंग सुरुम चोलकी रे ।

११६१

पोखरा लायोब हो अपा हिड़ो हिड़ोते लो:खा
फेकायोब अपा हिड़ो हिड़ोते लो:खा फेकायोब ।
कयार अनोब हो अपा जोरोए जोरोए
कयार ओनोब हो अपा ॥२॥
बुलीकीम डेलकी अपा डोकोकीम
हीन कयार लोंगोयते ।

११६२

इंग को इंग को ददा कोसोर लारो:
भेनतु ते को उमींग गा रो: डोकोना ददा ॥२॥
इंग को इंग को ददा गुलेंचीया: गतापवा
खाटी ते को उमींग गा रो: डोकोना ददा ॥२॥
इंग को इंग को ददा सोना: खटीया रूपा:
मचीया ते डोको नाइंग ॥

११६३

भीमीर भीटा डा: नो गीमते,
हारे कुलम कुलमडाय सुडता कियार ॥२॥

हायरे अपा: निरबुभीया,
छाता उम तेरते हारे कुलम कुलमडाय सुडता कियार ।
हायरे कुलामिग्गा: सपूता छाता धोखो: रो धांयो:,
छाता धोखो: रो धांयो: ।

११६४

भालोंग जा:ती टोंगोरी कोचो कोरो गोडभुंग
जहाज नाइंग को उम चोलता रे ॥२॥
ओले से मां जोइ सोना: छूरी,
लरंग ते सेज गोडींग काडइर ते छोपा गोडींग,
जहाज नाइंग को चोल कानना ॥२॥

११६५

सुकुरा रे सुकुरा, सुकुरा रे सुकुरा, अना सुकुरा
चलायोब तबकार लोंगोय ते ॥२॥
मुइज कोस चोलकी सुकुरा, उबार कोस नो चोलकी,
उ:फे कोस ते बाजा नो बाजेकी ।
तोंगोंन ना से बजनिया, तोंगोंना से बजनिया
सोना: साजु इरिब नो टुयोज,
रुपा: साजु इरिब नो टुयोज ॥२॥

११६६

कोनोन मोनोन तेनतोन मां रा: की
रा: रा: जोरोम गोडकी ।
एला: जुंग जुंग कनिया, बेर ला बीहाते
तारींगा कोम ते ओडेब के तारींगा
का: ओडे बेरो तार गोडींज नो ।

११६७

सीसी डांड ते डा: को भरने ते,
सरघा: बुआंग लीरे गा डेलता ॥२॥
तारे से रसिका का: ते ओडेब के,
एयांम लेगोना कुडा दोरहोते ।

(२७६)

११६८

जनम तेरोब मां जोई करम तेरोब अपा,
बोरोल नाः घाड बुःधी उम तेरोब ।
कुलम हो कुलम इयांम ताइज कुलम, अपा को
बोरोल नाः घाड बुःधी उमाय तेरोः ।

११६९

अना अना सेहिया गोडभुंग ते कायोम ना नांग
खोंःचा ते ओम्पेंग लोटा ते डाः,
कयार डौहरा डोडे रो सेहिया जोराय नांग ॥२॥

११७०

कौवा रे कौवाः कुटा तोबलुंग ते डोको की
कुटा तोबलुंग ते डोको की ।
मोड को मिटर २ लुतुर को ठीपीर
आलेंग गोइज ता रे कौवाः ॥२॥

११७१

खीरोम पारो आः सोमधीन नो मां,
उम रोः डेलता, उम रोः डेलता ।
सावन भादो लेरांग्गाः गोलांग नो मां
लोरोः गोडकी पचे नो गोडकी ।

११७२

नोला २ मेरोम गुपा बोयो,
अता सितील कुलमडायाः राइज ला ।
हांनतीज उतीज बीरु भांखोड़,
हीन सीतिल रे कुलम कुलमडायाः राइज ।

११७३

ओम्पाय सीतिल २ गाय ईंग गुपायोज,
मां जोई बछर ओड़ोः गोडकी ॥२॥

ती: ते धोखो: चुका: भांडा तरांन ते सीली सम्पेड़े,
मा जोई महरा बेटी इयाम गा डेलता ।
महरा कोनसेल इयांम गा डेलता ।

११७४

कोनोन मोनोन तबकार दाह जोंगोर कोले: ॥२॥
नंनी गोतनी खीरकी दुरा ते सोना: ढेलुवा
भुलेता कियार, रूपा: ढेलुवा भुकेता कियार ॥

११७५

बा: चीपा उठोब नो आपा गुडलु चीपा रे ।
मुइंग मुडूब उठोब बाबा घोल उबार ठोना रे ।
उबार मुडूब उठोब बाबा घोल उ:फे ठोना रे ।

११७६

कोसोर तीरियो कोसोर रतु नो मां जोई,
रानीया: बगंचा सोहन २ कराय ते ॥२॥
राजा को गोइजकी रानी को सती चोलकी मां जोई,
रानीया: बगंचा सोहन २ कराय ते ।

११७७

गुड गुड़िया नरियारा: हुका
चीलम बोजायना देरी नो होइकी ॥२॥
हुका भी:तार ते डा: दैया, डागा: तोबलुंग ते नार दैया,
नार तोबलुंग ते चीलम दैया, चीलम तोबलुंग ते गटा दैया,
गटा तोबलुंग ते तमकु दैया, तमकु तोबलुंग ते तिमसोंग दैया
उडे बार से बोरिया देवान,
चीलम बोजायना देरी नो होइकी ॥

११७८

बरवय जसपुर राइज ते नो मां बीजली को
चमके की बीजली को चमके की ।
बीजली को चमके की नो मां जोई
रोस डा: नो गीमाते भीमीर २ गीमो: ।

रोस डाः को गीमोः नो मां जोई
आंकाल को भोरे की गोजलोः को भोरे की ।
आंकाल को भोरे की नो मां जोई
केन्डोड केलोम बोः आलोंगता ॥२॥
केन्डोड को केलोम बोः आलोंगता की नो मां जोई
खांखड़ा केलोम बोः सीलोःता ॥२॥
खांखड़ा को केलोम बोः सीलोःता नो मां जोई
जामड़ो केलोम पाटा काडते ॥२॥
जामड़ो केलोम पाटा काडते नो मां जोई,
डुंडुलू केलोम बीड़ा छीटाते ॥२॥
डुंडुलू केलोम बीड़ा छीटाते नो मां जोई,
बांकलुई केलोम रोवा अोनते ॥२॥
बांकलुई केलोम रोवा अोनते नो मां जोई
ढेचुवा केलोम पाजकोम चलायते ॥२॥
ढेचुवा केलोम पाजकोम चलायते नो मां जोई
कुरकुर केलोम भुती एडते ॥२॥

११७६

सीसी डांड ते हारे गोडभुंग सिडकींग
हारे गोडभुंग सिडकींग ॥२॥
उतुने से मां जोई उतुने से अपा जोई
हारे गोडभुंग सिडकींग ॥२॥

११८०

लंडाम भुंड ते खोडकीज रे मां जोई,
खोडकीज रे मां जोई ।
राता गुच्चु कोनघेर ते कीडोः रोःनो
गमोंज बनाय रोःनो गा मोंइज ॥२॥

११८१

मुरुन दाहू ते पीयो कोनथेड तोरोःता
पीयो कोनथेड तोरोःता ॥२॥

ना लागे पीयो ना लागे कानथेड
कीमीन नोम को राम भम गा डेलता ॥२॥

११८२

इना:थोग गा:दा इना:थोग गा:दा भंडा, इंग मुमोइज ॥२॥
इंआ: गोमके नंग बेर जो नो उम्बोइज ॥२॥
हाय इंआ: गोमके नाइंज उसलो: हेके
लो:खा हेके मालिख नाइंज ।

११८३

कोनोन मोनोन बाड़ी मां जोई
हीरीमीचा सा: मां हीरीमीचा सा: ।
हीरीमीचा सा: मां सोना लेखे रा: सी:
रूपा लेखे रा: की ।
सोना लेखे रा: की मां जोई घोला टका
गीनींग मां जोई एकड़ी टका गीनींग ।
एकड़ी टका गीनींग मां जोई भोरे
युंठो: कीनभार भोरे युंठो: ।

११८४

कुलम हो कुलम मुइंजगा कुलम
अना कुलम जोगीया: सांगो, अना कुलम फकीरा: सांगो ।
आयो ते मेलाय के अपा ते मेलाय के, अना
कुलम जोगीया: सांगो, अना कुलम फकीरा: सांगो ।

११८५

मुइंज पथा कुदा पोटी मोइंज रो उनोंज
कोने मुदाई जोंखो:रो बुड़ायो: ।
अले सेरे कोने सरकोए बयना तेरे बभे नाम
ला: श्रोतइन गोतइन जुर्गांज तबे गरो: मेलाइंग

११८६

कुलम को गामते अना कुलमडाय अनिया:
राजी अना, कुलमडाय अनिया: राजी ॥२॥

कुलमडाय को गामते चोना नांगा: दीरोम २
लाडा कायोम गा चोना नांग ॥२॥

११८७

मां को गामते मुसनींग तेगा, बार तो: तेगा
दीयो २ बेटांग डेनाम, दीयो २ बेटांग डेनाम ।
अपा को गामते मोंज लेरांग उबार लेरांग
लेरांग २ बेटांग डेनाम ॥२॥

ददा को गामते मोंज मेमोन उबार मेमोन २
कुलमडाय डेनाम ॥२॥

आजी को गामते गोएज नाम लोरो: गोडनाम
मुनु ब्रुंग जो आमते उमींग गारो: योये ॥२॥

११८८

मख ओम्पाय मितील ते गीरा इंग ओगुरोज
हाय इजां: गीरा नाइंज ते मेलाय टुयोज ॥२॥
अना से कुलमडाय गीरा: खोजार हारे गीरा
नाइंज ते मेलाय टुयोज हारे गीरा नांजते इरीब टुयोज ।

११८९

चीरीचीठी रा: गोडकी चीरीचीठी हायरे
चमलो रा: की भोम्पा ॥२॥
अमा: लाख घोड़ा बाबा तोंगोन गोडकी,
कुलमडाया: रोमोड डा: गुरकी ॥२॥
कुलमडाया: रोमोड डा: गुरकी बोयोवा:
घोती ते जोठो:, बोयोवा: गामेछा ते जोठो:

११९०

पोखरा: हिड़ोते दुबला जा: जनमेसी:
मां दुबला जा: जनमेसी: ।
दुबला जा:ते योता २ धायते
लीला घोडा धायते, लीला घोडा धायते ।

लीला घोड़ा ते योता २ धांयते
राजा बेटा धांयते ॥२॥
राजा बेटा योता २ धांयते
रानी बेटा धांयते, रानी बेटा धांयते ।
रानी बेटा ते योता २ धांयते
लेवडीन भेवडीन धांयते ॥२॥
लेवडीन भेवडीन ते योता २ धांयते,
सर सिपाही धांयते ।
सर सिपाही योता २ धांयते
महतो भंडारी धांय ते, महतो भंडारी धांय ते ।
महतो भंडारी ते योता २ धांयते
पोःदाः भाई की धांयते ॥२॥
पोःदाः भाई ते योता २ धांयते
इसीट कुटुम धांयते, इसीट कुटुम धांयते ।

११६१

बृन्दा कीनिराः कोलेः को लड़ाई करायते
कोलेः को लड़ाई करायते ।
अपा हो मोइंज बिता ठांडो आः घाड राइज
मेलाय देशे धांयोः देश मेलाय राइज धांयोः रे ।

११६२

श्रोमपाय सितिल ते तेरोब नो मां,
बुःभी २ गुनाय २ लेमड उम रोः डेलता ॥२॥
इ करायींग बेटांग, इ करायींग बेटांग,
कायोम हारे बाहा जोराय उम रोः मानेता ॥२॥

११६३

अपा ते आबु हेःजोयेम मां ते हेःजोयेम रे
जे तोः रे कुलम उबार एकड़ी रुपिया से तोः
कुलम अपा ते हेःजोयेम रे ।

(२८५)

११६४

उजड़े पोःदा ते कतारी इंग ओनोज,
हीन कतारी लङ्गब नो सेबोल रे ॥२॥
अव अव पोःदा ते समधी इंग जोरायोज,
हरे मां जोई पालींग नो उम्बोः ॥२॥

११६५

मुःरुन जे ओनोब अपा मुःट्टी भोरे,
मुःट्टी भोरे रे ।
हारा जे फेकायोः ईःफोन कोचा मुनुःसिंग
योलोःसिंग अरलोसिंग डेनेबलोसिंग रे ।

११६६

मनवाः जनम मां, मोंज जनम रे मनवा
जनम मोंज जनम रे ।
साह उलाः डाः मां ढरके गोडकी,
हीन डाः गुर गोडकी तेलोंग तुता ते,
हीन डाः गुर गोडकी, जोरेल तुता रे ॥२॥

११६७

जनमायोब मां इञ्जाः जनमायोब रे
धुड़ी घुड़लोः ते जनमायोब ॥२॥
बुयोब मां इञ्जांः बुयोब रे
कुन्डा तोरेज बूंग, कुन्डा तोरेज बूंग बुयोब ।
हारेकीम मां जोई हारेकीम रे
छीपी डाः बूंग हारेकीम, लोटा डाः बूंग हारेकीम ।
ओबसोंगोब मां जोई, ओबसोंगोब मां जोई,
बीह सीतील ते बेंटी नो ओबसोंगोब रे
बीह यो कोन लेमेड उम डेलता ।

११६८

उबने सुन्दर बंगेलाः राजा अतु चोलकी,
कोठोरी कोठोरी रानी इयांमता ॥२॥

कोसोर उलाः लेंगता रो चोलता
हीन घाय गा राजा लेंग की रो चोलकी ॥२॥
चीठी लिखाय रानी पतर लिखाय रानी
राजाः साड़ा सबद उम्बोःडेज ॥२॥

११६६

मुरगुवाः डांड ते बेर सोना ढरायते
बेर रूपा ढरायते ।
माईज उम ढरायते, अपाईंग उम ढरायते
कुण्डाबाः कुर्लाभिग रो नो ढरायते ॥२॥

१२००

अतु ताय सीरजे कीमोय रे मनेवा,
अतु ताय सीरजे कीमोय रे मनेवा ।
रुइदेश पटेना ताय अरेकीम रे मनेवा
गोटा दुनिया ते छपले कीम ॥२॥

१२०१

गोसोंय ते तेरोब अपा जोई,
राइज २ बुलायोः देशे २ बुलायोः ।
बाइजना को बाइजकींग अपा जोई
राइज २ बुलायोः देशे २ बुलायोः ।
डेना को डेलकींग अपा जोई डांडाः तुजी
ठेहुना चापुगा बसा गिताः गा डेलकींग ।

१२०२

अना अना कुलमडाय भंवरो २ बीर,
भांवरो २ बीर रे ।
भांवरो बीर कुलमडाय भीम्पा २
तुरना भीम्पा २ तुरना ।
भीम्पा तुरता २ कुलमडाय दिनों धोगेनांग
दोनों धोगेनांग ।

दीनों धोगेनांग नो कुलमडाय साका छुःटे
नानांग, साका छुःटे नानांग ।

१२०३

ठीसाये से बेवपरिया
ओरेज हीनते इ लाःधे सीःडेम ॥२॥
ना लागे जिरा ना लागे धनिया,
रेसेम को लाःधे नो सीःडींग ॥२॥

१२०४

आम सोउनांज मने मन गा आवकीम,
मुन्दर बेटी तबकार मुम्बोःते जनमे की ॥२॥
छुरी जो उम कुइता नो बोईठी जो उम कुइता रे
गल्पुंग बूंग सेजींग सोउनांज सुंडरुइज रे ॥२॥

१२०५

गोबिन्द साय राजा गोबिन्द साय राजा
अता कोना अमाः हटिया, अता कोना अमाः हटिया ।
मुनुःसिग योलोःसिग राः राः हटिया,
बेन्दोरा राइज बाबा कनियाः हटिया ॥२॥

१२०६

लेरांग को मुःसिगकी बेड़ो को ढड़के गोडकी
हो होरे बेड़ो को ढड़के गोडकी रे ॥२॥
बेटी नोजनमायोब मां ओः भोरे पतर रे ॥२॥
बेटी नो जन मायोब मां ओः भोरे येंलौंग रे ।

१२०७

इना रे जटा जोगी दुराते डोको कीम
दुराते डोको कीम ।
तेरगोडे किसड़ो डाय कोमसोर रुमकुब,
मासोवाः दाइल रे ।
ई यींज किसड़ों डाय कोमसोर रुमकुब
मासोवाः दाइल रे, इंग को डेलसीःडींग ।

बेइटनोम्मा: मला: बूंग, इंग को डेलसी:
डींग कुटुम्मा: मला: बूंग ।

१२०८

जोड़ी नो तिरियो जोड़ी नो हतु,
हारे जोड़ी छु:टे गोडकी ॥२॥
तुता खोड़ी भांभ तोबलुंग खोड़ी हतु,
हारे तीरियो जुमेकी हारे हतु जुमेकी ।

१२०९

जौवा: अंकाल ते गोहोम अंकाल ते नो मां जोई
होडोमा: कोले:, लीहोर लोहोर डोकोता ॥२॥
अोगा: कोले: लेंगकी रो चोलकी,
होडोमा: कोले: लीहोर लोहोर गा डेलता ॥२॥

१२१०

पाइलको:टा शहर ते इ सोधोम सोधोमता
इ सोधोम सोधोमता ।
राजा गोजकी रानी सती चोलकी
हीन सोधोम सोधोमता ॥२॥

१२११

ईना कुलमडाय इयांम कीम
इना कुलमडाय इयांम कीम ॥२॥
अमा: घाड गा कुलमडाय ओरेज कोन्तांग
बा: रुमकुब बूंग ओ: भोबरे योइज ॥२॥

१२१२

भीम भीमाइर भीमाइर नो मां
हारे भीमाइर दुलारो, हारे भीमाइर बलारो ।
भीमाइर भोरे पो:ठी डा: काडोंग भलकेता
हारे भीमाइर दुलारो ॥२॥

(२८६)

१२१३

इकुड डीसा: तेरोब नो मां जोइ कुसुरांगा
इघाय रो: कोंगिज ॥२॥
कोंगेंम कोंगेंम नो बेटोंग सोना: चिट्टी रुपा:
चिट्टी लिखा डांगीज रे ॥२॥

१२१४

दुलुक दुसा दुलुक दुसा योयोज इंग को कोलेड चुंगडा:,
योयोज इंग कोलेड चुंगडा: रे ।
चुंगडा: गोडभुंगते कोनसेल मलकेता ।
सीलो: डांड ते कोनघेर मलकेता, ओ:ते हीनते
कंडाय बो: मलकेता पींडा ते बुढा मलकेता,
योयोज इंग को कोलेड चुंगडा: ॥२॥

१२१५

धीइके की तीरीब मां धीइके की तीरीब नो मां जोई
अता खोड़ी मां डा: नो गीमों: ॥२॥
कोरको:टा उला: बुंग तेलोंग इंग यीमोइज
हीन इडिब ते डा: नो गीमों: ।

१२१६

हरियारो बा: मां हरियारो बा: नो मां जोई
हरियारो बा: ते मां कोले: को जुभे गोडकी ॥२॥
बेरा: ओ:ते कोनसेल बेटी मां हिनकड़ा:
ओ: ते लेबु की जुभे गोडता की ॥२॥

१२१७

कोनोन मोनोन तबकार लोंगोय,
कोनोन मोनोन तबकार लोंगोय ते नो मां जोई,
अपाइंग भीली मीली पोखेरा लायो:,
भकमका पोखेरा लायो: ।
भीली मीली पोखेरा ते मां जोई चोंडेज काडोंग
हलका ते पो:ठी डा: भलकेता ।

(२६०)

ना लागे चोंडेज ना लागे पोःठी डाः
जुंग जुंग कनियां: कोंगको भलकेता,
जुंग जुंग कनियां: बाहा भलकेता ॥

१२१८

सुरगुजा: चम्पा काली नो कनियां
भला चम्पा काली नो कनियां ।
सासुरा: गोर गोरा बावनोमा: गोर गोरा
संभड़ाय डोडेम रो: नो कनियां ॥२॥

१२१९

घोड़ासार ते घोड़ा तोलते हाथी सार ते हाथी तोलते,
हायरे ए राम मुलुका: राजा बेटा जोगी होइकी ॥२॥
खीरकी ते सोलो: भाबरु ते कुंडाबसींगते
(चकार तो) करचा तोरो:ता,
ए राम मुलुका: (मालिक) राजा बेटा जोगी होइकी
ए राम मुलुका: राजा जोगी होइकी ।

१२२०

अता कीनीर ताय मूंकी बार जोड़ी
तीरीयो जोरी खु हायरे ।
गीले बार तीरीयो डांडा: धो:कोन
डांडा: ते धुड़ी लेंगता रे ।

१२२१

अता राईज ताय डेलकीम रे बोई,
बोई लोरेंग बो: युंठोब रे ।
लोरेंग बो: युंठोब ढाला तरबंर रे
बोई लोरेंग बो: युंठो: रे ।

१२२२

टिरीटीपी कोनथेड, अते रे
कोनथेड डेरानोम गीमता:नोम ।

मां दुलारी अपा दुलारा हिनते रे
कोनथेड डेरानोम गीमता:नोम ।

१२२३

किनीर ते तोरो:ता कुही रे बेसेरा
ओमपाय ते तोरो:ताइज हरियारो कोले: ।
अबु इयामना कुही अबु तोरो:ना बेसेरा
आमते यो कोन जीयोम नांडग होरोजताईज ।

१२२४

कड़ारु प्रगना साखी सिघ भोईंसी बांधा की
कड़ारु प्रगना साखी सिघ गाया बांधा की ।
पंजकोम जे चोलताइज की लस कालावे
धुड़ी लेंग ताइय रे ।
पंजकोम ते योता २ मांजोंगा: चंढवा
तेज घालो: ह्यरे ।

१२२५

की:ते डिसा: ते ददा बनभारी कीनीर ह्यरे २
एनेम केकेगा: सोंगोल ओलोइज थाम टोंका कुयूते
डा: ओलोइज, मुइंग ठेकी बा: एनेम एंडी
डुरुंग गोइज, मुइंग डेलंगी बीड बीड
कातोर ते रामोइज, कीड़ो: नुनु ओलोइज,
बंबोईर रा: रा: ते हारेकींग ददा ।

१२२६

गुडलु गोलांग बिंगोय बोंगोय कुदा गोलांग सिकोय
सोकोय रे । अना डिंडा कोनसेल रे लम लम एबो:ना ।
सारहोम तारेम कोम बंग गोगेम लिटया तारेम डांग बंग
गोगेम, अना डिंडा कोनसेल रे लम लम एबो:ना ।

१२२७

कोचा: बुयी गोलांग ओजे से गे मां जोई ॥२॥
रीमी रीमी कीमीन नोम भाइभोड़ साइसोड़
गा डेलता नो गे मां जोई ।

(२६२)

१२२८

कोनोन मोनोन बाड़ी मां जोई हीरीमीचा
साः, मां हीरमीचा साः ।
हीरीमीची साः मां सोना लेखे राःकी
मां रूपा लेखे राःकी ।
सोना लेखे राःकी मां जोई घोल
टका गीनिंग मां एकड़ी टका गीनिंग ।

१२२९

गोडभुंग सांगोडना २ इंज को योयोज
लुआ राः राः, मां जोई इंज को
योयोज लुआ राः राः ।
लुआ राः राः मां जोई घोल कोस
जोड धांडी लाःता, एकड़ी कोस जोड मोहकेता ।

१२३०

लडाम बीरु चोलकीम नो रे ददा,
कीड़ीः रोःनो छेकायोः, बनाय रोःनो छेकायोः ।
तारे से ददा जोई सोनाः बन्वूक बुंग,
ढाल तरवाईर बुंग ।

१२३१

बीरु टेटेंगा, बीरु २ रटा टेटेंगा
रटा रटा हूरे ।
जसपुराः राजा बेटा लाम लाम एबोःता,
इना टेटेंगा बोकोब घुरबोखोब रे ।

१२३२

भोरे कीनभार ते तबकार जराः बेलोंगसीः ।
कौआः कोलो बोलो २ गामते मंना चरे बेरे २ गामते ।
अना से देवान जराः जौंःना
कौआः कोलो बोलो २ मंना चरे बेरे २ गामते ।

१२३३

सारु बीरु ते सकोए तोरोःता,
सकोए तोरोःता ।
ओले से मां जोइ जडाः तरवाईर
सुंम सुंम बरेछा सकोए तोरोःता ।

१२३४

सोनाः पाडसोर रुपाः कुण्डूः सोर
सुरुम चोलकी हाय हिरा राजा ॥२॥

१२३५

जोड़ा कड़रु पोखेरा ते ओड़ोः की हरे बइया
रोमोड् डाः गुरता ।
सावन भादो पोखेरा ते ओड़ोः की हरे बइया
रोमोड् डाः गुरता ॥२॥

१२३६

ओमपेंग डुरुंगे आजी ओमपेंग डुरुंगे आजी,
इंज् आजी चोनाइंग किनिर लमलम ॥२॥
खजाराः शब्द ब्रुंग कोम मेलायोइज,
हाय बइया ठोःकी सुन्दर कुलामिगते ॥२॥
अबु इयांमना आजी अबु इयांमना,
इंज् होर्याकिंग अमाः दुलार सोउनीम ॥२॥

१२३७

अता तोः राजा जन्म डोठोब,
इःफोन कोना राजी ते तरोब ॥२॥
मंगरा आः तोःते जन्म डोठोब, राजा,
इःफोन कोना राजी ते तारोब ॥२॥

१२३८

आमते आमते वदा रतु पेडना
बेर सिखायोः ॥२॥
इंगते २ बोइ रतु पेडना,
बुमांग कोनसेल धोः सिखायोः ॥२॥

(२६४)

१२३६

कोनमेंजरा बीरु ते,
तोरेंग नो बोइ तोरोताज ॥२॥
धेंसे गोइराम काः नोमओडेबे,
तोरेंग नो गोइ तोरोःताइज ॥२॥

१२४०

आम को आमको कुलु, गोइजकीम ताय जो,
आलेंग ताम, सिडकीम ताय जो दुरांगताम ।
इंग को उर्मज आलेंगता उर्मज दुरांगता,
कोसोर कोन्डेंग आलेंगता घोड़ा पाता दुरांगता ।

१२४१

इञ्जाः जोड़ी को ओमपाय तुडाः डोमकी
तुता तुडाः डोमकी, तुता लुंग लामना चोलकींग ।

१२४२

आनि से सहिया चोनानिंग सोंगोल लामना चोनानिंग ॥२॥
आनि से सहिया ते जोहार ना चोनानिंग
आनि सहिया चोनानिंग सोंगोल लामना ।

१२४३

हरे मामी जोई हरे मामी जोई
बेइटनोम ते सकोय डोडते ॥२॥
डोडते लाः डोड गुडुः
भगिना बण्डी घोड़ी गिनींगतांग तेरे ॥२॥

१२४४

महातो रे महातो,
कोनोन भरिया महा बांधो कोंगते ॥२॥
तुता तिज चुलु ऊःडेयोब तोबलुंगते भिमाइर ऊःडेयोब,
डोः गोडकी रे महा २ खंखड़ा ॥२॥

(२६५)

१२४५

मां जोइ किलिर किलिर, आले से कुड़ः
पाही ते पुराइंग, कुलंग कलेड नुनु ओर्बुडिंग ।

१२४६

हरीयर मड़वा ते डोबकोयोब मां जोइ,
दुनु मुनु रे गाम टुये मां जोइ तोमलेंगा: गिनींग ।
तोमलेंगा: गिनींग रे बेटाइंज साड़ी घंघेरा
गाम टुइ मां जोइ तोमलेंगा: गिनींग ॥२॥

१२४७

इ:फोन कुलम रे इ:फोन कुलम रे
इ:फोन कुलम आतिज आतिज होइकीमोय ।
रुसुंग रुसुंग (घोड़ा), बनवा तम्बा रसल
घोड़ा चोलकानकी बुंडु रे टमाड़ रे ।

१२४८

बुलीना चोलकीम हो आबा,
डोकोकीम हिन कयार लोंगोय ते ॥२॥

१२४९

हयरे सुन्दारो मंना रींगी चींगी पींजरा ते
आवकीम रे सुन्दारो मंना ।
रींगी चींगी पींजरा ताय मु:कीम रो चोलकीम रे
सुन्दर मंना सेमड़ी दारु ते डोकोकीम रे सुन्दारो मंना ॥२॥
सेमड़ी दारु ते डोकोकीम रे सुन्दारो मंना
डुबो: मुदाई लोडो लोडो, तोगोन २ जपा: जपा:
गारो डेलता रे सुन्दारो मंना ॥२॥

१२५०

हयरे बड़ोम २ लेरांग, बेड़ो गहन ला:की ॥२॥
तबकार उला: हिलो डोलो सुन्दर रा: इञ्जा:
कीनभार ते रे बड़ोम लेरांग, बेड़ो ते गहन ला:की ।

१२५१

डोभा: डा: डोभा: डा: गे मां जोई
डोभा: डा: भिल्ली मिलायता ।
मन्डा भि:तार ते कुलु रानी गे मां जोई
इन्दवार राजा बंग सुमांग डोमकी ।

१२५२

केसेल डाँड ते माँ जोई
खजर आरयो:ता ॥२॥
आँडीज खजर आँडीज सेलहोब
केलोम बो: अराम कुन्डू: डेलता ॥२॥

१२५३

हरियार बो: मड़वा ते डोको सि: मोंय माँ जोई
कोरोब कोरोब रे
अते रो: ऊनसी:डेम नो माँ
तोमलेंग आ: गिनींग ॥२॥
तोमलेंग आ: गिनींग नो माँ जोई
साड़ी घँघारी भिल्लीमिली
हरियार डा: माँ तोमलेंग आ: गिनींग ॥२॥

१२५४

अपा जोई किनभर ते कुटुम
डोको सि: मोंय ॥२॥
बेटा: थोम बिहातेम
बेटीया: थोम बिहातेम
मुदई चरा की पीजतेकी
अपा जोई किनभरते कुटुम की
डोको सि: मोंय ॥२॥

१२५५

चोर्लाकिंग डेर्लाकिंग बेटी अमा: मला: बोंग ॥२॥
थाम जोरी जता बेटी गोसोड गोडकी ॥२॥

(२६७)

१२५६

बिड़होएज, पेरवाँ, तोरेंग कोले:

रेका, मैना, रँजुवा,

दूर, रेका, राजो, कोले:, मैना, रँजुवा ॥२॥

सम्पड़ेना से सम्पड़ेना सोनोर गिनींग रूपा सम्पड़ेना

दूर रेका राजो मैना रँजुवा ॥२॥

१२५७

ईआः कुन्डब सींग ते गा

मडतीरीड सांगो,

ताँजकाए गोड़े कोनके: बीती छाता ॥२॥

मुनुःसींग ताए डेलता आड़ेल डा:

योनलो: ताए डेलता कोयो डा:

ताँजकाए गोड़े लेबु डाल डोमना छाता ॥२॥

१२५८

कोनोन जो हीरा पुर

महा जो हीरा पुर,

हाकिम पुर ते एड डोथो: ॥२॥

ओन्डरोए पेसे पो:दागा:

रे: कुलम की,

हाकिम पुर ते ओबसोंग गोठो: ॥२॥

१२५९

पैलको:टा गा: नागबँसी राजा रे

ऊ: छूंगकी लड़ाईयोब तोमोंगकी ॥२॥

डबनी आ: ढाल धोखो: बुची करछूल खँडा रे

लड़ाईयोब ऊ: छूंगकी तोमोंगकी ॥२॥

१२६०

मां को ईयमता

मोएँज कड़ैर सागा: थोंग ईयमता ॥२॥

अपा को ईयमता

मोएँज लोटा डागा: थोंग ईयमता ॥२॥

दबा को ईयमता

मोएँज रोनील अनरगीया: थोंग ईयमता ॥२॥

१२६१

जा:ती भल्लोंग बीरु कुनॅंग घाट गोडभूँग

जहाज नाईंग ऊम डेलता

जहाज नाईंग ऊम डेलता रे ॥

ओले से माँ सोनोर आ: बोलुआ

रुपा गा: तारवाईर

हरा हरा डेएज गोईंग

ऊला: ऊला: छटाईंग

जहाल नाईंग डेलकानना

जहाज नाईंग डेलकानना रे ॥

डेरा ओले माँ, डेरा ओले अपा

किनभर ते भरिया तोगोंन कीमोंय

खिरकी ते जहाज नो तोगोंन सि: ॥२॥

डोकोना से बेटाईज,

डोकोना से कुन्दु: नाईज

ऊ मड़वा तूता ते डोकोना

ऊ मड़वा ते डोकोना ॥

१२६२

सीकसुरा टमाडीह नो माँ

दुन्दू कछार बेन्दोजोर नो माँ

मो:भी ते तामरा नो माँ

एंडी आ: बोकोब ते

फूवना भबरे सि: ॥

डुहॅंग ताईज कोनसेलनो माँ ॥२॥

एँडी आ: बोकोब ते नो माँ

फवना भबरे सि: ॥

१२६३

खिरोम सिनींग ते खिरोम सिनींग ते नो माँ
अतु चोनम कडोंग नो माँ
अतु चोनम कडोंग ॥
तूता दोरहो ते सोंगडाः
तोबलूंग दोरहो ते भिमरीनो माँ
अतु चोनाम रे कडोंग नो माँ
अतु चोनम रे कडोंग ॥
मोएँज कोंगडाः ते
ऊबर आएज डोंग आछोएज नो माँ
अतु चोनम कडोंग नो माँ
अतु चोनम कडोंग ॥
मोएँज धोः डूः धोःखोएज
ऊबर धोःडूः धोःखोएज नो माँ
अतु चोनम रे कडोंग ॥

१२६४

टम टम डीपू मां
टम टम डीपू नो माँ
टम टम डीपू माँ
लेबू की भोरे कीमोय ॥२॥
राँची ला डूरँडा ॥२॥
सीकसुरा टमाडीह
लेबू की भोरे गोडकीमोए ॥२॥

१२६५

गोसाँई ते तेरोएज बेंटी
मानेनाम नो ऊम्बोः
बेंटी बुःभीनम नो ऊम्बोः ॥
मानेना को मानेनाईंग
बुःभीना को बुःभीनाईंग
राईज मेलय पोःदा बोर बोरता ॥

१२६६

नीम ऊलाः भीली मिली
कायर ऊलाः हरियार ॥२॥
अना से अराम बिरन्दा किनिर
बिरन्दा किनिर ईकुड डिसाः ॥२॥
अराम गामते अना अना
कुलमडाए गामते अले अले ॥२॥
अना से अराम बिरन्दा किनिर
बिरन्दा किनिर ईकुड डिसाः ॥२॥

१२६७

बीरु आ उलाः योता हरियार
अपा जोई किनिर किनिर गा लड़ाईता ॥
रानी रे रानी कोडपुडुः सोरी आअ नाम
बोकेर सोरी आवनाम
पुर नोम ते ओबड़ोःखोब
केल नोम ते ओबड़ोःखोब ॥

१२६८

मोएँज पोःदा ते आवकीनँग
कुलम कुलमडाए डोम
कुलमडाए ते डोडकनोः की ईकुड डिसाः ॥२॥
कुलम आः बिहा ते अंजोरे से कुलम
कुलमडाए ते डोडकनोः की ईकुड डिसाः ॥२॥

१२६९

गोनमेर ईकुड मतवार
एले ते लेमेड जो ऊम डेलता ॥२॥
अबु होरोएज ना कुलमडाए
अबु हेःजोये कुलमडाए
ईआंः बेटाईंग राजा दरबार डोकोसिः ॥२॥

१२७०

तोमने तोमने कुःडींग
तोमने तोमने पेठिया
अना सहिया चोनानंग
बडकेः खोमसो सोंगना ॥२॥
सोंगना को सोंगेनंग
ओलना को ओलेनंग
ओः तेगा आइज कोनघेर
ताला लगाए कलसा रंगाए
एनेम बाएज कन्डाए ॥२॥

१२७१

गुरगुःडी लोःखा
कुनंग बोः पिन्डा ते
अना नना किजते आवना नंगडिन्डा गा ॥२॥
आम धोगेम सोना रूपा
ईंग धोर्गिंग कन्डाए
घोल ऊबर भरियाः
घोल ऊःफे पोखराः
डाः उडता उडता
डोर्गिंग कन्डाए ।

१२७२

बोकोब केः बेटा ते बेटी उर्मिंग तेरे,
बेटी उर्मिंग तेरे ॥२॥
तारन ते गोगे कुवड़ी गेंडुआ
तीः ते धोगे नाधा अरई
होकड़ ते तेरिंग अलार बेटी ॥२॥

१२७३

ओमपाय जोडागाः खजर ॥२॥
खजर नारा गोजलोः ते आरओःता ॥२॥

डा: ऊडे से खजर
भिलिमिली भकामका निरामला
पोखरा: डा: ऊडे से खजर ॥२॥

१२७४

कोनोन मोनोन तपकर दारू
कोनके: सुम्बो: लभईर दाईया ।
मंना को चेरे बेरे कौआ: को कोलो लोलो
टुकनू धोगे बेटा, खों:चा बाये बेटा
जरा: ते राम ओलेम ।

१२७५

पोखेरा रे पोखेरा
हारे पोखेरा सौरेंग आ: दुरा ते डोको सि: खँखड़ा
सौरेंग:आ दुरा ते डोको सि: रे खँखड़ा ॥२॥
मुरडा: सावन भादो लेरेंग ते
खँखड़ा हे:जो हे:जो बु:भी बु:भी
रोमोड डा: लेंगेता ॥२॥

१२७६

सहिया रे सहिया
मोएँज गा भेन्तु ते डोकोनानेंग ॥२॥
लोटा डा:, खों:चा ते श्रोमपेंग कायर ऊला:
धोखोब सहिया जोराएना ॥२॥

१२७७

कबाडी एबो:गा
कबाडी तपकर बो: ते आवकी ।
गाय छान्द छन्देयो:
भेंस छान्द छन्देयो:
कबाडी तोमलेंग रोएज कोन
कबाडी तपकर बो: ते आवकी ।

१२७८

मोएँज कायर ओनोः
ऊबर कायर ओनोः
हो कायर लाःकी
कायर बगोईचा हँसा जोरी ॥२॥
मोएँज बेटी जानमेकी
ऊबर बेटी रे
हो बेटी लाःकी
कुटुम्ब बोंग हँसा जोरी ॥२॥

१२७९

दीरोम दीरोम रे केन्डोर बोः
दीरोम दीरोम बीरू ते डेबनाम ॥२॥
मुरुन लठा ओंःता २ केन्डोर बोः पालटेकिम
दीरोम दीरोम केन्डोर बोः डेबनाम ॥२॥
बुढी सिंगकोय ओंःता २ कन्डाय बोः पालटेकिम
दीरोम दीरोम कन्डाय बोः बीरू डेबनाम ॥२॥

१२८०

ऊड़िया पुरते अपा ॥२॥
ऊम कुईता अपा जाईत नो गोतिया ॥२॥
गोतियाः मलाः बोंग बेटी तेरोएज
ऊम कुईता अपा जाईत नो गोतिया ॥२॥

१२८१

कोलेः जे तोरोःता किनीर
किनीर बेसरा तोरोःता
भरिया भरिया कोईल तोरोःता ॥२॥
अबु तोरोःना बेसरा
अबु तोरोःना कोईलो,
असाः ईआः मोएँज गा किलपाईत हाल ॥२॥

१२८२

कुहु को गामते कोईल कोनथेड रे ॥२॥
कोईलो कोनथेड नन्दान तोरो:ता कुलम रे ॥२॥
कुहुआ: मला: बोंग लेटे: इंग ओनोएज
कुहुआ: मला: बोंग सरकोए इंग ओनोएज
कोईलो कोनथेड नन्दान तोरो:ता कुलम रे ॥२॥

१२८३

सीसी लो: ते हारे गोडभूंग ओसीठोएज
हारे गोडभूंग ओसीठोएज ॥२॥
उतुन गोड़े मां जोई ओबयो गोड़े मां जोई
हारे गोडभूंग ओसीठोएज ॥२॥

१२८४

बीरू नो सीतील ते सीलो:तम् कोनघेर
लिली को गामते ॥२॥
लिली को गामते ॥२॥
पैलको:टा: शहर ते
होन बड़ी सोंगोल, होन बड़ी ऊला:
लिली को गामते ॥२॥
लिली को गामते ॥२॥

१२८५

कटा: जूता को कोडिल गोटकी
जहांगय जूहूंगूइ ओ: अपा ॥२॥
अडिया: केन्डोर बोयो बोंग यूँडते ॥२॥
कोड़ीआ: धोती कोडिल गोटकी ॥२॥
जहांगय जूहूंगूइ छता अपा
अडिया: केन्डोर बोयो बोंग यूँडते ॥२॥
मञ्जोंग आ: चन्दवा कोडिल गोटकी ॥२॥
जहांगय जूहूंगूइ ओ: अपा
अडिया: केन्डोर बोंग यूँडते ॥२॥

कोंगको आः मला कोडिल गोटकी
जहांगय जहूँगूइ ओः अपा
अडियाः केन्डोर बोंग यूँडते ॥२॥
सोःलुईयाः खोमसो कोडिल कोडिल गोटकी ॥२॥
जहांगय जूहूँगूइ ओः अपा
अडियाः केन्डोर बोंग यूँडते ॥२॥

१२८६

खडिया ईकुड बुलबुल
तवा हिनते मांया गुँजरेता ॥२॥
नायगोम रे नायगोम कुलम
लवाँग हिनते घना गुँजरेता ॥२॥
तोमकइ रे तोमकइ कुलम
चका हिनते लोःखा गुँजरेता ॥२॥
चिःको रे चिःको कुलम
हँथा हिनते डोंगी छलकेता ॥२॥

१२८७

कालीघाट शहर ते
लूवाँग आः खानी रे
लुवाँग हिनते रेल चोलता
रटा जोकोर किनिर ते ।
रानीगँज शहर ते कोयलाः खानी रे
भिःतार तेको तिमसोंग डाः
बाहेर तेको लुवाँग लती
लूवाँग हिनते रेल चोलता
रटा जोकोर किनिर ते ।
मुनूःसिंग योनलोः आरलोः डेबलोः
लुवाँग हिनते रेल चोलता
रटा जोकोर किनिर ते ।

१२८८

माँ अपा: ओ: ते
रनकेता रूतू ॥२॥
नो सोधमता ॥२॥
भि:तर तेको बा: रुमकूब
बाहेर तेको ओरेज मेरोम,
खिरकी ते लीला घोड़ा तोंगोन सी:
अतु अमा: डेरा, अतु अमा केलो:
माँ अपा: ओ: ते रनकेता रूतू
रनकेता रूतू नो सोधोमता ।

१२८९

मोएँज लो:खा हिनते
आवकीनेंग कुलम कुलमडाए रे ॥२॥
कुलम आ: बिहा: थोम अंजोरे से कुलम ॥२॥
कुलमडाए ते डोड कनो: की डोनजांग पुर ॥२॥

१२९०

जानमो जानमोगा नो माँ
जानमोआ: सोमधी अपा जोड़ायोब रे ॥२॥
तोबलूंग ते को पोनोमोसोर
तूता ते को मोलोय कुलम
जानमोआ: अपा सोमधी जोड़ायोब ॥२॥

१२९१

सेरिगा: डाँड ते
कुलामींग एबलोंग की ॥२॥
माँ गोएज गोडकी अपा गोएज गोडकी
महा कुलम चोलकी डोनजाँग पुर
बेर ला बेर कुलम तेरो: तिलासरी. ॥२॥

१२९२

बगोईचा ते भि:तर ते
इ तारकेल तारकेलेंगता ॥२॥

आंडीज सोनोर आंडीज रूपा
कुंडबा: कुलामा: मंयोगआ:
चन्दवा नो तारकेलेंगता ॥२॥

१२६३

भिली मिली पोखरा
हिन्ते मां ऊवा: डेनम
हिन्ते अपा गुजुंग डेनम ॥२॥
गु:थे गुजुंग होईकी सम्पडेकी
मांगा: पांगोड मुसनींग गा
अपा: पांगोड बारतो: गा
केन्दोर आ: पांगोड जानमो जानमो ।

१२६४

इना ला कमल कुवाँर
कमल दोरहो ते ऊवा:तम
कमल कुवाँर कमल
दोरहो ते ऊवा:तम ॥२॥
राजा गुने मानेतींग
देवता गुने सेवतींग
कुटुम्ब गुने बोकोब ओडुछोएज ॥२॥

१२६५

दिलिंग दिपीड दिलिंग दिपीड लाएज कबरा
बोकोब भकडी हाय रे ॥
हायरे हाय इंजा: कामू बेडो योलो:ता ॥२॥
मुगम योतींग मुगम जो ऊम्बो:
कुन्डब योतींग कुन्डब जो ऊम्बो: ॥२॥
हायरे दाइया इंजा: कामू बेडो योलो:ता ॥२॥

१२६६

ओलेसे रे मां जोई छेछरा गुंगू
ईंग को भतीना चोनाईंग ॥२॥

(३०८)

मुगम तीईज कुन्डू: कुन्डब तीईज गुंगू
कुन्डू: इयमता कीलिर कीलिर ॥२॥
आले सेरे कुन्डू: गोडभूंग
ओतूडना तेरे होल गा: कुलंग
कलेड ननू ऊबूडींग ॥२॥

१२६७

कुंवा जो आजोड की
पोखरा जो कोसोर की
अतु ताय डेना जोगिया डा: कुलम रे
अतु ताय डेना जोगिया डा: ॥
डोईर जो तेजकी
साजू जो पा:की
अतु ताए डेना जोगिया डा: कुलम रे,
अतु ताए डेना जोगिया डा: ॥

१२६८

खिरोम सिनींग ते भोरा बेटा
बनसी एबो:ता ॥२॥
बनसी आ: डोईर तेजकी बनसी सीड गोटकी,
भोरा बेटा हे:जोना ला:सी: ॥

१२६९

ओसेल तिरिब नो माँ
वेशे बूलीता राजी बुलीता ॥२॥
मोघेर तिरिब नो माँ
देशे बूलीता राजी बुलीता ॥२॥

१३००

ऊमडा रे ऊमडा
हरा मेलय ऊला: ते लूकूता ॥२॥

ढराय काये सोनेरा
अंगरीयाः मुःधी
ढराय काये सोनेरा
कटाः जूता
ढराय काये सोनेरा
भूलू आः जँघीया
ढराय काये सोनेरा
कोड़ी आः धोती
ढराय काये सोनेरा
लाएज आः पटावरा
ढराय काये सोनेरा
मञ्जोंगाः चन्दवा
ढराय काये सोनेरा
कोंगको आः मुंगा
ढराय काये सोनेरा
लूतुरा आ मुन्दरा
ढराय काये सोनेरा
चुन्दी आः खोमसो
ढराय काये सोनेरा
बोकोब आ बोकाब केः
हरा मेलय ऊलाः ते लूकूता ॥

१३०१

हिरीमिचा साः नो माँ
ऊसलोः ते केन्डोड तोरोःता ॥२॥
मोघेर तीरीब नो माँ
ऊसलोः ते केन्डोड तोरोःता ॥२॥

१३०२

महा कुलामाः किनभर ते,
कुन्दरीयाः मचा ॥
कोनोन कुलामाः किनभर ते,
पान आः लरँग ॥२॥

पान ते ञों:ता ञों:ता
गोने ते रांजेकी ॥
लामे से रे अपा जोरोल डा:
बरा बाईर,
कुन्डब सींग बरा बाईर
इंञा: जोड़ी कन्डाय ॥२॥

१३०३

पाघा जोड़े जोड़े रे घांटो
खिरोम सीनींग ते खीरोम सीनींग ते
आरेकिमरे घांटो ॥२॥
मुनू:सींग ताय आरेकिम रे घांटो
कोयलो सिनींग ते खीरोम सिनींग ते
आरेकिम रे घांटो ॥२॥

१३०४

बेरोडना से बेटाइंग
रुसुंग ओरेज खो:तांग ना
चौरा ओरेज खो:तांग ना ॥
आले से रे मां जोई
सिगकोय मुलना तेरे
सिगकोय मुलना तेरे ॥

१३०५

गोडभुंग: तारोब दारु
ईघाय केलोम लुकू बेलोंगसी: ॥२॥
उगुर काय मां जोई ॥२॥
बेतोड बोंग को डुडूई जोमतेंग
बेतोड डा: बोंग को जपा: जोमताइंग ॥२॥

१३०६

पोखरा लायोब अपा जोई
हीरा गु:ड लोरेंग बो: डा: ॥२॥

कायार ओनोओब अपा जोई
हरियार डा: कायार ॥२॥
डा: ओलना चोलकीम रे माँ जोई
हीरा गुड लोरेंग डा: डोकोकीम ॥२॥
हो रूगूम लोंगोय ताय बेरोड्तम उम्बो:
चोलतम उम्बो: ॥२॥

१३०७

कोनोन मोनोन काडलांग
सोंगे से अपा जोई ॥२॥
इंग को चोनाइंग काडलांग एबो:ना ॥२॥
भाड़ी कोनथेड तारोज फुचफुचीया जाको तारोइच्च ॥२॥
खीरोम कोनथेड खीरोम कोनथेड
खीरोम सिनींग ते डोको सी: गा ॥२॥

१३०८

तीडेइल खुन्टो ते डोकोकीम रे कौवा:
डोकोकीम रे कौवा: ।
लुतुर डोम ठीपीर ठीपीर
मोड डोम मुटूर मुटूर
आलेंग गोएजता रे कौवा:
आलेंग गोएजता रे कौवा: ।

१३०९

खीरोम ओम्पाय ते कडोंग गिराना चोलकींग,
गिरा नाँञ्ज ते इरीब टुईयोज
गिरा नाँज ते मेलाय टुईयोज
गिरा नाँज ते इरीब टुईयोज ।
आना से माँ जोई गिरा नाँज ते लामना
गिरा नाँज ते इरीब टुईयोज
गिरा नाँज ते मेलाय टुईयोज ।

१३१०

अता कोचा ते तिरिब ओडेब तेएज माँ जोई ।
अता कोचा ताय डेलताएज
रासम गुड डा: डेलताएज ॥२॥
मुनू:सींग ते तिरिब ओडेबतेज माँ जोई
योनलो: तीईज गीमतेज रासम डा:
गीमतेज रासम डा: ॥२॥

१३११

अता किनीर ताय मु: गोडकी
जोड़ी तिरियो जोड़ी कोन्डेंग रे ॥२॥
तारे से तिरियो सोंटी धोगे,
धो:ता २ डनडा: ते धुड़ी लॅगता ॥२॥

१३१२

मुरडा: तो: नो बोई
गुंगू नोम मुरुम चोलकी ॥२॥
सा: लुराय बोंग की बोई,
केन्डोर नोम खिरसोमें ॥२॥

१३१३

भेरनीया: बुदा नो माँ
भेरनी बुदा दुलूक दुसा ॥२॥
बेटा जन्म नो माँ
बेटा जन्म ओ: जोंगोड ते ॥२॥
बेटी जन्म नो माँ
बेटी जन्म मांगा: पुर मेलाय ते ॥२॥

१३१४

कि:थोन ऊसलो: डा:नो माँ,
आजोड गोडकी रे ।
मानोबा की जन्मे की मोए आयो
मोंएग जन्म रे ।

१३१५

बेरा: लील भण्डा,
भेनतु ते तारवी सालगाये,
केलोम बो: कन्डाय ओले ।
राजा: लील भण्डा,
किनभर ते मडोवा सुम्मे,
मेया: बेरा ते बिहा तेरे,
भेनतु ते दियोम सलगाय,
केलोम बो: कन्डाय ओले ॥

१३१६

जुरकेलिया भाईया रे किड़ो: ते
कोंगतेम नो ऊम्बो:,
जुरकेलिया भाईया रे ॥
पता डोमको योता एँडीगुड्
काटा डोमको योता थोपागुड्
बोकोब डोमको योता गोंनबिडगुड्
मोड डोमको योता बिजलीगुड्
तोमोड् डोमको योता सोंगडा:गुड्
जुरकेलिया भाईया रे ॥

१३१७.

बेडो लेरेंग अपा
ओलेड् डोमकीमोंय, ओलेड् डोमकीमोंय ॥
मुसगा: तो: अपा
काल होएकी गोनोएज् होयकी ॥

१३१८

लोरेंग बीरू ताय आरेकीम रे अपा ।
आजोडा: पूर ते आजोडा: गढ़ बायोब ॥२॥
आजोडा: पूर ताय आरेकीम रे अपा ।
राएलोंग किनिर ते राएलोंग गढ़ बायोब ॥२॥

राएलॉग गढ़ ताय आरेकीम रे अपा ।
डेलडा: पूर ते डेलडा: गढ़ बायोब ॥२॥
डेलडा: पूर ताय आरेकीम रे अपा ।
पा:टो पूर ते पा:टो गढ़ बायोब ॥२॥
पा:टो पूर ताय आरेकीम रे अपा ।
आँजोर ते बसाली गाय
आँजोर ते बसाल ओरेज ॥
आँजोर ते बसाली गाय नोम रे अपा ।
हिरा पूर ते भुँईहर पा:टो तोलकायोब ॥२॥
हिरा पूर ते भुँईहार पा:टो तोलोब नोरे अपा ।
सारोब रो सरना ते बायोब ॥२॥
सारोब रो सरना ते बायोब नोरे अपा ।
पोनोमोसोर पा:टो ते सेलोब ॥
पोनोमोसोर पा:टो ते सेलोब नोरे अपा ।
कुन्डू: नोम की भिरी हिरी एबो:ताकी ॥२॥

१३१६

हो होरे मरा: हो होरे मरा:
ईञ्जा: कोमु ते बेर समढ़ाय रे मरा: ॥२॥
अपा जो ऊम समढ़ाय
ईञ्जा: साँगो समढ़ाय रे भाईल मरा: ॥२॥

१३२०

घोल गोठँग कुलम एकड़ी गोठँग कुलम
घोल गोठँग कुलम सिलो:ताकी
एकड़ी गोठँग कुलम लयलयताकी ।
घोल गोठँग डोनकुइ एकड़ी गोठँग डोनकुइ
घोल गोठँग डोनकुइ पोयोरताकी
एकड़ी गोठँग डोनकुइ गोलजो:ताकी ॥

१३२१

कोनोन मोनोन राजा देवनाथसाए आ: बेटडोम ॥२॥
हाय पाएज्कोम सोरी ईयारी जोरायोब ॥२॥

तेर गोड़े राजा बेटा तीगा: कड़म
तेर गोड़े राजा बेटा लुतुर आ: सोना
हाय पाएज्कोम सोरी ईयारी जोरायोब ॥२॥

१३२२

चिरचिठी चिरचिठी बिरुते हो चिरचिठी बिरुते
कोलेगा: ठांडोरे, हो कोले: तरता तरता बयोजगा
टीहली बयता बयता हो टीहली योता योता
रायमुली कनियां बोरोब ।

१३२३

कोनोन महा ओमपाय जो नो मां
ओमपाय भोरे गोडसि: ।
मां इघय पारो की अपा इघय पारो की
मोलोय एकड़ी खाडू काबसंग डोमसि:मोय
हायरे तुकार डोमसि:मोय ।
मोलोय एकड़ी खाडू तुकार डोमसि:मोय
रोनोब किनिर बिजोम किनिर ते दुन्दुआ
को सोधोमना ला:सि:
रोनोब किनिर बिजोम किनिर ते ॥

१३२४

हो होरे हिरापुर हो होरे हिरापुर
कुन्दु:नोम की डेलकीमोय अमा: ते
बेटनोम की तोगोंनकीमोय अमा: ते ।
हो होरे हिरापुर हो होरे हिरापुर
कुन्दु:नोम ते ओबयो-योब बीरु बेड़ा किनिर ओमपाय
बेटनोम आ: थोम तोलकायोब बांधो बेड़ा गोजलो: डांड ॥
हो होरे हिरापुर हो होरे हिरापुर
कुन्दु:नोमा: थोम बायकायोब ओ: दुवार
बेटनोमा: थोम तोलकायोब पेईठपालो ।

हो होरे हिरापुर हो होरे हिरापुर
कुन्दुःनोम ते ओबुठोब् जोंगेंम तोमलेंग
बेटनोम ते ओबजोंखोब् जोंगेंम तेरोम ॥

१३२५

अतु ताय आनजोर नोम मुगाम नोम खड़िया कुन्दुः
अतु ताय जोरमे ठांडो नोम हो होरे खड़िया कुन्दुः ॥२॥
डेलडाः पाःटो पुरते आनजोरनोम
मुगाम नोम खड़िया कुन्दुः
चुटिया नागापुर ते जन्मे ठांडो नोम
हो होरे खड़िया कुन्दुः ॥२॥
मां अपा हिरा लेखे चुटिया नागापुर
कुन्दुः नोम ते जोंगेंम तोमलेंग ऊबुठोब्
बेटनोम ते जोंगेंम तेरोम ओबजोंखोब ॥२॥
मां अपा हिरा लेखे चुटिया नागापुर
कुन्दुः नोम ते सोःतो खन्डा ओबधोखोब्
बेटनोम ते सोःतो खन्डा ओबधोखोब् ॥२॥
मां अपा हिरा लेखे चुटिया नागापुर
मोलोय गोठांग सिगकोयते सुंगुठोब
मोलोय गोठांग सिगकोय ते दाडोम तेरोब ॥२॥

१३२६

हाय हाय हिरापुर हाय हाय हिरापुर
लुसुइ डोमकी बीरु बेड़ा किनिर ओमपाय
लुसुइ डोमकी बान्धो बेड़ा गोजलोः डांड ॥२॥
हाय हाय हिरापुर हाय हाय हिरापुर
लुसुइ डोमकी ओः दुवार, लुसुइ डोमकी पेईठ पालो ॥२॥
हाय हाय हिरापुर हाय हाय हिरापुर
पाःकी तोमलेंग भन्डा, पाःकी तेरोम चुकाः ।

१३२७

हाय रोम्भो राजा हाय डकई रानी
आनी से चोनानिंग आनीयाः पुर ॥२॥

आनिया: पुर को डा: उसलो: जला जपीडपुर
आनी से चोनानिग आनिया: पुर ॥२॥

हाय पोनोमोसोर हाय गिडींग लेरंग
उतुननाभेरे उतुनोब गामनाभेरे गमोब
आनी से चोनानिग आनिया: पुर ॥२॥

हाय कोंगकोवा: माला हाय अंगरीया: मु:धी
हाय मरा: कलगा, हाय लुकूई जोनो:
हाय जो: डोडेम, हाय मुठय डोडेम
हाय लुलूंग डोडेम, हाय कुन्दुम डोडेम
आनी से चोनानिग आनिया: पुर ॥२॥

हाय जोरमे ठांडो हाय कुन्दू: हकोन
हाय लुलूंग डोडेम, हाय कुन्दूम डोडेम
आनी से चोनानिग आनिया: पुर ॥२॥

१३२८

मामू जोई पिडां ते ई जरांग २
मामू जोई पिडां ते ई जरांग २ ।
मामू जोई ऊजे:गा नो किमिन कुन्दु: हेके ॥२॥

१३२९

अपाईज आ: ओ: दूरा भिली मिली भका मका
हाय दाईया बिजली लेखे तारकेलेंगता कुलम रे ॥२॥
खुंटो जो सोना: खुंटो तेलोंग जो सोना: तेलोंग
हाय दाईया बिजली लेखे तारकेलेंगता ।

१३३०

गोडभुंग संगोड संगोड
योयोज लुआ रा: रा: ॥२॥
लुआ रा: रा: नो मां घोल लो:खा
मोहकेता ईकड़ी लो:खा मोहकेता ।

(३१८)

१३३१

नोला नोला मेरोम गुपाः
मोलोय इकड़ी पेरवां ते योयोब नो उम्बो ॥२॥
योना को योयो ला
अण्डारी पण्डारी दरू ते डोकोकीमोय
मोलोय इकड़ी जोड़ा हराः दरूते डोकोकीमय ।

१३३२

कोनोन मोनोन चवड़ा नो मां
मुजडाः साः लेदेम लेदाः ॥२॥
मां गाः बोरोल बोःताय अपाः
बोरोल बोःताय नो मां ॥२॥
कामकोन गाजकोन ओबओंगीज मां ॥२॥

१३३३

जोड़ी जोड़ी कोनसेल
डाः ओलना चोलताकी ॥२॥
जोड़ी जोड़ी कोनसेल डाः ओलना चोलताकी
रोमोड डाः गुरता रोमोड डाः लेंगेता ।
धांय से ला कुलामिंग मां ते ओबडोरेम अपा ते
ओबडोरेम ईंग उमींग चोना रोमोड डाः लेंगेता ।

१३३४

सीसी लो डांड ते तीडेइल बुदा पोडकी
कोनथेड डोकोना चोलकी ।
काः ओले मां कोम ओले मां
कोनथेड तरना नो चोनेंग मां ।

१३३५

काकडोम भतिजा डोमाः बेटडोम नो मां जोई
ओसेल २ धोती ओसेल २ गमछा ।
ओसेल २ लुतुइ नो मां जोई

तारदी लेखे सलगाय गा डेलता
तारदी लेखे सलगे गा डेलता ॥

१३३६

कोरकोःटा किनिरते लीला खजर तोरोः गा चोलता
तारे सोबरेयेबर ऊबर गोली ऊबर पाएजकोम तारेबार रे,
तिः ते काः कोम तारान ते बन्दुक नो ऊबर
पाएजकोम् ऊबर गोली तारेबार रे ॥

१३३७

हाय रे जटा गोसाईं, दुरा ते डोकोकिम
हाय रे जटा गोसाईं, दुरा ते डोकोकिम
तेर गोड़े किसड़ो डाय कोमसोर रुमकुब कोड़ाऐजाः दाईल ।
ईइंज किसड़ो डाय कोमसोर रुमकुब कोड़ाऐजाः दाईल ईइंज
ईंज डेलकंग कन्डाय आः मलाः बोंग ।

१३३८

सेमड़ी दाः ते ऊंगुल हरा ऊंगुल हरा
राः राः गाः मलाः बोंग रास आः
मलाः बोंग, मोयना ऊंगुल हरा ऊंगुल हरा डोकोतम ।

१३३९

मामी जोई बन्धो तुताते ई जड़ांग जड़ांग
मामी जोई बन्धो तुताते ई जरांग जरांग ।
भगीना बहाः जोड़े कयोम्माः हरे कन्डाय भगीना
बहाः जोड़े कयोम्माः हरे कन्डाय ।

१३४०

खिरोम पारोवाः सोमधी नंग मां जोई
हो सोमधी उम्ब गारोः डेलता ।
साबन भादो आः गोलांग मां जोई
हो गोलांग लोरोःनो गोडकी हो गोलांग पचेनो गोडकी ।

(३२०)

१३४१

बीरोम बो: डा: डेलता कनडाय कुण्डु बोकोबा:
सुन्दरोम नो सुडता ।
लुतुय धोगे बाबु छाता धोगे कनडाय कुण्डु:
बोकोबा: सुन्दरोम सुडता ।

१३४२

श्रोमपेंग लामे आजी ॥२॥
इंग चोनांन किनिर नो लामलाम खजारा: बबकेता
कोम इंग नो तुंजोज ।
ठो: गोडकी केलोम बो: कुर्लाभिगते भा:टा डेजता
डेजता कुर्लाभिगते डालोज गेधनी ई योकोन लेंगताम ।

१३४३

सेम्बो राजा अरेकी हेडुंग ठांडो अकय किनीर ॥२॥
हेडुंग हेडुंग जोहारओ पोनोमोशोर अपाते
हेडुंग हेडुंग जोहारओ बेडो लेरांगते ।
सोरीते सो:तो खण्डा सोरीते बसाली गाय
अंजोरो: हेडुंग ठांडो अकय किनिर ते ।

१३४४

सा: कमना चोलकीम
ईटा पटाय बाड़ी ते चोलकीम ॥२॥
सीडीज लेखे रोठोब सु:त्रोम लेखे जीयोम
नंगते ताछोब ॥२॥

१३४५

जनाव नंग जीबडोम की ओसगाजा: अपा
कोंगको आ: जनाव नंग जीबडोम की ॥२॥
बंबोई लेरांग डाम गुडु कुण्डुनंग बसाली
गाया: विमतंग बिनधोडोमते तोलेम सूरी
कपली गाया: बिनधोडोमते तोलेम ।

(३२१)

१३४६

बोरोल लोःखाः ओः बायोब नो रे अपा
बोरोल लोःखाः ओः गुरगोडकी ।
गुरना को गुरकी अपा तंग गारोः
बायींग, पैलकोःटाः सुन्दरोम डाः तारबी
सालगे ना भेरे बायींग ॥

१३४७

डेलकी मोंय गोतिया, बेलकाये भेनतु
आराम कुन्दुः डामकी ॥२॥
ओले से रे बीटिंग लोटा ते डाः, काटा
नो गुजुंगे, आम तेरे बीटिंग बोरोल ओःना डोडे ।

१३४८

किनिर राईज तेरोब अपा किनिर राईज तेरोब ।
किनिर गोडभूंग अपा एबलॉंग गा कोनथेडाः तोरोः ऊम्बोः
लेबु जो ऊम्बोः, किनिर राईज तेरोब
अपा किनिर गोडभूंग एबलॉंग गा ॥

१३४९

ओले से रे माँ जोई मोंएँज कडम
रुमकूब तूम्बा ते सजाईंग ।
ईज को माँ चोनाईंग बसाली गाय गुपाना ॥
कोनडेंग बीरू डोईंग ओलॉंग बीरू डोईंग,
सीरि कापली गाय ईञ्जाः आरओःताकी रे ॥

१३५०

बसाली गाय आंनजोरोः अकाय किनिर मोःभीते
राय ओछोः जानमो, जानमो बोरोलनाः ।
नाव खँड खड़िया कुन्दब कुन्दब
डुलिछोः अकाय किनिर हिरापुरते डामकी ॥

१३५१

माँ जोई माँ जोई
अता ठांडो तेरोब ॥२॥
मोएँज एकड़ी बोकसेल मोएँज एकड़ी डोनकुइ
हिन ठांडो ते तेरोब अयोईंग ॥

१३५२

सामपेड़ेना रायमुली कनियाँ सामपेड़ेना ।
एला: बोर बोर कनियाँ ते डोड
कनो: की बनेडा: सामपेड़ेजे: ॥

१३५३

जोरमकी ऊलुई जोरमकी ऊलुई जबडोमकी
तुता ते पांच भाईया तोबलुंगते पोनोमोसोर जब गोठो:
दोरहो लेखे ।

१३५४

नाहिअरा: बुइ बुइ कुरकुर सोसराईर लेंग चोलकीनो ॥२॥
लेंगना को लेंग गोडकी जन्मो जिनगी डो: गोडकी ।

१३५५

अपा: तोर तोर बाड़ी मांगा: तोर तोर बाड़ी
होते ओनोब अपा गेन्धा रा: रा: ॥२॥
अपा: बोरोल बो:ताय मांगा: बोरोल बो:ताय नो मां ।
भोरे मु:लुई सोगे ले नो मां ॥२॥
अपा गोएज गोडना मां गोएज गोडना
मोने मोन बोरोल ना ले नो मां ॥२॥

१३५६

गोबिन्द साय राजा गोबिन्द साय राजा ।
अता कोचा ते अमा: पेठिया ॥२॥
मुनु:सिंग योनलो: कोचा अमा: पेठिया
बेन्दोरा: पुर अपा, कन्डाया: पेठिया ।

१३५७

इरिन बुदा मुम्बो: ते रीयो कोन्थेड तोरो:ता ॥२॥
तारे से फनला बाबु मोएँज कोतेका तारे
ऊबर कोतका तारे ॥
लुगे से फनली बोई मोएँज अंचरा बूंग लुगे,
ऊबर अंचरा बूंग लुगे ॥

१३५८

तोन्डेंग आ: रा: रा: ते डोकोकी रे रूनिया ॥२॥
मुनु:सिंग ताय आरेकी कुही रो बेसेरा
रूनिया ते हरायो: रो डोथो:
रूनिया ते लोकायो: रो डोथो: ॥

१३५९

होबने तो: को ददा आय ऊते डोकोना,
आय ऊते डोकोना, गमोब नो रे ददा ।
तंग को रे ददा दारु नो छेकायोब
बीरू नो ओलेठोब ददा ॥

१३६०

मोएँज गोठंग बेड़ो ऊबर गोठंग बेड़ो
हारे बेड़ो ऊरूम डा: ला:ता ।
मोएँज गोठंग लेरंग ऊबर गोठंग लेरंग
हारे लेरंग बिजली लेखन तारकेलेंगगा डेलता ॥

१३६१

तोरेज बोंग कुन्डा बोंग बुईयोएज नो रे बेटींज
ओमपाया: भिला लेखे योताम रे बेटींज ॥
पिन्डा: फोंकटा ते एन्डुगेरो घोयेम सेरे बेटींज
ओमपाया: भिला लेखे योतम रे बेटींज ॥

१३६२

भगा: भजपुर ताय आरेकीपे रे मानोवा
किजते डिसा: ते बाजा नो सोधोमता
किजते डिसा: ते बाजा नो ओन्डोरता ।

(३२४)

बेटा जोई जियोम नोमते आबु होबरोजे
ईज बेटाईज दीरोम बो: कराईग बीहा
ईज बेटाईज कराईग शादी ।
अपा जोई ऊमने महा बरातिया ते बेहार समढाये,
ईज अपा आवनाईज जन्मो डिन्डागा ।

१३६३

मामी जोई, मामू नाईज को अतु गारो: चोलकी ।
डोकोनासे भगिना पिन्डा ते डोकोना
जोरेल डा: ते डोकोना ।
मामूनोम को बेन्डे लो: ते मरा: तारना चोलसी: ॥

१३६४

मुरून दारू ते पियो कोन्थेड तोरो:ता ॥२॥
ना लागे पीयो ना लागे कोन्थेड
कीमिन कुन्दु: भमर भमर डेलता ।

१३६५

चुंगडा: गोड्भूंगते योयो डाय कन्डाय
उसल तोल तोल कन्डाय रूपा तोल तोल कन्डाय ॥२॥
उसल तोल तोल कन्डाय नो मां
जुवा एबो:गा डेलता तारवी सलगाय गा डेलता ॥२॥
तारवी पाबतार गा डेलता नो मां
ईञ्जा: ओ: भोरे युंडे नो ईञ्जा:
ओ: ते मोबलीडे ॥२॥

१३६६

अदङ्गे ते आर्वाकिंग दियोम मां गा: पंगोड् ते
दियोम अपा: पंगोड् ते ।
अब को दियोम भांक आ: लौवा ते
केज घलो: की भांक फेकायो: की ।

१३६७

लेरेंग को मुःरेल गोड्की
लेरेंग दिरोम दिरोम ॥२॥
कुलमडाय को फनली कुलमडाय
नीम दाह सुम्बोः ते तोगोंन गोड्सिः
लेरेंग दिरोम दिरोम ॥२॥
बाबू को फनला बाबू कायर दाह
सुम्बोः ते तोगोंन गोड्सिः
लेरेंग दिरोम दिरोम ॥२॥

१३६८

सासिया बंगसिंगाः बेर नारा पिजते
बेर नारा पिजते ।
बाबू रे जगन सींघ, बाबू रे भूमन सींघ,
होकड़ नारा पिजते ॥२॥

१३६९

बाः जुरबाय जुरबाय कोनसेल
बाः जुरबाय जुरबाय कोनसेल एड़ी धमकायते ॥२॥
किनकर योता योता कोनसेल एड़ी धमकायते
सासूर योता योता कोनसेल एड़ी धमकायते ।

१३७०

माँ जोई कलीकत्ता देशे इकुड डिसाः ॥२॥
ऊबडूः ते गंगा हिवुडूः ते जमुना
मोःभी ते रूसूंग भन्डा सुमोः
माँ जोई मोःभी ते रूसूंग भन्डा सुमोः ।

१३७१

ओले बींटग डाः, ओले बींटग डाः
डिसाः ताय डेलताईंग बींटग बेतोड डाः ताईंग ॥२॥
डोईर जो तेजकी कुयू जो पाःकी
अना अपा लौरेंग डाः ऊड डेनाम ॥२॥

(३२६)

१३७२

भिमिर भिमिर डा: नो डेलताएज
बरिया कुलमडाय नाईज सुडना
ला: सि: कियार ॥२॥
अपा जोई अपाईज आ: मुरुख
छाता जो नो ऊम तेरते ॥२॥
कुलम जोई कुलामिगा: सपूत
छाता धो:ता धो:ता धाँयना ला: सि: ॥२॥

१३७३

अता बोगा: अरब डू: कुन्डू: बोर ते रुगुंम डा:
हारे दाईया बोर ते रुगुंम डा: ।
माँ आवना ला: को गाम गोईंग हा:नी
अपा आवना ला: को ओब ओन्डोर गोईंग हा:नी ।
बोर ते रुगुंम डा:
हारे दाईया बोर ते रुगुंम डा: ।

१३७४

अता गोडभूंग डेलकिम ला पाएजकोम
हो गोडभूंग ते कोन्थेड तोरो:ता ला पाएजकोम ।
तोड़ी या: राजा कुन्डू: लम लम एबो:ताएज
चाँवरसी सोधोमता घनर घनर ला पाएजकोम
चाँवरसी सोधोमता घनर घनर ।

१३७५

बिड़होएज रे बिड़होएज कोन्थेड
देलका तुता ते बिड़होएज आन्डातेम ॥२॥
खापु रे खापु कोन्थेड
खापु कोन्थेड ओ: जोलोमतेम ॥२॥
लिपी रे लिपी कोन्थेड
लिपी कोन्थेड तोबलंग लेंगता ॥२॥

लिपी रे लिपी कोन्थेड
पोनोमोसोर आः कून्डूः म्मयडूःतेम ॥२॥

१३७६

रन रन बड़ोम रन रन बड़ोम
बीरू सुम्बोः सुम्बोः घोड़ा ओब धायोः ॥२॥
मुगाम मुगाम पाएजकोम होकड़ाः
कुन्डब ते पालकी धायते
होकड़ाः कुन्डब ते रेशेम धायोः ॥२॥

१३७७

ईःफोन कुलम की ॥२॥
ईःफोन कुलम की हानतिज ऊतीज कीमोय ॥२॥
रुसूंग रुसूंग बेनोवा, तम्बाः गरहाय घोड़ाको
चोलकनकी भून्डु रो टमेड़ा ।

१३७८

थाम भन कुलम की,
हक्का तामखू ते एसेम तेडेमताकी ॥२॥
मुडू एबलोंग कुलम को
बन्दूक ते तुन्डूर गोठोः ॥२॥
लडाए से लडाए से
ओलेड तेज डेम ऊकुब तेज
डेम लेबू जिरी ॥२॥
भिर हिरि भिर हिरि, हिरि रे
ओमपाय ते तुबडाः गोठोब ॥२॥

१३७९

बेराः गोएजलोः डाँड़ते तोलोः
बेराः ओरोएज बछर ॥२॥
अपाः गोएजलोः डाँड़ते तोलोः
महा कुलमाः ओरोएज बछर ॥२॥

(३२८)

१३८०

मोरेंगा: फुचै फुचीया

कुईजता पुडता ॥

हेले गोडना पाईलकोटा: डोंगीआ: डा:

गोयोल डा: डेना ला: सी: ॥२॥

१३८१

ओले से रे माँ जोई बासी पेए: ।

ईग को चोनाईग सीनि डेजना चोनाईग ।

माँ जोइ ईग को चोनाईग रोडकोंग डेजना चोनाईग ॥

लो:ढो को रे माँ जोई डा: डेना माँ जोई ।

भोईसी खिधोर आरेना माँ जोई ।

गोयोल डा: आरेना माँ जोई ॥

१३८२

बा: गोलेंग ऊठोब नो अपा,

गुडलू गोलेंग ऊठोब ॥२॥

मोएँज सुडुब ऊठोब नो अपा,

घोल ऊबर कायोम ओन्डोरोब;

ऊबर सुडुब ऊठोब नो अपा

घोल ऊ:फ कायोम ओन्डोरोब ।

१३८३

ओखोड बो: घीवनो माँ ॥२॥

ओखोड बो: घीव माँ

तोमोंग भन्डा ॥२॥

ईग गा माँ सुरुम, ईग गा माँ चटनी ॥२॥

ईग माँ ऊमिग आवना,

चोलकननाईग नहियार देश ते,

ईग को माँ ऊमिग आवना

चोलकननाईग नहियार देश ते ।

(३२६)

१३८४

रिगि बिगि गमछा, रगा बगा धोती
अतु आवकीम कुलम ऊमने जौ ॥२॥
अपा: भोंईस बोनतेल
अपा: ओरेज कोंगताँग
बथान ते छन्देना, तीमलेंग रोएजना
बोंग ऊमने देरी की ॥२॥

१३८५

कोइलो सितिल ते खीरोम सितिल ते
जनमो जनम डा: नो गिमते ॥२॥
पबरो गोड़े भोरा बेटा
पबरो गोड़े भोरा बेटा
इंग तेरिंग मायोंगा: चन्दवा
इंग तेरिंग कोंगको आ: मुंगा ।
इंग ईघय लाँघाईंग इंग ईघय पाबरोईंग
जोड़ी खेवा ओड़ो: नो गोडकी
जोरी डोंगा ओड़ो: नो गोडकी ।

१३८६

कोनोन २ तेनतोन दास नो माँ ।
रा: रा: गोडसि: ।
हो रा: रा: जोरोम गोडकी ॥२॥
एला: जुंग जुंग कन्डाय ते
बेर ला बिहाना लामते ।
ओडेबे से बोयो का: कोम
रो तार गोड़े ॥२॥

१३८७

गुडू रे गुडू कोने ।
तिलाई भूम भूम, तिलाई भूम भूम रे ॥२॥
बिहाल कन्डाय ।

(३३०)

दिलींग बीपीड़, दिलींग बीपीड़ रे ॥२॥
सगोई कन्डाय ।
लिहोर लोहोर, लिहोर लोहोर रे ॥२॥

१३८८

राटा टेटेंगा, राटा राटा ।
बीरु टेटेंगा बीरु बीरु नो ॥२॥
राजा कुन्डू: लम लम मु:ताएज
इना टेटेंगा जपा: जोमकिम नो ॥२॥

१३८९

अता गुड डूंगा कुटुम ।
डेलकी मोय भदड़ीब लता रे ॥२॥
ओले २ ओल ऊनो: ।
ताला: तामखु गुडलू आ: रा: रा: ॥२॥

१३९०

गुड़री तुता सुम्बो: ते
योयो: कोलोसोर चुंगडा: ॥२॥
चुंगडा: गोडभूंग ते, कोनसेल मलकेता
सिलो: डांड ते कोनघेर मलकेता ॥२॥
किनभर ते कोनसेल मलकेता
पिंडा ते कोनघेर मलकेता ॥२॥
गुड़री तुता सुम्बो: ते, इत्याबी....

१३९१

अता केल ताय डेलताम कुलमडाय ।
इकुड केलोम बो: मड़ोवा ते युंडतेम ॥२॥
बुलीकीम चलीकीम कुलम ।
सोनोरा: ढाल तरवाईर
कुलम केलोम बो: युंडतेम
कुलम केलोम बो: युंडतेम ॥

१३६२

घुड़लो: ते आर्वाकिग,
डांड ते आर्वागि,
हारे दाईया ईजां: बीपाईत बेर समदाये ॥२॥
कुलांसिग जो ऊम्बोडेज अपाईज जो ऊम्बोडेज,
हारे दाईया कुन्डबांसिग ते कोन्डोय धुकायतीग ॥२॥
बेर ईज ते लेबूइना होकड़,
आय से ऊबो: ते ठाँडो कोंगॅरो डोकोना ॥२॥

१३६३

बॅकलुईया: बेलेड दाईया ।
मुईजडा: गा: जोरोए रे ॥२॥
हाय दाईया अतु आ: भरियाकी ॥२॥
हाँथी नो सांगोडता सोँड नो साम्भडाय कोन ॥२॥
घोड़ा नो चोना ला:सि: छमर छमर ॥२॥
हाँथी नो तोलडोमसि: तपकर आ: जोरोए बूंग ॥२॥
घोड़ा नो तोलडोमकी नीम आ: हरा ते ॥२॥
हाँथी नो ज्ञां:ना ला:सि: ऊ:फ खँडी दाना रे ॥२॥
घोड़ा नो ज्ञां:ना ला:सि: दुबला जा: ॥२॥

१३६४

पोखेरा: हिड़ो ते नो माँ
दुबला जा: जोरमेकी ॥२॥
दुबला जा: जोरमेकी नो माँ
लीला घोड़ा योता योता धाँयो: ॥२॥
लोला घोड़ा धाँयो: नो माँ
योता योता राजा बेटा धाँयो: ॥२॥
राजा बेटा धाँयो: नो माँ
योता योता रानी बेटी धाँयो: ॥२॥
रानी बेटी धाँयो: नो माँ
योता योता लेंवभँवडीन धाँयो:की ॥२॥

१३६५

सुडुबनो पोठोएज माँ
रिगि बिगि सुडुब पोठोएज माँ ॥२॥
किनकर नाईज ऊःछीयोः माँ
रिगि बिगि सुडुब पोठोएज माँ ॥२॥
सासुर नाईज ऊःछीयोः माँ
रिगि बिगि सुडुब पोठोएज माँ
रिगि बिगि खोलडाः पोठोएज माँ ॥

१३६६

एलाः ओः ते कान्डराएज अनाः मनाः कान्डराएज
अम्पाः ओः ते रुसूंग रुसूंग कान्डराएज
अम्पाः ओः ते अनाः मनाः कान्डराएज ।
मोएँज पथा कूदा ।
सोंगकाय गोडे कोइरीन कोनसेल
एलाः ओः ते अनाः मनाः कान्डराएज
अम्पाः ओः ते रुसूंग रुसूंग कान्डराएज ।

१३६७

पाँगोड ते कुन्दूः बोकोब ते हडका
धाय अमाः धाय अमाः नहियार ॥२॥
एँगना एँगना रे ईञ्जाः कन्डाय
अमाः एनेम ईञ्जाः ओः युँडते ॥२॥
इघय एँगनाईज रे ईञ्जाः केन्डोर
मानोम को गाम गोठोः
घासिन आः बिजडोम
आपनोम को गाम गोठोः
चमारिनाः बिजडोम ॥२॥

१३६८

काटकोया राः गोडकी ।
भीरि हिरी राः राः राः गोडकी ॥२॥

हारे जोकोर राः राः बेड़ो मुःसिंग
नाःते जोरोम गोडकी ॥२॥
काटकोंया कोडिल गोडकी
जोकोर राः गोडकी
हारे जोकोर राः राः बेड़ो मुःसिंग
नाःते जोरोम गोडकी ॥२॥

१३६६

कोनोन मोनोन चाड़ी
मुनुःसिंग ते दूरा
होतेगा लाःसिः सोनाः कबटो ॥२॥
युगे युगे कुलमडाय सोनाः कबटो
अमाः बावनोम बेतोड बेतोड
डाः बोंग डेलसिः ॥२॥
ईघय यूगींग रे ईञाः बाबिंग ।
अमाः कुलमनोम को चोलकनकी ईकुड डिसाः
अमाः कुलमनोम को चोलकनकी डोनजांग ॥२॥

१४००

बरवाय डाँड़ ते
बेर सोनोर ढरायोः
बेर रुपा ढरायोः ॥२॥
नो आपा ऊम ढरायसिः
नो माँ जो ऊम ढरायसिः
कुन्डबाः कुलामिंगगा ढरायसिः ॥२॥

१४०१

राजा रेगाः भारो गोःना बोंग
अपाः तरन एँयाम लेंगेता ॥२॥
इघय बुयींग कुन्डूः हकोन
नागपुर ताय बीरू धार डेलकिंग
हारे दाईया ईञाः किलपाईत
हारे दाईया ईञाः ससाईत ।

१४०२

अता कोचा ते जोरमे
अता पुर ते बोरोलना
अपा जोई अता कोचा ते गोनोएज ॥२॥
कोमांग जो गले की,
जांग ते रामोएज
डोड कनोएज गंगा रो जमुना ते ॥२॥

१४०३

अता कोन्थेड कबरा चितरा
अता कोन्थेड ओसेल बेलेड रे ॥२॥
कोईल कोन्थेड कबरा चितरा नो माँ
बैकलुई कोन्थेड ओसेल बेलेड रे ॥२॥

१४०४

पेचकी पेचकी नो अपा
रांची लोहारडा: ते ओबसोंगोब ॥२॥
डेनब चोनब कुलमडाएज
घोल ऊबर भरिया ओलसानेम,
घोल ऊ:फे भरिया ओलसानेम ॥२॥

१४०५

मैना को तोरो:ता चेरे बेरे ॥२॥
मैना को तोरो:ता ॥२॥
मांएज को गामते
आए बेटिज भुलू ते डोकोना
कुलांग कलेड नुनू ऊडे ॥२॥
अपाईज को रेमा: ते
आय बेटिज भुलू ते डोकोना
सोनोर सिंगर रूपे सिंगर ओबसुईंग,
होनताय बिदा तेरिंग ॥२॥

१४०६

कोनोन मोनोन ओमपाय
कुलांग कलेड रोकेड ओएज ते ॥२॥
बॅकलुई को आरेकी काटा भुलायगा,
बेलेड भुरकायगा, पता टीपोजगा,
बोकोब डबूःगा आरेकी रे बॅकलुई ॥२॥

१४०७

ओले से रे माँ जोई हो तुम्बाः डाः
हो आलिड आरगोः ।
इंग को चोनाईंग बरवाय राजी
राजा बिहा चोनाईंग ॥
आले से रे माँ जोई ँगना तेरे ॥२॥
अमाः कुन्डूम तेगा आवनाईंग ॥२॥
गोएजनाईंग लाः को माँ जोई,
हो केलोम भ्रिलिमलि भकामका
दोरहो डिपा तेगा आवनाईंग ॥२॥

१४०८

बुची चंगडाः २ गोएजलोः नो कामूकिंग ।
गोएजलोः एनेम हिड़ो उम युंडते ॥२॥
सीयोएज लायोएज सिकिसरी बाः नो बिठोएज ।
कोलेः को हेरी जोही हेरी जोही डेलता ॥२॥

१४०९

छेछरा चाड़ी मुनूःसिंग ते दूरा
किनभर ते धर्म आः दारू रे ॥२॥
हो धर्म आः दारू राः की जही रे जूही ।
कोलेः नो हेरी रो जोही डेलता ॥२॥
तारे से आराम काः ओडेबे ।
ठोःकी ठोःकी, गूरकी गूरकी
देव ओमपाय सितिल ते ॥२॥

(३३६)

१४१०

कोंडेंगा: ओ: मां जोई
भेलोब २ पोरे पोर ।
आम्पा: ओ: मां जोई ।
जोलोम जो:डा:
हारे मां हारे अपा
हारे ओ: जोंगोडकी ।

१४११

मुम्बो: नोम कायर कुन्डुम भोरे,
कायर कुन्डुम भोरे ।
हारा नोम कायर कोनके: कोनके:
कायर कोनके: कोनके: ।
रा: रा: नोम कायर
भाका माका कायर भाका माका ।

१४१२

कोनोन मोनोन तेनतोन
बंकलूई डोकोता जोरोए जोरोए ।
बेरा: ओ: ते मां जोई
महाकी बेंटी रे ।
होकड़ा ओ: ते मां जोई
कुटुम की जोरोए जोरोए डोकोताकी ।

१४१३

सीलो:नाम बोकेर सीलो:नाम
जिरा जावा लो:ते सीलो:नाम ।
बिडेम बोकेर बिडेम
जिरा जावा ते बिडेम ।
पोडना तेरेम बोकेर पोडना तेरेम
जिरा जावा ते पोडना तेरेम ।

(३३७)

१४१४

ओले से मां बुलिईज लोःखा
भेलोब भेलोब उलई बुलिईज नाईंग ।
ओले से रे मां सोनोराः कनासी
भेलोब २ उलई ते कडींग ।
ओले से रे मां कतोर जोल
भेलोब २ उलई ते गोसोईंग ।

१४१५

साहू बिरुते सारा हारा
सेमड़ी दारू हो राम ॥२॥
कनहर नो थोका बेलते
सीनी रोडकोंगाः थोका बेलते
लेबु ते कुन्दुःसिंग बायते ॥२॥

१४१६

भाःटा बोई डेएजता डेएजता
राः राः बोई ओनोएज
हो राः राः महाकी हो राम ॥२॥
सोंगकाये मां जोई सोनोराः डबनी
डबनी डाल दुईंग तोमोड मुंवाय दुईंग
हो राः राः घांड़ी लाःता
राईज राईज घांड़ी चोलता हो राम ॥२॥

१४१७

तीसी डांड़ते
हारे बनाय आरेता ।
बनाय जाः जो उम ज्योंःते
बनाय लुवा जो उम ज्योंःते
बनाय जाराः जो उम ज्योंःते
बनाय डाः ऊडते
हारे बनाय आरेता ।

(३३८)

१४१८

सीलोः डांडते
राहड़ी बोई बिठोएज ॥२॥
राहड़ी लोंगोएते
पंगोडाः कुन्डुः ईयामता ॥२॥

१४१९

छत्ता सोरेंग भदड़ीब लाता
गुडलूआ राः राः रे ।
ओले चूना तमकू रगदाये
गुडलूआ राः राः रे ।

१४२०

कोनोराः खरोम डाः
ईघाय केलोम कोन्थेड गामते ।
ओन्डोरेपे ईसिट कुटुम
ओन्डोरेपे पोःदा मोलोए कुलम
ईघाय केलोम कोन्थेड गामते ।

१४२१

बाईर गुंगु रे मां जोई
बाईर गुंगु विरोम बोः धमसायते ।
किनकर सासुर ते योते एंडी धमसायते
सोऊडोम ते योते मोन भीःतर मुसकेता ।

१४२२

चक चकिया बिन्डा बोकोबकेः
कोनकेः तिरियो कोनकेः कुंवा लायते ।
आजी याः ओल ओल डाः लोरेंग डाः
कुलमडायाः ओल ओल डाः गोयोल डाः ।

१४२३

हाकिम रे ईकूड बुईधयार
सिमान ते सोरेंग सुमते ॥२॥

सेर ओलते डांडी धोःते राईज ते आरते
हाकिम रे ईकूड बुईधयार ।

१४२४

हा हारे ददा कोसोर कोन्डेंगआः
कनाःसी नो बायेम ॥२॥
ईंग को, ईंग को ददा
कोसोर लारोः भेन्तु तेगा डोकोनाईंग ।

१४२५

उलाः पुःडछुड कोन्थेड ॥२॥
कोन्थेड गिताः ठांडो लामते ॥२॥
उलाः पुःडछुड कोन्थेड ॥२॥
अतु रे कोन्थेड डेरा ठांडो बोरते
अतु रे कोन्थेड डेरा ठांडो लामतेम ।

१४२६

कदम तुता राजा ॥२॥
कदम तुता राजा डेरा बोरते डेरा बोरते ।
हांथी ते सिगरायोः घोड़ा ते सम्पेड़ेयोः
चोलकनकी भुन्दु रे टमेड़ा रे ॥२॥

१४२७

राना राना साहेब ॥२॥
बिऱू सितिल ते ताम्बु ठोकायोः ॥२॥
दुबला जाः योता योता घोड़ा धांयते
घोड़ाः लोःढो राजा बेटा धांयते
राजा बेटाः लोःढो रानी बेटी धांयते
रानी बेटी याः लोःढो लेवड़ीन भेवड़ीन धांयते
लेवड़ीन भेवड़ीनाः लोःढो पाएजकोम धांयते
पाएजकोमाः लोःढो बाबु भाईया धांयते
डोकोकी नागपुर
राजा हाकिम लड़ाई करायतेकी ।

१४२८

हायरे ईंआः बंकलूई
हायरे ईंआः बंकलूई रे मां जोई
सेमडी दारू अंगुल हारा ते डोकोता ।
हायरे ईंआः कुटुम
हायरे ईंआः कुटुम रे मां जोई
जोरोए २ पंति २ डोकोतामोंए ।

१४२९

मोंएगा कुलम
बान्दुक तेको तुनडुर गोठोः ॥२॥
ईःफोन कुलमरे
हुका तमकू तनघन ॥२॥
थाम भन कुलमरे
चुना तमकू तनघन ।

१४३०

मोएंग जन्म मां कुन्डुम
मोएंग जन्म अपा कुन्डुम
जन्मो जन्मो केन्डोर कुन्डुम ।
मोएंग जन्म कका कुन्डुम
मोएंग जन्म मिईज कुन्डुम
जन्मो जन्मो केन्डोर कुन्डुम ।

१४३१

बिरू तोबल्हंग ते मां
तिसी बिठोएज ॥२॥
मेतनोंग सीलोःता
बर तोनोंग सीलोःता
हो ओः तेगा बेटा तेरींग ।

१४३२

मागाः ओन ओन गेंधा
अपाः ओन ओन गेंधा

रूसूंग गॅधा केलोम झूडते
मां गोएजकी
अपा: गोएज गोडकी
रूसूंग गॅधा केलोम झूडते ।

१४३३

केशेल दामेईर रे मां जोई
खजर अरजो:ता
सेलहोब अरजो:ता ।
आंड़ीज खजर आंड़ीज सेलहोब
दुलुक दुसा आराम नो डेलता ।

१४३४

सोरेंग तोबलुंग ते डा: पभरेता
डा: पभरेता ॥२॥
बुई बुई पेरवां लोका लोका
लोरे लोरे डा: उडते ॥२॥

१४३५

किलकिला रे ओम्पाय कोन्थेड
किलकिला ओम्पाय कोन्थेड तोरो:गा डेलता ।
केनडोड आ: मला: बोंग
कडोंग आ: मला: बोंग
राटा: खुन्टो ते ढोको ता ।

१४३६

करैली करैली करैली भबरेसी: ॥२॥
मां गा: ओन ओन करैली
अपा: ओन ओन करैली करैली भबरेसी: ।

१४३७

जरा: को बेलोंगता
कोनोन भेरे बोटींग अराबड:कीम ।

दिनो धोगेम बेटींग
दिनो चलायेम बेटींग
जरा: केएज ओलेम
नहियार या: हे:जो मेलायेम ।
सुपली धो: चोनम बेटींग
टुकनु धो: चोनम बेटींग
रामु रामु जरा: केएज ओलेम ।

१४३८

कोनोन मोनोन जरा: सुम्बो:
रूसूंग रे कोले: रूसूंग रे कोले: ।
डोनकुई रे डोनकुई ॥२॥
डोनकुई सोनोर ढेलुवा एबो:ता ॥२॥

१४३९

कोनोन भेरे या: जुंग जुंग कनिय्याँ
मोन नोन कोईलता ।
कोनोन कुलम मड़ोवा बायते
महा कुलम डोली तोलते
हारे बोईनी चोलकानकी
हारे ओ: जोंगोडकी
हारे कीनभर जोगोंडकी
हारे मो:ड नाईग अँलौंगकी ।

१४४०

टुकु आ: ओलत डोकोकीम रे बान्दरा ॥२॥
मोएंग कुलमा: शीशा
मोएंग कुलमा: गोली
ठो: गोडकी रे बान्दरा ॥२॥

१४४१

थाम ईञ्जा: बाँविग
थाम ईञ्जा: बाँविग रे माँ जोई

थाम बाविंग बान्दुक धो:तेकी माँ जोई
थाम बोविंग बान्दुक धो:तेकी ।
मोएंग गोठंग बोकेरिंग
मोएंग गोठंग बोकेरिंग रे माँ जोई
हाँथी या: घड घोड़ा: घड ईयामता ॥२॥
मोएंग गोठंग बोकसेरिंग
मोएंग गोठंग बोकसेरिंग रे माँ जोई
डो:रेंग रंगाय लतुई या: घड ईयामता ॥२॥

१४४२

पोखरा जो कोसोर गोडकी
कुँवा जो अजोड गोडकी ॥२॥
हलका गा डेलता कजर कडोंग कुलम रे
हलका गा डेलता कजर कडोंग ।
सोंगकाये माँ जोई
कोनोके: सु:त्रोमा: कुमनी ॥२॥
तारींग हो कजर कडोंग माँ जोई
तारींग हो कजर कडोंग ।

१४४३

कोले: सोय सोय लुवा रे माँ जोई
भदड़ीब सोय सोय लुवा अतु कुईंग रे माँ जोई ॥२॥
ओले सेरे माँ जोई मोएंग मु:ठी काचिया
सोंगगा ओ:गा, बोरगा ओ:गा
गोंग गा ओ:गा
चोलकन नाईंग रे माँ जोई
कईलकता राईज इकूड डिस्सा, रे माँ जोई ।

१४४४

ओले सेरे माँ जोई लेहेर लेपेर गुंगु
ईंग को भुति ना चोनाईंग ॥२॥
कुन्दु: को ईयामता चेहेर चेहेर ईयामता
गो:डभूंग उतुडिंग हिनताय नुनु: ऊर्बाडंग ॥२॥

(३४४)

१४४५

बापरे अपंगआः आकिल
छत्ता उमको तेरते ॥२॥
बापरे कुलामिंगआः लेबुई
छत्ता धोःकोन धांयते ॥२॥

१४४६

हारे तोनोंग सीलोःता ॥२॥
सितिल चबड़ा ते तोनोंग सीलोःता ॥२॥
लुदुर फुदुर तोबडाः
लीसाय लोसोय बिडाः
ओने ते बोई मोन भेईर ओने ॥२॥

१४४७

सांगो सांगो आवकीनींग
मंना सांगो निग छुःटेकी ॥२॥
चूंगडाः बोःते आवाकिंग
ओः ते आवाकिंग
मंना रेमा गे रो ओलेम
मंना ठिस्साये रो ओलेम ।

१४४८

कोनकेः कोनकेः चरेखा
कोनकेः कोनकेः पोन्यो
बोकसेलिंग कोनकेः सुःओम पोयते ॥२॥
तंजकाये चिःको रे कुलम
रायमुली गामेछा
बोकेरिंग को भलेईर फुदना तोलते ॥२॥

१४४९

नोरे नोरे मेरोम गुपा
थाम जोरी पेरोवां ते योयोब नो ॥२॥

योःना को योयोएज हंःनंग
थाम जोरी पेरोवाँ ते ॥२॥

१४५०

भङ्गीआः जुता रुसूंग ओसेल
बाबु आः जुता सोंगोड़ रे
बाबु चोलता गोनमेर
बाबु भाईया रे ॥२॥
भङ्गीयाः धोती रुसूंग ओसेल
बाबु आः धोती सोंगोड़ रे
बाबु चोलता गोनमेर बाबु भाईया रे ॥२॥
भङ्गीयाः बोकोबकेः रुसूंग ओसेल
बाबु आः बोकोबकेः सोंगोड़ रे
बाबु चोलता गोनमेर बाबु भाईया रे ॥२॥

१४५१

आम्पाः गा ओः दुरा
भिल्ली मिली भाका माका
होकड़ गा सिनकोम लेखे तरकेलेंगता कुलम रे ।
मुनुःसिंग जो सोनोर संड़क
ञोनलोः जो सोनोर संड़क
होकड़ गा सिनकोम लेखे तरकेलेंगता ।

१४५२

आलूते ओनतेकी एनेम तोर तोर
डेंगञोयोएज ताछोएज
सासुर नाईंग ते तेरोएज
सासुरिंग रायता रायता लेएजते ।

१४५३

ओम्पाय सितिल २ आराम डेलता ॥२॥
कोंगएं सेरे मां जोई आराम नोम
भिल्ली मिली भाका माका आराम नोम डेलता ।

(३४६)

१४५४

कौवा नो तोरोःता पाःतड़ा ॥२॥
तारींग कौवा जांग पंजरो पिःज गोड़िंग ॥२॥

१४५५

बेटी रे बेटी मोएंगा बेटी रे
हो बेटी खोड़ी बुल्लिता, खोड़ी सोहनता ।
बेटी रे बेटी मोएंगा बेटी रे
चूंगडाः गोडभूंग चूंगडाः सोहनता ।

१४५६

बेटाईंग जीयोम नोमते आबु हेःजोयेम
अनिंग बेटा जुंगेनिंग कनियाँ
अनिंग बेटा करायनिंग बिहा रे ।
बेटा मोएंगा बेटा जन्मायोएज
हो बेटाईंग जो आवकी बुदनु ।

१४५७

कोनोन जो ईञ्जाः सोमोधी
महा जो ईञ्जाः सोमोधी
सोमोधी नाईंग ईकुड रे माईन
ईञ्जाँः सोमोधी ॥२॥
दमरी बोंग सोंगोएज
दोकरा बोंग सोंगोएज तमकू
तमकू नाईंग ईकुड रे माईन
ईञ्जाँः तमकू ॥२॥

१४५८

रिम भिमी रिमी भिमी डाः नो गिमते
तबकर तुता ते केन्डोर नाईंग सुःडतैज हो राम ॥२॥
अना केन्डोर एंगनानंग ॥२॥
तबकराः तुता ते केन्डोर नाईंग सुःडतैज हो राम ॥२॥

१४५६

रुच मुचिया केन्हेल कबटो रे
बेर रे बेर कुलम युःखोः
केन्हेल कबटो ते ।
मां गिताःता जोरोल डाः ते
अपा गिताःता कोंगलोः दुरा ते
बेर रे बेर कुलम कबटो युःखोः ।

१४६०

कासा सिगाः राहड़ी ओनोएज
कोनकेः कोनकेः हारा तँज ते ।
नहियार ते आवकीम रे कुलमडाय
सुपलीः धोःकोन
टुकनु धोःकोन धुड़ी एबोःतम ।
सासुराईर ते आवकीम रे बेटाँग
बुःभी २ गुनाय २ रोमोड डाः गुरता ।

१४६१

कयार नो मंजरेकी
कूह नो कुहूके गोडकी
घोल उबर मेमोनाः अराम
बाहुर सुम्बोः तोंगॉनकी ।
ओबसिठोः बाः रूमकुब
ओबसिठोः रूपया पोएसा
एडोः कुलम्माः जो
कुन्डुः हकोन उम्बोः ।

१४६२

बेटी को जन्मायोएज
होडोमाः घड जन्मायोएज ।
बेटा को जन्मायोएज
इजाः घड बेटा जन्मायोएज ।

१४६३

कोन्डेंग को जन्मेता
डा: बोंग रे कोन्डग जन्मेता ।
बेटी को जन्मायोएज
बारो सासेईत बंग
तेरो सासेईत बंग ।

१४६४

जन्मेसी: उलूई मां जोई
जन्मेसी: उलूई रे
जन्मेसी: उलूई मां जोई
जोड़े डोमसी: ॥२॥
तोभलुंग ते पोनोमोसोर
तुता ते मोलोए कुलम रे
लंका सोमोबोर अपा: जोड़े डोमसी: ॥२॥

१४६५

कोनोन कुलामा: घाड
ओम्पाय पारोआ: कनियाँ ॥२॥
घोड़ा ते सम्पेड़ेयो:
हांथी ते सम्पेड़ेयो:
एंगना एंगना अपा
खोड़ी ओ: ते कनियाँ ॥२॥

१४६६

रूसूंग रूसूंग ठोर कोले:
हारियार डा: बेलेड
ओहोरे उमेर कोले:
उमेर नोम चोलकनकी...उमेर नोम ।
मुनु:संग ताय डेल डेल कोले:
ओनलो: तिईज चोलकनकी
ओहोरे उमेर कोले: चोलकनकी...उमेर नोम

(३४६)

१४६७

अमा: ओ:ते आवकींग ददा जोई
भडीभेरे बोईरी आवकींग ।
आले सेरे ददा, दिनो धो:ना तेरे
आमते योता २ ददा, दुरा ते संगोड गोईंग ।

१४६८

ओम्पाय सितिल ते
डोकोकीम रे आजी जोई
कोले: गुड योकीम नोरे आजी जोई ॥२॥
किनिर मो:भी ते
डोकोकीम नोरे ददा जोई
मरा: गुड योकिम नोरे ददा जोई ॥२॥

१४६९

कानियाँ लामे हो अपा ॥२॥
ई:फोन कोना रेशेम, भबराय रेशेम
कानियाँ लामे हो अपा ॥२॥
मड़ोवा बाये हो अपा ॥२॥
ई:फोन कोना रेशेम भबराय रेशेम
मड़ोवा बाये हो अपा ॥२॥

१४७०

ढोढ़री ताय मु: मु: कोले:
हारा ते डोकोसी: ॥२॥
अना, अना, अना कोले: एला: राईज्य ॥२॥
एला: राईज्य कोले:
लुवा जरा: बेलोंगता
अना, अना, अना कोले: एला: राजी रे ॥२॥

१४७१

जुरा: रे जुरा: ॥२॥
इरिन रा: ता भबरेता हारा रे ।

बोरोल नो बिकीड ला:ता
बेळोंग नो जोंगेंम ला:ता
गवरल ला:ता तेरोम रस्स रे ।

१४७२

डा: श्रोलना चोलकीम बोई
डा: श्रोलना चोलकीम रे
थाम दुरा: कपटो ला: गोडकी रे दुलरी बोई ॥२॥
कंजी बोंग युगे बोई, चभी बोंग युगे रे
थाम दुरा: कपटो यु:डोम गोडकी रे दुलरी बोई ॥२॥

१४७३

अना अना बोई भांवरो बिरू बोई ॥२॥
भ्रिम्या तुरता तुरता बोई
दिनो धोगेनंग बोई
साका छु:टेनानांग ।

१४७४

कोनोन मोनोन मुरुन, भ्रबरेसी: हारा रे
चौड़ा ते ऊला: हिलेता ॥२॥
उडुल सितिल तोंगोंन नारे मोलोए कुलम
कुलामडाय नोमते जीते डोठो ॥२॥

१४७५

कोनोन मोनोन मुरुन
कोडेंग बुदा: लाटेईर रे
होते आईज केवरा गा रा: रा: दाईया लभेईर रे ॥२॥
बोकेरिंग गिता:ता दुराते
बाविईंग गिता:ता पिन्डाते
ईघाय सुईंग केवरा: गा रा: रा: दाईया लाभेईर रे ॥२॥

१४७६

बेहरिन बासा: रेंयत
सोना जोर ते कोंगते
चुटाड कुलामिग महा बांधो: कोंगते ॥२॥

डा: भिल्ली मिली, डा: भका माका
डा: तोबलुंग ते जता कडोंग लावकेता ॥२॥

१४७७

भाडा: इंग डेजता डेजता
अंटा नो बायोएज
ठो: गोडकी केलोम बो: कुलमते ॥२॥
तोबलुंग ते मेडरेता
सोनोर गेधेंडी मेडरेता
अंटाते योता योता मेडरेता ॥२॥

१४७८

आम्पा राईज्य रे मां जोई
बेडो, बेडो राईज्य माँ जोई ॥२॥
बेडो योलो:ता माँ जोई
रा: कोन पुरा: कोन योलो:ता माँ जोई
सिनकोम लेरंग मु:रेल ता ।

१४७९

भाड़ी कोन्थेड अ्रोतन गोलन
डुरगुड कोन्थेड ते बेरी ओबसुयोयो: मोय ।
कटा ला:को रेंगे चीनाईंग
पेनेर ला:को लेंग चीनाईंग
डुरगुड कोन्थेड ते बेरी ओबसुयोयो: मोय

१४८०

ओले सेरे माँ जोई
संग संग रंगाय डांडा:
ईंग को चोलताईंग बछरु गुपाना ।
सुडुब ते संग संग
चुका: ते जोल
ईंग को चीनाईंग बछरु गपाना ।

(३५२)

१४८१

टुकनु ते लाट्टा आईज
भांडा ते डा: आईज
अना गोनमेर छमेड़ा लोंगोए ।
दोसी किया: डांङते माघा बिठौएज
अना गोनमेर छमेड़ा लोंगोए ।

१४८२

तोबलुंग ते लेरंग, तोबलुंग ते बेड़ो
अबु गिाङ्ग उरुम डा: ला:ता :
मोएँग गोठंग लेरंग मोएँग गोठंग बेड़ो
अबु गिाङ्ग उरुम डा: ला:ता ।

१४८३

बिहू सितिल ते सीलो:कीम रे दादा
लीली रे लीली रे गामतेम रे दादा
लीली रे लीली रे गामतेम ।
कलीकत्ता शहरते तेरोब नोरे दादा
अनरगी को सोंगोल को उला: को गर्मतिंग ।

१४८४

कासीरा: डा: को
आरेता सेमड़ी कोचा सेमड़ी कोचा रे ॥२॥
हो डा: को हिलो डोलो
पोईन हिलेता ॥२॥
कडोंग नो डेबताकी
कोचा कोचा ई:फोन कोचा रे ॥२॥

१४८५

कोंडेंग ते ओनतेकी
मोतिब बरतिब ओनतेकी ।

कोंडेंग नो पोड गोडकी
सारा हारा रे गेरवां कुलम डेरा बोरते
गेरवां कुलम बासा बोरते ।

१४८६

बोकेरडोम सीलो:काएज डेलता
पिन्डा ते डोकोता चुंगुर मुंगुर ।
आजीडोम को गामते
बेरोडना बोकेर होन लोटा गा: डा: रे ।

१४८७

अरजो:ना: खजर ॥२॥
सीलो: लो: ते अरजो:ना खजर ॥२॥
डा: उडे खजर ॥२॥
भिली मिली भाका माका
पोखेरा गा: डा: उडे रे ॥२॥

१४८८

खिरोम सितिल ते संखो सितिल ते रे मां जोई
लेंग लेंग कडोंग ते तरते मां जोई
लेंग लेंग कडोंग ते तारते ।
तुता दोरहो कुमुनी
तोबलुंग दोरहो भिमोरी रे मां जोई
आतु चोनम रे कडोंग रे मां जोई
आतु चोनम रे कडोंग ।

१४८९

आबु गीलेम दादा, आबु लेजेम आजी
ईडिब भेरे बेरा: बुरा चोनाईंग ॥२॥
आले सेरे दादा, आले सेरे आजी
मा:घो लेरांग डामना तेरे
लोरी डेबनाईंग रांची चोनाईंग

गाड़ी डेबनाईंग भोटांग चोनाईंग
जहाज डेबनाईंग आसाम चोनाईंग ।

१४६०

गाय नो अरञ्जों:ता चाव चाव ॥२॥
भंस नो अरञ्जों:ता ओम्पाय ओम्पाय ॥२॥
तोले से महरा छन्दे से महरा
कड़रू बछरू नुनु: घड तोरो:ता ।

१४६१

चीरो राजी बेंटी तेरोएज
चीरो छेकाते ॥२॥
मुगाम २ घोड़ा: होकड़ा: लो:ढो बरतिया
होकड़ा: मो:भी ते कुलमडाय डेलता ।

१४६२

सीलो: डांडते डोकोसी: गोसाईं बेटा ॥२॥
ना लागे गोसाईं, ना लागे जोगी
कुन्डाबा: कुलमगा डोकोसी: ।

१४६३

मुईंग कायर ओनोएज, उबर ठंग ओनोएज ॥२॥
हो कायर महाकी बगंचा रे हांसा जोरी ॥२॥
मुईंग बेटा जन्मायोएज, बोरिया जन्मायोएज ॥२॥
हो बेटेंज डोकोकी सोनहोर रे हांसा जोरी ॥२॥
मुईंग बेंटी जन्मायोएज, बोरिया जन्मायोएज ॥२॥
हो बेटेंग डोबकोयो: कुटुम रे हांसा जोरी ॥२॥

१४६४

डुरू डुरू कनियाँ ॥२॥
कनियाँ ईघाय बदलाईंग ।
डुभा ला:को बदलाईंग
छीपी ला:को बदलाईंग
कनियाँ ईघाय बदलाईंग ।

१४६५

बुदनु लेखे आवकींग...मां जोई
बेरजो उमोएँ जुंगो:...मां जोई ।
भनखा डा: ओलोएज...मां जोई
घोल कुटुम जुंगतेकी...मां जोई
एकड़ी कुटुम जुंगतेकी ।

१४६६

केलोम केलोम बेटा जन्मायोब,
केलोम केलोम बेटा जन्मायोब...हायरे हाय
ईना ईना अपा सोना गीर्बनिंगतेम
ईना अपा रूपा गिर्बनिंगतेम...रे ।
बेटी ला:को सोना गीर्बनिंगतेम
बेटा ला:को रूपा गिर्बनिंगतेम...हारे हाय
ईना ईना अपा सोना गीर्बनिंगतेम
ईना अपा रूपा गीर्बनिंगतेम...रे ।

१४६७

उमने महा पो:दाते
बेरजो उमोएँ सभा डोकोता हारे हाय बईया ।
दियोमा: जोल को
दियोम ते आव गोडकी...हारे हाय बईया ।
किया गा: सुन्दरोम किया ते आव गोडकी हारे हाय बईया

१४६८

भिल्ली मिली मड़ोवा ते डोकलो गे...मां जोई धुनु मुनु रे
उमिंग जो गाम टुसी: तोमलेंग आ: गिनिंग ॥२॥
तोमलेंग गिनिंग रे मां जोई
डो:रेंग लुतुई रे
पटी पटी, सुयेम रे मां जोई तोमलेंग गिनिंग लुतुई रे ।

१४६९

होमने तो: को मां जोई
सेईरगा उला: लेखे गोच्छा २ उनोब ।

तङ्ग कोरे मां जोई
खोलडा: मुडुब लेखे
फेकाय नो गोठोब ।

१५००

चोलताएज बेटिंग चोलतैज
अलम डा: २ बेटिंग चोलताएज
गिडिंग २ बेटिंग चोलताएज ।
छु:टेकी बेटिंग छु:टेकी रे
आयो कुनडुम बेटिंग छु:टेकी रे
अया: कुनडुम बेटिंग छु:टेकी ।

१५०१

केरा ते श्रोनतेकी पंति पंति
मुनुगा लेखे लभाईर ॥२॥
अपैज नो बिदाते
आयोइंज नो बिदाते
बिदातेमोए पंच भाईया ॥२॥
ददंग नो बिदाते, अजींग नो बिदाते
बिदातेमोए पंच भाईया ॥२॥

१५०२

कोनोन जो श्रोमपाय, महा जो श्रोमपाय
हाय दाईया ईंगते बेहार पाबरोए
हाय दाईया ईंगते बेहार पाबरोए ।
ददंग जो उम्बो:डेज, अजींग जो उम्बो:डेज
हाय दाईया ईंगते बेहार पाबरोए
हाय दाईया ईंगते बेहार पाबरोए ।

१५०३

सीसी लो:ते संगोडकींग, मरचा लो:ते संगोडकींग
ददा जोई कटा लोयो ला:की ॥२॥
तुनबो:ते संगोडकींग, मो:भी तो:ते संगोडकीम
ददा जोई कटा लोयो ला:की ॥२॥

१५०४

बरोआय जशापुर ताय डेलताकी बरतिया ॥२॥
हाय किःते डिसाःते डेडांग नो सोधोमता ॥२॥
अप जोई उमने बरतियाते बेहार समदाये ॥२॥
ईंग औ अपा डिन्डा गा आवनेज ॥२॥
बेटेग जीयोम नोमते आबु हेःजोयेम
ईंग बेटा कराईंग बिहा ।

१५०५

आयो आबाः कुनडुंम ते आवकींग मे आयो
जोड़ा २ मुरली जोड़ा रतु मे आयो ॥२॥
ओः भीःतर बाः रुमकुब
बहेर ते ओरेज मेरोम
दुरा ते ओसेल घोड़ा
उते आतु डेरा रे, उते आते बासारे
रोएँ रोएँ मुरोली, रोएँ रोएँ रतु आयो मे ।

१५०६

अतु ताय दुरंग आरेकीपे रे मनोबा
अता बोःते अम्पाः जोरमें ठांडो ॥२॥
रोःडाःपुर ताय आरेकीपे रे मनोबा
हिरापुर ते अम्पाः जोरमें ठांडो ॥२॥

१५०७

ओहोरे हिरापुर, ओहोरे हिरापुर
कुन्डुः नोमकी डेलकीले अमाः ते
बेटनीम की तोंगोनकीले अमाः थोम ।
ओहोरे हिरापुर ओहोरे हिरापुर
कुन्डुः नोमते ओबयोयोब बिरू बेड़ा
बेटनीम ते ओबयोयोब गोजलोः डांड ।
ओहोरे हिरापुर ओहोरे हिरापुर
कुन्डुः नोमते ओबयोयोब तेरोम तोमलेंग
बेटनीम ते ओबयोयोब निरंग डाः ।

(३५८)

१५०८

ओले सेरे माँ जोई मोएँज चेपुड रुमकुब
तुम्बा ते धोँगिग
ईंग को माँ चोलतेंज बसाली गर्ध गुपाःना
ईंग को माँ चोलतेंग भेंसी गुर्फःना
बसाली गाय चोलकीमोंए तोनडेंग डांडते
तोनडेंग बेडा ते भेंसी को चोलकी मोंए कांसा बोरहोते ।
ईना नो बेटेंग तमा जाऊ उम योःतम तमा जाऊ उम डेलतम
उमने जेलोंग जाऊ बसाली गाय गुपाःतम
उमने ईडिब जाऊ भेंसी गुपाःतम ।
ई ईंग नो माँ जोई तोनडेंग केकेः उईजना ॥२॥
बेडोः योलोः की
बेडोः जो मुःसिंग की केकेः जो हेलायोएज
मोएंगा भेंसी ते ओएजमी डिंग ।

१५०९

कोलेः लेखे रे जीयोम,
लोःखा पिजिरा ते लिसाय लोसोए ॥२॥
अले सेरे जीयोम गोएजना तेरे
उ दुनियाः बाः रुमकुब, सोना रुपा
भाडी तेगा मेलायेम ।

१५१०

ईंग को २ माँ जोई, राजा बिहा चोलतेंग ।
अलीउ को तेजकी, अरगोः जो पिजकी
माँ जोई एंग नेंग नो उम्बोः ।
एंगनेंग लाः को माँ जोई
रुअम नेंग ते योयेम
गोएज नेंग लाः को शोरो समुद्र ते मिलेनेंग ।

१५११

कची बंगेला बयोब नोरे अपा
कची बंगेला धासे गोडकी ॥२॥

(३५६)

बायना को बायईंग ॥२॥
पाईलकोःटाः निरंग डाः
दीयोम सलगेना दिनो बायईंग ।

१५१२

कोनोन जो ओमपाय महा जो ओमपाय
हाय दाईया ईज ते बेर पाबरोये ।
अपाईज जो ऊम्बोःडीज भाईज जो ऊम्बोःडीज
हाय दाईया, ईज ते बेर पाबरोये
हाय दाईया भाड़ी भाईगा पारोना नींग ।

१५१३

डेनेब डेब हिनते बाः रूमकुब रोःकी
किमीन की कायेबर आबुगा मेलयबर ।
मोएँज कोनचा नो ऊबर पथा होयना
किमिन की कायेबर आबुगा मेलयबर ।
बसाली गायते अंजोर ते ओनतेले
गोला ओरेज डेबना ऊम पालते
लुलूंग गा तूफांग गा ओडेब तेले
किमिन की कायेबर आबुगा मेलायबर ।

१५१४

उमडा बिरू ताय आरेकिम रे ददा
कोड़ी ते रूतुः नोम रे ददा ॥२॥
तिरियोः आः रूतु नोम
एरेंडीयाः डांङाः नोम ओन डोडेम नोरे ददा ॥२॥
पाःटो गायना नोम बन्डी भेंसी नोम ते
ओन डोडेम नो रे दादा ॥२॥
डेडेंग ठोःता हारा पिजता
काटा ठोःता सोरेंग पाःता
ओन डोडेम नोरे दादा ॥२॥

१५१५

दोरोहो डा: मां जोई ॥२॥
दोरोहो आ: डा: मां जोई
भिल्ली मिलायता
दोरोहो: डा: मां जोई
भाका मकायते ।
पाईला: तुता ते कुल्लु रानी नो मां जोई
डुंगडुंग राजा बोंग सुमांग की ।

१५१६

तोन्डेंग रारा: लेखे योकिम रे बेंटिंग
बड़ोम बेंटी लेखे योकिम रे बेंटिंग ॥२॥
ससुराइर चोलकीम रे बेंटिंग
ईयाम गा तोरो: गा चोलकीम रे बेंटिंग ।
नहियार डेलकिम रे बेंटिंग
लेरे: गा लडा गा डेलकीम रे बेंटिंग
श्रोमपाया: धुड़ी ते एबो:गा डेलकीम ।

१५१७

तोरेज बोंग कुंडा: बोंग बुईयोज नोरे बेंटिंग
खिरोमा: भिला लेखे योकिम नोरे बेंटिंग ॥२॥
फोंगटा ते एनडु: खोएज रो योयोएज नोरे बेंटिंग
खिरोमा: भिला लेखे योकिम नोरे बेंटिंग ।

१५१८

श्रोसंगाएजा: राजा ॥२॥ बोकोब ते बोकोबके: तोलोब
कुम्बा नो डेरायोब कुन्डु: नोम भोरेकी मोंए
हिरापुर ते बोरोल ओ:ना मु:की मोंए ।
गोएजनापे सि:डनापे कुन्डु: नेंग हकोन की
जांग धो: कोन रो: जांग ठांडो डेनापे
कुन्डु: नेंग हकोन की ।

१५१६

नव राजा: नव पादहा खड़िया भाईयारे
डोकोकीम कुटुम्बा: दराबरा ते ।
पोषोमोसोर अगुर ते गुपाते खड़िया भाईयारे
डोकोकीम कुटुम्बा: दराबरा ते ।

१५२०

घिड़केता तिमसोंग आयो
घिड़केता तिमसोंग रे
हायरे दाईया बाने जीयोम गेब गोडकी ।
कोमांग गलेकी, लो:खाते मिलेकी
जांग तेको डोठो: की
भुंइयार पो:दाते ॥२॥

१५२१

घोल लो:खा कीनिर, एकड़ी लो:खा कीनिर नो मां जोई
मो:भी ते मनोवा की ईयामताकी ॥२॥
घोल लो:खाते डा: एकड़ी लो:खाते डा:
मो:भी ते मनोवा की ईयामताकी ॥२॥

१५२२

कनियाँ जुंगना चोलकीम रे अपा:
कि:ते तो:ते एंग डेलकीम रे ॥२॥
कनियाँ जुंगना चोलकीम रे अपा:
घोल उबर लेरंग ते एंग डेलकीम रे
घोल उफे लेरंग ते एंग डेलकीम रे ।

१५२३

हरियारडा: बा: मां जोई
हरियारडा: बा: रे
हरियारडा: बा: मां जोई
कोले: की आरेतामोए रे ॥२॥
अतकडा: ओ:ते आयो

महा आएजमोएँ बेटी रे
हिन कड़ा: ओ:ते आयो
लेबु की डेलतामोएँ रे ।

१५२४

गोहोम गोएजलो: ते, जावा गोएजलो: ने आयो
होडोमा: कोले: लीसाय लोसोए डेलता ॥२॥
ओगा: कोले: लेंग चोलकनकी
होडोमा: कोले: लीसाय लोसोए डेलता ॥२॥

१५२५

आतु: गोसोए बेटा दुराते डोकोसी: ॥२॥
तेर गोड़े मां जोई मुईंग पथा रूमकुब ॥२॥
ई इंग नो आयो मुईंग पथा रूमकुब
इंग को आयो डेलसी:ईंग कनिया: लोभ बोंग ।

१५२६

ओले से बोटिज डा:
ओले से बोटिज डा:
ठेइर डिसा: ताय डेलकिंग
बोटिग बेतोडडा:सोन ॥२॥
डोईर जो तेजकी
कुयु जो पा:की
आना अया लोरेंग
डा: ऊड डेनाम ॥२॥

१५२७

लोरेंग बीरू तोबलुंग ते डा: नोडी गिमते
भोड़ी ते गिमते कोयो ते तपा: ते
हाय ईंजा: अरबडु: कुन्दु: वारू बो:ते जपा: सी:
वारू बो:ते तोंगोन सी: ।

(३६३)

ऊबर एकड़ी दिनो इडिब डा: नोडी गिमते
बेड़ो जो ऊम्बो: लेरंम जो ऊम्बो: हाय पोनीमोसोर
हाय गिंड़ग लेरंग, हाय ईञा: अरबडु: हाय
ईञा: तुरसडु: ।

१५२८

तेर्लांमिग बेड़ा ते ददा, कुरू कुरू ॥२॥ दूरेता ॥२॥
तारे से ददा रूतु डंडा: बोंग अराई डंडा: बोंग
सिलो: सोंटी बोंग तारे ।

बुभौवल

- १ इचब कुन्दरी ओलकब । ई हेके ? = वंगरू ।
- २ फुचूंग रे सेलहोबे अमअः लाएज ते ऊलुई । ई हेके ? = मुरुन सुंगा ।
- ३ अखड किनिर ले मोएंग हुबनी कोबरिबाअः कोबरिब । ई हेके ? = ऊड ।
- ४ मोएंग बेटी ते जन्मे ना बोओतय गिलतेकी, मुदा सुन्वरोम लाःता लाः उमोए गिलते । ई हेके ? = कुईऊ ।
- ५ मुडु डेलकी गोतिया, तरोः की उबर ठंग खासी ज्योःना लेबुआः गोने ऊम्बोः, खासी यअः जांग उम्बोः । ई हेके ? = बालक कुन्दुऊ रो नुनुऊः ।
- ६ चोनाम लाः चोनाम कटिज इंगते, जीब टुईएः । ई हेके ? = सोनोंग, सिकरी ।
- ७ अमाः तक तुक, ईजांः जीयोम चोना आमाः कोमांग ज्योःगे की । ई हेके ? = चुटिया ।
- ८ कोन्थेड आः कुन्दुः कोन्थेड उम गाम डोमता, बुगांम लेखे रेंगेता, किडोः लेखे खेडते । ई हेके ? = कोनडोए याः कुन्दुः तिजोः ।
- ९ मुईजडाः गाः कुन्दुः मुईजडाः उम गाम डोमता कोन्थेड लेखे लेंगता, बुगांम लेखे खेडते । ई हेके ? = कुन्दुः (डांस) ।
- १० मोएंग कंडायबोः ज्योः कनते ईज कनते । ई हेके ? = चकरी, जाता, रहंटा ।
- ११ मेयाः ते ईफोन काटाः तोहोन बोःते उबर काटाः, ईडिब ईडिब ऊफे काटाः । ई हेके ? = कोनोन भेरे कुन्दुः की पागुड २ संगोडताकी, जुवान भेरे उबर काटाः, बुदा भेरे डांडाः तूजी कोन संगोडता ।
- १२ मोएंग बेटीते चोना भेरे केटोंग डोडते की एंगना भेरेए को सेंघोर ओलते की । ई हेके ? = कुईऊः ।
- १३ मोएंग बेटा डांग गोडना चोलकनता मुदा एनेम ओल, डेना ऊम पालते । ई हेके ? = कोम ।

- १४ ओसेल गाय छिरीयायते, मोघेर गाय कबतिबते । ई हेके ?
=तुनबो: रो इडिब ।
- १५ मोएँग बेटी ज्ञो:ना को पालते, ईजना भेरे को एनेम ओर्बईज उम इजते । ई हेके ? =सोंगडा:, कुमनी ।
- १६ मोएँग कुम्बा: उबर दुरा: । ई हेके ? =रोमोंग ।
- १७ गोला ओरेज: ज्ञो:गा चोलता, मोघेर ओरेज: गिता:गा चोलता । ई हेके ? =तिमसोंग रो गसज ।
- १८ नैगोम ते किडो: खेथो: मरा: चोलता गोहाईर । ई हेके ?
=बन्सी, कडोंग, फुही ।
- १९ ओ: ते तिमसोंग ला: की, ओगा: लेबु धो: डोमकी मोएँ, ओ: यारोओ: खिडकी २ । ई हेके ? =जाल, डाअ:, कडोंग ।
- २० माँ जो डुन्डी आपा: जो डुन्डी मुसनिगा: दिनो ईंग जो डुन्डी । ई हेके ? =केनडोड, डुन्डलु: ।
- २१ बेडो सेरेंगा: कोलेएज ते कोतका मेड़ायते । ई हेके ? =तला: रो कूँजी ।
- २२ मोएँग बेटा बोकोबके: तारो जोरमेता । ई हेके ? =तिडेल ।
- २३ तोबलूँग जो कबटो, तुता जो कबटो मो:भीते कबरी पठरू । ई हेके ? =मोओड ।
- २४ छेपेर छेपेर डा: ते पोठा कडोंग पुडता । ई हेके ? =लांग ।
- २५ मोएँग खासी तारो: की, उबर ठंग सोरेंग ते एँजाम होईकी । ई हेके ? =सेए: रो रमाड ।
- २६ ई चोलतम भेलोब, कोरोब सी:ना डीमसंग, कोंगेकी ला: गीले की । ई हेके ? =बुगाँम रो पोकपोको: ।
- २७ बा:छा: तोल तोल आईज केके: चोलता अरज्जोना । ई हेके ?
=बड़ोमकोए ।
- २८ मुरदरा: ई:फोन काटा, गो: गो: लेबुआ: काटा गा ऊम्बो:, योयो: लेबुआ: बोकोब ऊम्बो: । ई हेके ? =केनडोड, बुगाँम, खँखड़ा ।
- २९ एनेम बोकोब बा: लेबु दुरा: बो:ते, डोको सी:ता । ई हेके ?
=खँखड़ा ।
- ३० लांग पा: पा: तोमोड डेज डेएज होकड़ा कामू बोंग राईज चोलता । ई हेके ? =पेन ।

- ३१ बोरोल कोमांग ते रेंगोल दारू पोडता । ई हेके ? = डेडेंग ।
- ३२ तोबलूंग ते थोका तुता ते आण्डा । ई हेके ? = तोमसांग या: थोका ।
- ३३ बिहातेम ला: बिहाय, ऊमेर चोना ईजा: पसतावा अबना अमा: ।
ई हेके ? , बिडा:, गाछी: ।
- ३४ ईफोन भाईतेगा ऊनबर घुसा । ई हेके ? = खाटी
- ३५ गाय घलते जांग, जांग घलते बछरू । ई हेके ? = कुन्दु:सिंग,
अण्डा ।
- ३६ मोएंग बीरू ते एनेम गंठा: कोडेग । ई हेके ? = ऊलुई ।
- ३७ ठाक ठाकुर बुदा ठाकुर ओओ: आईज दुरा ऊम्बो:डेज । ई हेके ?
= कुसर कोवा ।
- ३८ अपडोम बेटडोमा: मोएंग गा जिामी, काठ बेटडोम आ: दोन्वो
जिामी । ई हेके ? = मुरुन दारू रो कुपुंग ।
- ३९ कोसोर दारू ते टेवा कुईजता । ई हेके ? = कोडेज ।
- ४० अखड़ किनिरते मोएंग कँडायबो: कोसडों पे: डबते । ई हेके ?
= कोने गुनु:ड ।
- ४१ लोरो: कोले: डेज डेज बेलेड । ई हेके ? = गुंगु: ।
- ४२ मोएंग कँडायबो:गा: कुन्डाब तीज गोने आवता । ई हेके ?
= भेनतु ।
- ४३ अखड़ किनिरते करहंनी बा: बेलोंगता । ई हेके ? = तारो:
बेलों ।
- ४४ मोएंग गोले बा: बोंग ओओ: भोरेना । ई हेके ? = बिजली
पतर ।
- ४५ कुब कुबी कँडाय बो: किनिर डेजते । ई हेके ? = गनअड ।
- ४६ मोएंग कँडाय बो: मोएंग कुण्डुम अनरगी ओओते । ई हेके ?
सांगगोल रो ऊ:छूंग, चलहा ।
- ४७ मोएंग पो:दा: बोकोब मोएंग गा । ई हेके ? = चुंगडा: ।
- ४८ मोएंग ओरेज मोएंग बीरूआ: घास ओ:ते, मोएंग पोखरा: डा:
ऊडते । ई हेके ? = कोनोय ।
- ४९ रोडकोंगना भेरे मोएंग ओरेज ला: काएजना भेरे उबर ओरेज ।
ई हेके ? = अनरगी ।

- ५० उबार ठाँग घोड़ोड लाः मूडूगा डेबडेबलेबू । ई हेके ? = नयगोमाः
चेपूआ ।
- ५१ मोएँग कँडाय बोः किन्द्रे किन्द्रे इजते । ई हेके ? = चकरी ।
- ५२ अखड़ किनिरते एनेम जुःडआः पोड़ोब । ई हेके ? = पुडूब ।
- ५३ ठेब कोनथेड आः बोकोब ते कोमाँग । ई हेके ? = सोसो ।
- ५४ मोएँग दारूते डँडागाः डँडाः । ई हेके ? = बनायडँग ।
- ५५ मोएँग दारू ते ढेलकाः ढेलकाः । ई हेके ? = कुलाब ।
- ५६ मोएँग दारू ते कानासी आः कनासी । ई हेके ? = कोरोंजो ।
- ५७ मोएँग दारू ते कुयू आः कुयू । ई हेके ? = लुवा ।
- ५८ लोरोः भेड़ी भाड़ी पोखरा आः डाः उडते । ई हेके ? = सोंगडा ।
- ५९ लोरोः भेड़ी डाः उडते । ई हेके ? = लूनडा ।
- ६० मोएँग पथा आः लेढा जाँग ते कोलना पालेम । ई हेके ? = सिन-
कोम ।
- ६१ भाड़ीः आः डँडाः गेबता मुदा महरा डँडाः उम गेमता । ई हेके ?
= गाय गोडभूंग ।
- ६२ तील तील रुपया पुर लड़ेना चोलता । ई हेके ? = पोड़ोब ।
- ६३ मोएँग कँडाय बोः बोकोब केए कोन डोको सीईता । ई हेके ?
= गोगड़ींग कुयू ।
- ६४ टीरी टीपी गाय आः मोएँग भन्डा जोल । ई हेके ?
= कतोर ।
- ६५ सुँग सुँग मेरोम ओग्रोः बुलीता । ई हेके ? = पथा ।
- ६६ मोएँग बेटा अबोड़ो भरे कोपेड सीःते, लाः जवानता ताय
आँग सीईःते । ई हेके ? = लनडाम ऊलाः ।
- ६७ अखड़ किनिर ते बर्छा सुमडोम आः सुमडोम । ई हेके ?
= कोलेड ।
- ६८ मोएँग बेटा, पटी पटी लुतुई सुते । ई हेके ? = कोलेड ।
- ६९ ठुनठी जोनोग्रोंः कुडा बोएजते । ई हेके ? = मेरोम लेंडी रो
पताः ।
- ७० तड तड बकरा तोबलूंग माँग सीःते । ई हेके ? = नरा ।
- ७१ दँग दूंग कबैज कुबूईज । ई हेके ? = जौलवा ।

- ७२ मोएँज लरंग डींगना धात्रे धांइध गुरगुरायता । ई हेके ?
= चरखाः ।
- ७३ मुगाम मुगाम बँकसुई लाः कुन्डाब तीज ठोर, हिन कडाः
कुन्डाब तीज' मुरुम । ई हेके ? = ओरेज, रो सिनी रो,
सिलोः लेबू । ॥
- ७४ गोडभूंग ते मोएँग ओखड़ी माड़ाय डोमगा चोलता । ई हेके ?
= हाथी पाँज ।
- ७५ चोनाम गुगुं, डेनाम गुगुंः डाः ते बोतोंगता गुगुंः । ई हेके ?
= जुता ।
- ७६ अखड़ किनिर ते मोएँग बाःछ्या तोलडोम सीईःता । ई हेके ?
= कुसर ।
- ७७ भोलय कोने दारू डेबता । ई हेके ? = कुरसाय ।
- ७८ ऊतेगा अबनाम रोद रोदो डूंग डाँग तोलना चोलतेंग । ई हेके
= भूडोंग ।
- ७९ डाँगसी कोनसेलडूगाः इकुड कुन्डूः । ई हेके ? = कोमडोल ।
- ८० मुडू बेटा आः ऊःफे गोठांग नुनू आवता । ई हेके ? = ऊःछूंग
(चुलहा) ।
- ८१ मोएँग कोनघेर आः थाम एकड़ी भूनूर । ई हेके ? =
सोड़ोम लूकू ।
- ८२ रंन रंन घटी सोनाः पेटा । ई हेके ? = तेरोम ।
- ८३ बनसी डांग टीयूल नो काई पोडोम फू । ई हेके ? = ईजथांग ।
- ८४ मोएँग डेलका ने घाम गोठांग टोंका । ई हेके ? = मोड, लुतुर ।
- ८५ तेली याः गाड़ी रो तोमकुई याः बाड़ी रो चिःको याः बाड़ी
मोएँग बाड़ी । ई हेके ? = दियोम ।
- ८६ हाथी पाँज ते लेरांग गुरगुरायता । ई हेके ? = कोलोंग ।
- ८७ लिब लिबी ऊलाः केलपुर बुलीता । ई हेके ? = चिट्टी ।
- ८८ अपडोम अः बिहा ते बेटडोम कुईजता । ई हेके ? = सेरिगा
लूकू ।
- ८९ मनोम को बोई, मोएँग ते ऊबर बायना चोलसीः । ई हेके ?
= मासो दाईल पाःना ।

- ६० अपनोम को बोई, आपईज को तुतगा: जे तोबलुंग ना ओडो:
तोबलुंगा: जे तुबता न चोलसी: । ई हेके ? =सिलो:ना चोलसी:
- ६१ ए तील, तील, ई लूकु, ढेंको गा: डेलताएज बेर गामतेज
सुढा: गोएजकी हिनकड़ । ई हेके ? =आरू, बड़ोम कोय,
बंठी, भाँख ।
- ६२ ए लुर लुर ई एंज तोम, बोतोंग, बोतोंग, आम तेगा बोतोंग,
ईंगते ईडु: बोतोंग । ई हेके ? =बुगाम रो सिडिज ।
- ६३ रू: रू: चपाल करकरायगा चोलता । ई हेके ? =पेंडेड ।
- ६४ मोएंग दारू ते मँदड़ी या: मांदड़ी । ई हेके ? =कनठड़ा ।
- ६५ मोएंग कोनसेलडू: जन्मो कुन्दु:ते । ई हेके ? =लुवा ।
- ६६ ततंगा आ: लड़ांग लूडुंग याया आ: जड़ांग जूडुंग । ई हेके ?
=सीडीज् ।
- ६७ मोएंग दरंगा सितिलते लूलूंग पोडोब । ई हेके ? =नूनू ।
- ६८ चोना भेरे सोबरे सोबरे ला: डेना भेरे दीरोम बो:, अनु चोल
सीखो:ब भाँई बावन बीर । ई हेके ? =बुनूई ।
- ६९ अखाड़ किनीर ते रूसूंग ओरेज हांकन्देता । ई हेके ?
=मन्दड़ी ।
- १०० अखाड़ किनीर ते एनेम पोटा: किड़ो: गरजेता । ई हेके ?
=ढेञ्जांग ।
- १०१ रेंगोल दारू ते पसाना गन्दरी कडोंग कतीब ताकी । ई हेके ?
=ढेञ्जांग रो लेबु ।
- १०२ ञ्जेलूडा: कडोंग हीड़ो कोंगते । ई हेके ? =चू:ची ।
- १०३ ओसेल गोएज लोप्रो: ते करहूनी बाअ: बीडते की । ई हेके ?
कागज रो सिहाई ।
- १०४ अखड़ किनीर ते मोएंग बेटी ईयामा: ईयाम । ई हेके ?
=रंहटा ।
- १०५ आपडोमा: ताय सेंग बेटडोम जोरमेता । ई हेके ? =तिमसोंग
रो मो: ।
- १०६ जोरमेना भेरे मेतीब ते जवानना भेरे जिहार ताकियार ।
ई हेके ? =खपरा ।

- १०७ हें:ते याया गिता:ना ईज हिले ताएँज । ई हेके ? =कुन्डु सोर
रो पा: सोर ।
- १०८ मुडुआ: डिारी एनेम तेड झाडीया: मोन ऊन भोरेता । ई
हेके ? =पेए: ।
- १०९ रानी बेटिया:माला तोयना पालेम । ई हेके ? =लेढा जांग ।
- ११० अपडोम बेटडोम भकूवा ला: चपल ते पोनयोर । ई हेके ?
=मुरुन खोंच ।
- १११ सीयू रे सीयू चपल ते जीयोम । ई हेके ? =घांस ।
- ११२ ऊलटी चपल पलटी चपल ठेऊना चपल उसलोग्रो: चपल ।
ई हेके ? =गाय, बछरू, चुका, लेबू ।
- ११३ साय डोईर आ: मोएँज गा थोका । ई हेके ? =पेईठ ।
- ११४ मोएँज कडांयबोगा: भी:तर ते कोमांग बहेर ते पंजरी, बोकोब
ते चुन्दी । ई हेके ? =गुगुं: ।
- ११५ साय भाईया: चपल मोएँज गा । ई हेके ? =रोसडोम ।
- ११६ योयसे मां इंजां: अकील मेटा: तोमोड ऊमींग योसी: तेऊजो
डींडा तेगा ३६० ठो कुन्डु: =कुम्हार ।
- ११७ सीलो:ना भेरे पांच भाई पटा कडना भेरे दाश भाई=
अनरगी रो अंगरी ।
- ११८ हान चोलकी हान डेलकी =नाजेर ।
- ११९ साय लरंग मोएँज का भोंम्पा । ई हेके ? =पेईठ ।
- १२० तुमसिंग अंगरीया: घोल ऊबर ठांग चरखा, ओडो: मोएँज
कोलहू । ई हेके ? =तुमसिंग दिनो आ: घोल ऊबर लेंरग,
मोएँज मेमोन ।
- १२१ मोएँज बुढा साल ते मेसोनगा बरछा धो: के मु:ता । ई हेके
=फुटकल सा: ।
- १२२ मोएँज बुढा साल ते मेसोनगा बोकोब केए:तारो मुऊ:ता ।
ई हेके ? =कोरको:टा लुकू ।
- १२३ चीनम ला: चीनाम, मेसोन थुडाय दुधेम । ई हेके ? =ताला ।
- १२४ मोएँज दारु ते खोता: खोता । ई हेके ? =खोंच ।
- १२५ घुसुर २ पोडोंग । ई हेके ? =लुतुई तँजना डोंगी ।

- १२६ मोएँज तोम्बा एनेम कोयोः हिलेता । ई हेके ? =सोलोः पत्ता ।
- १२७ सोब आः काटा गेबता मुदा चंची आः काटा ऊम गेबता । ई हेके ? =ओलेंगजुड ।
- १२८ ईज डेलताईज भेरे आम चोलतम । ई हेके ? =बेड़ो रो लेरंग ।
- १२९ भाड़ी याः जोल किआः ताय ईंआः जोल केलोम आएज् । ई हेके ? =तेरोम ।
- १३० ठींग बीरू ते राईचुनी वाः बेलेंगता । ई हेके ? =ऊलूई ।
- १३१ किनिर मोभी ते ओसेल ओरेएज् तोल तोलाः तोल तोल । ई हेके ? =कुसर ।
- १३२ मोघेर खासी ओसेल एज्म । ई हेके ? =गोलंग ।
- १३३ मेयाः ता नो कोकोः योः कोकोः योः गामते । ई हेके ? = नधा पैना (तुर्मासिग लुवांग) ।
- १३४ मोएँज दाह ते लवाः लवा । ई हेके ? =राः राः ।
- १३५ मोएँज बुढ़ा खरोम गोसोः के डोकोसिःता । ई हेके ? =रकसा ।
- १३६ मोएँज मड़ते कोंसड़ों जंग आः कोंसड़ों जंग । ई हेके ? =तुयुईज ।
- १३७ मोएँज किनिर ते डुबनी मड़ल । ई हेके ? =लेरंग ।
- १३८ बरिया बेटा मुसानिगतेगा जन्मेता कियर मुडुः कोनोन भेरेगा भारो गोः ते, मूडू महाता ताए भारो गोःते । ई हेके ? =तरन ।
- १३९ रिसी सिकोयाः पेनेर ते अपडा तेरते । ई हेके ? =ऊमडा ।
- १४० लोरोः भेड़ी इकुड सेबोल । ई हेके ? =कोमडोल ।
- १४१ गोएज गोएज भेड़ी हुमसाएते । ई हेके ? =चपुआ ।
- १४२ वीर वीरी टुकूते मोएँज कन्डायबोः ओः वाय सीःई । ई हेके ? =रोमोंग ।
- १४३ तेनतेम पातर भांभी ते इडिब भेरे अमाः आपनोम योते । ई हेके ? =मुरुन रो बुगाम (महुआ और साँप) ।
- १४४ मोएँज रेंगार दाह ते डेजना कोन्डेज जो ऊम खूपेता । ई हेके ? =लोंगोय ।
- १४५ मोएँज केन्डोरबो जोरमेना २ बोकोबकेः सीःता । ई हेके ? =तपकार, जराः ।

- १४६ मोएँज कुवां ते ऊबर मोधे डा: अबता । ई हेके ? =अण्डा ।
१४७ तोबलूंग ते ऊडछूंग तूता ते कुईऊ । ई हेके ? =हुका रो चिलम ।
१४८ चोनम ला: चोनम ईज ते मेलय टुयेम । ई हेके ? =पाँज ।
१४९ कोनोन भेरे लुतुई सुते महाता ताय उम सुते । ई हेके ? =कोलेड, कोंडेग ।
१५० जोरमेता भेरे मोलोय एकड़ी सोंगती, ओडो: जवानता भेरे ऊबर अंगरी, केन्डोरबो:ता भेरे मोलोय एकड़ी सोंगती । ई हेके ? =लोंगोय ।
१५१ पखा ते योता योता डा: पभरेता । ई हेके ? =तेनतोन ।
१५२ तोबलुंग ते थोका तुता ते अण्डा । ई हेके ? =मुएन ।
१५३ इ:फोन कुलम ते उनबार केहड़ी तेरसी: मोंय । ई हेके ? =साड़ी ।
१५४ मोएँज ओगा: मोएँज गा खुन्टो । ई हेके ? =कुरुड ऊड ।
१५५ मोएँग टुकु ते ऊबर ठांग तोरेंग डोको सी: । ई हेके ? =लुतुर ।
१५६ लोरो: भेड़ी दुरा दुरा बुलीता । ई हेके ? =गाली ।
१५७ मो:भी कुयु डा: छलकेगा चोलता । ई हेके ? =बहेर ते साधुगुड ओडो: भी:तर ते कपटी ।
१५८ लोरो: टेटंगा इकुड सेबोल । ई हेके ? =कोमडोल ।
१५९ सोबा: ओमी सुन्दर सुन्दर ईजां: ओमी लोरो: । ई हेके ? =पाको ।
१६० किनिर चोलकींग लुकू ओं:खोएज रा: रा: ओं:खोएज, चेपटी कोनकुय ते मेलाय टूयोएज । ई हेके ? =पाँज ।
१६१ मुडु:आ: ती: धो:ना बोंग गा भाड़ीया: कुसु कोंगता । ई हेके ? =पे: (भात) ।
१६२ मुडु: केन्डोर बोगा: मो:भी कुन्डाब ते चुन्वी । ई हेके ? =ताराजू धो:ना केके: ।
१६३ मोएँज जीयोम अडीया: ओ: तेगा गो:ते । ई हेके ? =घोघां
१६४ जोलोड जोलोड बारू कोकों गूड लूकू । ई हेके ? =कोमडोल ।
१६५ बेरोडना बूढा तुजे । ई हेके ? =जूता ।
१६६ अखड़ किनिर ते मोघेर बा: बेलोंगता । ई हेके ? =लारो: लुकु ।
१६७ मोएँग सोरेंग ते डा: पभरेता । ई हेके ? =ऊरूम डा: रो सोमोंग ।

- १६८ खसखसा सोलो: अनंत सेबोल । ई हेके ? =कनठडा ।
- १६९ मोएँज बड़ोम लुतुई एडते ला: को ऊम पालते । ई हेके ?
=गुडभूंग ।
- १७० नंगोमआ: लुतुई गेबता, अनिय: ऊमगेबता । ई हेके ? =चपूआ ।
- १७१ ठवठा लुकु गुरता भेरे मुडु बेटा बदके खोलता । ई हेके ?
=कायर ।
- १७२ रूसूम कुन्दरी ते कौवा: ठोठकायते । ई हेके ? =लूवा ।
- १७३ मोएँज कन्डायवो: मूडही रोओगा रो:गा डोडते । ई हेके ?
=मेरोम लेंडी ।
- १७४ मोएँज बेटा चंटडी ते किन्द्रेय: किन्द्रे । ई हेके ? =कैची ।
- १७५ एबना से ऊम कुईना, भा:पोना धावे ऊम इसिन ना । ई हेके ?
=ऊलूई ।
- १७६ मोएँज गा सुम्बो: सायगो लरंग । ई हेके ? =पेईठ गोडभूंग ।
- १७७ जबान कोनघेरआ: लेपोड दूरा । ई हेके ? =तरवाईर आ: खोली ।
- १७८ मुडू बुढा मोएँज गा भड़िया बोंग ओ: बायते । ई हेके ?
=कुसर ।
- १७९ तुताते ओल्लोंग तोबलूंगते कांड । ई हेके ? =गुंगु: ।
- १८० मोएँज रानीया: हड़का युअ:ना ऊम पालता । ई हेके ?
=ओरतोनी: लूकु ।
- १८१ मोएँज तपकार दारु ते हांथी ओ:ना ऊम पालो: भेरे कोतोबलूंग ते ईजू गोथो: । ई हेके ? =वरंगा ते आवकी ।
- १८२ सोब गेबकी पोटीम ऊम गेबकी । ई हेके ? =जाम्मी ।
- १८३ मोएँज लेबू ओल्लोंग सायना चोर्लासखो: ला: सायना भेरे रोमोंग साय डोमकी । ई हेके ? =धंसना तोबलूंग ते आवकी ।
- १८४ गायते ओोन गोथो: की गोंयठा ते राम ओलो: को । ई हेके ? =तेरोम ।
- १८५ मोएँज बेटा कोनोन भेरे रा: रा: सुते, बुढाभेरे तरवाईर ओखोडते । ई हेके ? =कोडाएजू ।
- १८६ कायर दारुते रूसूंग लुतूई, योय से बुढी ईञा: तमसा । ई हेके ? =मरची ।

- १८७ ऊलागा: पोटोम, मास आ: टांगना । ई हेके ? =घोड़ेग ।
- १८८ मांडोम, बेडोम आ: मोएज् का जिमी । ई हेके ?
=ईरिन ।
- १८९ ठाक ठुक^१ बुड़ा दाशठो काटा तीन ठो बोकोब । ई हेके ?
=गाड़ी योब्रना रोसिलो:ना ।
- १९० बरो ठो भाईस छन्दे यअ: छन्दे । ई हेके ? =चरखा ।
- १९१ अम्पे दाश भन तेऊजो ईज तेगा बोतोंगतापे । ई हेके ?
=किड़ो: ।
- १९२ बाप रे बाप बोकोब बोंग फो:तींग भ्रो: दुरानाईज खिड़की ते
यारो: । ई हेके ? =जाल रो कडोंग ।
- १९३ बेटा बेटा भेरे एकला एकला, बुड़ा बुड़ीता मोंय भेरे भोता
भोता ई हेके ? =तुंजबोग ।
- १९४ मोएज् लेबु आ: गोटा जीरी पोटा । ई हेके ? =तिऊजा ।
- १९५ बेलोंग कुन्दरी ते कौवा ओ: ते । ई हेके ? =सांडसी रो कुटासी
लुवंग ।
- १९६ एब एब चुटिया लता गुडते । ई हेके ? =लुवांग ।
- १९७ कंडोड् आएजते सोबगा ओ:तेकी । ई हेके ? =चकरी रो
मासो ।
- १९८ धसना सितिल आ: लारो: बुदा जाआना पालेम । ई हेके ?
=सोलो: पता ।
- १९९ ऊबर टांग आपडोम् मांडोआ: बतीस ठो जिमी । ई हेके ?
=कडोंग ।
- २०० मोएज् कंडायबो: चपल ति: चाखना: ऊनते । ई हेके ?
=सोंगडा: ।
- २०१ रूट रूटू बकरा पे: ओ:ते डा: ऊम ऊडते । ई हेके ?
=घून, पिलबा ।
- २०२ आम ते योना चोलता ईज ते डोथो: की । ई हेके ?
=सोंगडा रो कंडोग ।
- २०३ पि:तोड़ो आ: लोटा भी:तर ते रूसूंग संग संग । ई हेके ?
=कुलाब ।

- २०४ मोएँज राजा लम लम डांगो: रो गामो: नो ई जनयार जो अ:पे तारे मुदा मास ओलेपे, ऊम्पे ओले ला: बोरोल बोरोलगा तिर्लिंग। ई हेके ? =खाजर आ: अंडवाईर डोम ते ओलो: की।
- २०५ बुडबक बुढा अजगर खेती डा: भी:तर ते' तोलो:। ई हेके ? सनई।
- २०६ मूडू कंडायबो: डांग ते फूडी बायते। ई हेके ? =कूदरूम लूकू।
- २०७ काठ सोरेंग ते खेती, डा: तिमसोंग ते तोलो:। ई हेके ? =कुम्हार आ: आवा।
- २०८ जेरी ते घाव जेरी ते कनला। ई हेके ? =जलो: हिड़ोआ भाव।
- २०९ लेंग डा: लेंग चोलता, टोटो डा: टोटो आवता। ई हेके ? =ओमपाय आ: रोकेड।
- २१० रुसूंग गुंज तूलूक तुम्बा। ई हेके ? =मरची।
- २११ मोएँज मांडोम आ: दास ठो कुन्डु:। ई हेके ? =रोसडोम।
- २१२ मोएँज बुढा तोबलुंग ते बान्धो कांगते। ई हेके ? =धनुषवाण।
- २१३ गिड़िगता भेरे महाता, लोगोंयता भेरे कोईलता। ई हेके ? =ऊरूम डा:।
- २१४ लोरो: जो बेस पिज पिज जो बेस। ई हेक पा: पा: जो बेस। ई हेके ? =गोलांग, कोलेज उजु:।
- २१५ मोएँज दारू ते मिठाईया: मिठाई। ई हेके ? =लूवा, तिडेल रो जरा:।
- २१६ तोबलुंग ते फीर, फीर, तूता ते ठाब। ई हेके ? =सेरिगा लूकू।
- २१७ मोएँज कंडायबो: खरोम आ: खरोम ईजते। ई हेके ? =चकरी।
- २१८ छिक छिकी कोनयेड आ: पोटा सेबोल। ई हेके ? =पपडा लूकू।
- २१९ मोएँज कंडायबो: धांधके लोब लोब आवता तेऊजो डियरता। ई हेके ? =करछुल।
- २२० मोएँज गूरता बारीया योते, पांच भन रामते की, मूडू जों:ते ला: मूडूगा सेबोल कुईते। ई हेके ? =लूकू, मोड, अंगरी, तोमोड लांग।

- २२१ ओसेल सोरेंग बो: ताय डोड टुये होतिज को ऊमिंग बोतोगना ।
ई हेके ? =पे: ।
- २२२ मांडोम रगोम चोलकी बेटडोम ओयेंगना चोसकी ला: मांडोम
गामते बाबु आपनोम आजे: ऊमजोब सी: हिनजे: जिबेम
ला: एंगनाईब । ई हेके ? =जिमी ।
- २२३ ठुपु बुढा बिलुंग बोरते । ई हेके ? =कायर ।
- २२४ मोएँज लेबु पांती पांतीगा संगोडता । ई हेके ? =लोंगोय ।
- २२५ बहेर ते जेलू भि:तर ते जांग, हिनकड़ा: भि:तर ते मास ।
ई हेके ? =कायर कूह ।
- २२६ एँठा भेड़ा: मोएँज कुटिया मास होकड़ ओ: मेसा बुलीता ।
ई हेके ? =घोंघां ।
- २२७ मोएँज बकरा ते कुन्डाबसींग तीज खुटायतेकी । ई हेके ?
=सो:लुई ।
- २२८ मोएँज लेबू आ: लाएज बेसोगा: बेसो आवता । इडिबतानो
चेपोड सी:ता । ई हेके ? =काआ: ।
- २२९ साय सिकराईत मोएँज जनधार तारो: की मास बयो: की
ला: मांस को ऊम पुरेकी, भेरे मुनिंग चेटुआ धो:ता धो:ता
चोलकी मांय । ई हेके ? =साय गोड़वा रो गोन्डलो: ।
- २३० रगदायो: ऊईगञ्जो: टोंका ते लगाय गोठो: । ई हेके ? =चु:ची
रो सु:त्रोम ।
- २३१ हेजड़ायो: लगायो:, बेस ला:की भेरे को जपीड गोठो: । ई हेके ?
=बेलेड बोंग लुतुर ताय ईजकोलोड ओएज तेकी ।
- २३२ उफे काटा उसलो: ते, मोएँग काटा तोबलहंग ते गामे गुरू
एनेम तिरिबा: डा: । ई हेके ? =सोलो: हाडा: ।
- २३३ मेटोंग रो भलहोंग भीत, उसलो: सेलहोंग । ई हेके ? =बा:
उनना छटका ।
- २३४ कोनके सु:त्रोम, आवना: ओ: रो फन्दा हेके । ई हेके ?
=बेन्दी या: जाल ।
- २३५ घोड़ा ईना तोंगोनकी, पान ईना लोरो: की, कोलोंग ईना
गेबकी ई । हेके ? =उमोएँ पलटायो: ।

- २३६ गोतिया डेलकी रो उबर ठंग खासी तरो: रो कोमांग तेको
जो: गोथो: मोएँ, मुदा हो खासी अरजो:ना चोलकी ।
ई हेके ? =बकरा ते खबसी: यो:की ।
- २३७ मोएँग बेटी कुईजकी २ रो ओगा: कोना ते लेडना चोलकी ।
ई हेके ? =एण्डी ।
- २३८ बिरूआ: पोड़ोब, डागा: ओरसिंग बुड़ा बुड़ी मोएँगा, कामु
ते कामु ताकियार । ई हेके ? =मांजाय कडोंग रो लेबु ।
- २३९ लुकु तोबल्हंग ते डा:, डा: तोबल्हंग ते तावा, तावा तोबल्हंग
ते तिमसोंग । ई हेके ? =हुका ।
- २४० डा: तोबल्हंग ते ओसेल बेलेड, मोएँग गा काटा, ईंग गामते
साधु लेबु, सर कामु डोम जीयोम तारना । ई हेके ?
=बंगकलुई ।
- २४१ केन्डोर बो: ते कण्डायबो: घिसड़ाय ते । ई हेके ? =ओ: लुण्डा ।
- २४२ राँची ते बिगुल पेएडतेकी, डुरूण्डा ते कोन्डेंग हिलेता । ई हेके ?
=सोलो: भभरू ते भेरे पता डोम हिलेता ।
- २४३ मोएँग कोनथेड पता डोम बींग डा: उडते । ई हेके ?
=ललटेन रो डिबरी या: साईरता ।
- २४४ रा:ता कदम, लुकु:ता केरा । ई हेके ? =पको: लुकु: ।
- २४५ उघाय जुघाय बेतोड बेर आईज बेरनो कहियो उम बेसोता,
ई हेके ? =तिमसोंग ।
- २४६ आपनोम ई चोलकी बोई, लो:खा ते लो:खा तेरना । ई
हेके ? =मुरवर तिलना ।
- २४७ आम ईतम बोई, मडोम ते गोरोड तिग कुन्डु: डोम ते डेंग
तिग । ई हेके ? =रहड़ी भा:टा दाईल डोम ।
- २४८ रुसूंग कुईयु रुसूंग डबनी । ई हेके ? =सुबडूर लुकु ।
- २४९ बोकोब ताय ती:, ती ते रोमोंग । ई हेके ? =हाथी सोँद ।
- २५० माडोम डोठो: चरा, ला: चरा जो:खो कुन्डु: ते । ई हेके ?
=कनहार रो बिलोई ।
- २५१ तुम्बा पा:ता मुदा टांगना उम तेएजता । ई हेके ? =जिामी ।
- २५२ भुन्डु तोबल्हंग ते खुनटो, खुनटो तोबल्हंग ते खोता, खोता
तोबल्हंग ते अण्डा । ई हेके ? =हुका ।

- २५३ उला: ठुमपु, लुकु भेलोब । ई हेके ? =मुनगा ।
- २५४ आता ओम्पाय हेके आते नो डा: उम लेंगेता आता बिरू हेके, आते नो दारू उम पोड्ता आता गोडभूंग हेके, आते नो लेबु उमाँए संगोडता आता सोमदोर हेके, आते नो जहाज उम चोलता, उजे मोंएग कयोम बोंग बताय =नकसा हेके ।
- २५५ मोएंग कोन्थेड कुलंग कलेड ओम्पाय सितिल ते अरञ्जो:ता होकड़ा सोंड सोनोरा:, पता बोंग डा: उडते । ई हेके ? =दियोम ।
- २५६ जांग जोरोमता, रा:रा: उम जोरोमता । ई हेके ? =लोईन सा: ।
- २५७ उला: खस खसा, लुकु लाडु, बेर उम कोंगे: हिनकड़ा आप-डोम भकुवा । ई हेके ? =डाहु लुकु ।
- २५८ हारियार डा: आवकी, भोरे आवकी कमड़ा अंगकु कोन, लाल बाबुआ: बाड़ी ते तोंगोन सी:खो: । ई हेके ? =जोनठरा ।
- २५९ डंग उमिंग कोंगते, सीता पीता, ईगते लाएजा: चिता । ई हेके ? =बेतोड ।
- २६० तोबडा: बुईडा: भोंईस, हो भोंईसा: टीबरू एकड़ी कुन्दु: । ई हेके ? =कनठडा ।
- २६१ मोएंग कंड़ायबो: अकाय सेलहोंग डा: ते डुबेता मु:ता । ई हेके ? =बान्सी ।
- २६२ संग संग: रंग ओ:ना गट गट यो:ना बोंग पिईतोडो आ: लोटा । ई हेके ? =कुलब लुकु: ।
- २६३ बेर कयोम लो:ना लामते=पेईठ ते बंडिया ।
- २६४ बेर ते कोरोब आवना बेस लाता=सुरूम ।
- २६५ बेर लामते मुरडा: =माली ।
- २६६ बेर लामते गिांडंग=धोबी, कुम्हार, रो ची:को ।
- २६७ रौनी डुरूंग ते सौनी कपिलते=गोने रो लांग ।
- २६८ ठुचुक ठुचा कोना ते लेडता=डुरूंग न एण्डी ।
- २६९ तुनबो: ते कुचटंग, ईडिब ते बेलडोम=भेन्तु ।
- २७० मुरदारया: ऊ:फे गोठांग काटा गो: गो: लेबु वा: काटा उम्बो: योयो लेबु या: बोकोब उम्बो: =टेटंगा, बुगांम, खांखड़ा ।

- २७१ बेरोड ना पातर की बोकोबके: ना। ई हेके ? = गोंगडिंग कुईऊ ।
- २७२ चोना भेरे सोबरे सोबरे डेना भेरे दिरोम दिरोम महाबीरते आतु मेलाय टुईयोब । ई हेके ? = लेबुआ: ईज ।
- २७३ सेंगघोर ला: सेंगघोर, चपल तिईज केन्हेल । ई हेके ? = कुंवा लाईठ ।
- २७४ बहेर ते जांग भी:तर ते जांग । ई हेके ? = भाण्डा ।
- २७५ हांथी या: ओ:ते मँना चेरे बेरे । ई हेके ? = आवना: ओ: ।
- २७६ ठाप ठाप बोकोबते ठाप, जेलोंग ते बुलिना बेर अपनोम ईडुऊ: यो:ते । ई हेके ? = मुरून रो बुगाम ।
- २७७ कोनोन मोनोन डोभा बंगकुलुईया: सोभा: । ई हेके ? = वियोम ।
- २७८ ईडिब मँया डा: तेगा, होकड़ा जांग जो उम्बो: कोमांग जो उम्बो: मुदा कामु डोम तार वाईरा: एडो: डा: तेगा आवता । ई हेके ? = कुम्हार रा: लो:खा डे:ज २ सु:त्रोम ।
- २७९ साधे लोभे सोंगोएज कुन्डर्बासितिइज खुटाय गोठोएज । ई हेके ? = खोमसो ।
- २८० थाम पेरोंवा थाम ठो इंग, ओ: भी:तर चोलके मोएँग गा रंग । ई हेके ? = पान ।
- २८१ कि:ते कोबसु ते, थोरेक डियारता भेरे किईजता ते बेस ला:ता जब सोब डियारता भेरे । ई हेके ? = कड़म (चुरी) ।
- २८२ संग संग: रंग जो:ना गट गट, योना पि:तोड़ो आ: लोटा । ई हेके ? = कुजब ।
- २८३ गिता: नम ला: गिता: नम इंग ते लगाय डोड़े । ई हेके ? = कबटो ।
- २८४ छाव जीयोम उफे राग घोलबर मो:ड, एकड़ी गोठंग काटा: । ई हेके ? = बिलोई रो मर गा: मोएँग राग, साँड ओरेज रो किड़ी: गा मोएँग रांग, घोड़ा रो चीला: मोएँग राग, सोबा मिले कोन घोल उबर मो:ड, रो एकड़ी ठांग काटा: होईता . . .
- २८५ रातो: आवकी उतना गोठो:, हिले न भेईर हिले गोडकी, एडोओ राबतो: टुईयो: रो चोलकनकी । ई हेके ? = लेबु पडसोर हिनते संगसंग रिठो: ।

- २८६ उतना गोठोएज भेबलोबफोएज, चेपुडठोएज रो फोंगटा नोमते लगाए गोठोएज । ई हेके ? = दरजी लुतुई सुते ।
- २८७ बेरोड तँजडेम तेऊ चोनेंग, बेरोड गोडकीम तेऊ जो चोनेंग, बेरोड कान डोको: सी:डेम तेऊ चोनेंग मुदा, गिता: नाम ला: उर्मिग चोना० । ई हेके ? = बेटीया: ननु ।
- २८८ होकियार जो आपडोम बेटडोम, ईञ्जार जो आपडोम बेटडोम उफे गोठांग कोलोंग ते ञोखो:ले गोटा २ । ई हेके ? = आजाडोम, आपडोम, बेटडोम उफेया आवकी मोएँग ।
- २८९ उकड़ा कोनघेर ईञ्जा: कोनघेरते आपा गामते । ई हेके ? = किनकर डोम रो आराम डोम आवकी कियार ।
- २९० ठुमपु, भेलोब, भोंम्या उ:फे चा:खना । ई हेके ? = मुनगा रा: २ लुकु रो सा: ।
- २९१ चोना चोना ते घोल ऊबर काटा: उबर रा:गा मोएँग राग । ई हेके ? = खटनही ।
- २९२ तेनते तेनते गुच्चु ते तेनते, डा: भी:तर ते आपनोम ईडु: यो:ते । ई हेके ? = जता कडोंग ।
- २९३ बोकोब मड्या के आता मुझी डा: उडते । ई हेके ? = हुक्का ।
- २९४ रूसूंग डांड़ा: उसलो: ते खुपे की, थ्रोसेल डांड़ा: साहेब बोंग लाड़े की । ई हेके ? = सकरकन्दा पोड़ोब रो रूपिया ।
- २९५ कोनोन मोनोन लुतुई कोसोर ना उम सोएजते । ई हेके ? = लांग ।
- २९६ कुईयोब ला: योतेम ईते । ई हेके ? = तो:भूंगना रो फो:ना ।
- २९७ मोएँग मुम्बो:, ईफोन गोएजलो: तिमसोंग ते तोलो: डा: बोंग सहिया । ई हेके ? = गाय तोमलेंग रो मोहीं ।
- २९८ उम जो लूकुता, उम जो रा:ता तेऊ जो सहार २ ओबसोंग डोमता । ई हेके ? = बिलूंग ।
- २९९ कोनोन मोनोन टुईया, उसलो:ते पाटकागोडना उम जो पा:ता उम जो पि:जता बाह रे टुईया । ई हेके ? = कसैली ।
- ३०० पुडछुड २ बेस पैसा कामु ना, आतु चोलतम पुडछुड, कलकत्ता यनी । ई हेके ? = बोरा ते रुमक़ब चालनतेकी ।

- ३०१ तुता ते खुंनटो, तोबलूंग ते तोलो: होते खेती, डा: डेलता ला: ईयामता किसड़ो । ई हेके ? = कुम्हार आ: चाक ।
- ३०२ उतर ताय डेलकीम बुढा, चपल बोंग गो:तेम । ई हेके ? = ईजथांग आ: लेबु (उरुआ) ।
- ३०३ उबर काटा ते जुंग गोठो:, धो:ता २ फोंगटाते सजायो: घसर घसर तारो: बेरोड की रो चोलकनकी । ई हेके ? = चकरी रो लेबु ।
- ३०४ रूसंग खासी जांग मोघेर, एजाम डा: गुड ज्यो:ना ईकुड सेबोल । ई हेके ? = तरबुज ।
- ३०५ रा: रा: मेहे, आमते आता रा: रा: बेस । ई हेके ? = सिडि:ज रा: रा: ।
- ३०६ बाजा मेहे अमा: घड आता बाजा बेस । ई हेके ? = ओखड़ी बाजा ।
- ३०७ कोनोन मोनोन दारू, छत्ता लेखे उला: बेर होकड़ा मोरोम कोंगते होकड़ गा के:जना पालते । ई हेके ? = कुम्हारा: चाक ।
- ३०८ ई डांग ओखोड् डोम, ई तिल तिल, आना बेग कड़ा रेमा: तेज । ई हेके ? = डांगबोदी रो आरू रो बोईटी ।
- ३०९ ओसेल घोड़ी या: चपल ते लगाम । ई हेके ? = चु:ची ।
- ३१० मुडु गन:ड रो डाली धो: धो: गा आवता । ई हेके ? = घांस अरज्यो: तकी जीयोम ।
- ३११ बेलोम बड़ोमकोय गोदड़ेगा गुरता । ई हेके ? = ईईज ।
- ३१२ ई:फोन मो:ड उबर ठंग ठुंगड् इडिब मेया: तारते । ई हेके ? = ठोड़कोब ।
- ३१३ कोसोर दारू ते बेलोंग ज्यो:खो:ले, डेना भेरे को उबार काटा बोंग बरिया डेल कीजर । ई हेके ? = तेरोम छोड़ायना दारू डेब की ला: गुर गोडकी भेरेको सांगो डोम तेंगो: झोलोझो: रो डांड़ाआ: तुञ्जी:गा डेलकी ।
- ३१४ होडोम दारू होडोमाअ: बकला होकड़ा: तोबलूंग ते बुढा बन्दरा कुईजता । ई हेके ? = नगेरा ।
- ३१५ जाईत जाईत ते कोलेज, होडोम जाईताअ: तोमोड कूंगता । ई हेके ? = घना लुबंग रो चेपुआ ।

- ३१६ सोबरे सोबरे चोर्किंग, होको गोर्डाकिंग राम चन्वर गुर
गोडकी तब बेस लाःकी । ई हेके ? =लेबुः ईज ।
- ३१७ घोल उबर खजर उफे गोठंग काटा, अरओःताकी जुदा २ ।
ई हेके ? =लेरंग रो मेमोन ।
- ३१८ मंगरी डुरुंगते धंगड़ी कपिलते । ई हेके ? =गोने रो लांग ।
- ३१९ रूनु भुनु केन्दोर नंग कोमांग ओलना चोलकी, मोएंग चटकन
गिल गोड़े की दाईया केन्दोर नंग लटके गोडना दाईया ।
ई हेके ? =गुजूंग डाः ।
- ३२० जब आमः रोमोंग नोमते, डेब नंग, ओडोओः उबर लुतुर
नोम ते धोंगिंग लाः आम ते सोब कायोम ते बताय गोडिंग ।
ई हेके ? =चसमा ।
- ३२१ ईफोन भाई ईफोन पोडोब, ईफोन भाईगा उनबर ठांग ओःखोः
मोएँ । --खटी पावा रो गाता ।
- ३२२ मोघेर बाबु किनिरते आवता रुसंगडाः उडते नाबब बोंग
लडता । ई हेके ? =सेएः ।
- ३२३ ईंग ते बदला ना आम ते मंग मोंग ते की । ई हेके ?
=बिलंग मोंग के साः बदला ते की ।
- ३२४ चिर चिट्टी गोने गुमुल, हूमपेर गोडना लिबरे बेरोडता ।
ई हेके ? =पेंडेड ।
- ३२५ मोएंग जीयोमाः पता डोम ते पंसा । ई हेके ? =माराअः
भाईल ।
- ३२६ कातोर गुड् बोकोब, ईज डोम बिरू गुड् । ई हेके ?
=तोबडिर रो भुड् ।
- ३२७ तुता तोबलहंग पटी, हिनते ईंग, लेबु योयिंगलाः कोठा डियार
नंग । =कुल्लु ।
- ३२८ कोकोड़ मोकोड़ बलेड पंजरा डोमते मोओड । ई हेके ?
=खंखड़ा ।
- ३२९ मडोम खेड खेड बेईटडोम बेस । ई हेके ? =एरीन ।
- ३३० राजाः कौसा ओरेज डेडेंग बोंग तुजीगा मुःता =खंखड़ा ।
- ३३१ कुडवांग डोभा हेंगुरा ते पासा गोडना बुदनु कडोंग फच फुच
मःताकी =नगेरा ।

- ३३२ बेरोडना ठुंगकु आना कामू ना = पाथाः ।
- ३३३ लुपुंग गुन्डा ईकुड सेबोल = लेमेड ।
- ३३४ ए तिल तिल ई जुराः कुलूःतर आना सूःडाः गामोँएज जेएः । ई हेके ? = प्याज रो जुराः कन्डाराएज ।
- ३३५ तोबलुंग मांगते उसलोः हबकायते । ई हेके ? = कुदड़ी रो कोन्डेएज ।
- ३३६ बोरोल भेरे जोखोः ले जांग, बेलोंग भेरे जोखोः ले उसल । ई हेके ? = लारोः लुकूः ।
- ३३७ लुकू ना भेरे मोएँग २, बेलोंग भेरे भोम्पाः । ई हेके ? = कुयु आवा ।
- ३३८ दांवनाहा बाःछा दांवं न उम पलता, अराई डांङाः रामना उम पलता = किडोः रो बुगाम ।
- ३३९ उडूल सितिल खोखसोः दारू, मोःभीते दोढ़री । ई हेके ? = मासोः लुकु ।
- ३४० रूसूंग बावु हाहा हूह । ई हेके ? = मरची ।
- ३४१ भेलोव केंगरा ईघाय डाः डेलता होमने गा तेज = डोंगा ।
- ३४२ एनेम ईसिन कुयु ओले = तुम्बा ।
- ३४३ ईःफोन डेडेंग भेड़ा ओले = (खटी) ।
- ३४४ कोनडोए याः तोमलेंग ओले = तेरोम ।
- ३४५ मोएँग दारूते चुःची याः चुःची = पुटकल साः ।
- ३४६ मोएँग कन्डाराएजाः देहटोम गा उम्बोः = अण्डा ।
- ३४७ बोरोल इकुड, गवरल लामना उम कुईता, बेलोम तेको बेर जो उम पुछायते = जुवान बेटी ।
- ३४८ ओसेल बकरा भीत पाटका । ई हेके ? = जोतें ।
- ३४९ बारो मडोम तेरो तेली तेरो ठो कोलोंग ते गोटा २ जोखोः की । ई हेके ? = मोएँग तेली याः जिामी तेरो तेली आवकी ।
- ३५० बड़ोम बेटाः लाएज भीःतर ते कोन्थेड आवता । ई हेके ? = लुधा, जराः लाएज भीःतर ते लुती आवताकी ।
- ३५१ तार तोले तरपत तोले, तोलेरे खेःजा २, रो आना चीनाम सरोंगगा = चरखा रो पोन्योः ।

- ३५२ उःफे चोलता घोल ईफोन काटाः बुःभीतमलाः केन्डोर आना
गोनमेर नोम, ओडोः उम बुःभीतमलाः केन्डोर धाय एगनाम
नहियार । ई हेके ? = बुढा बुढी आवकी कियार (सौऊडोम,
साऊडायडोम) रो मोएँग घोड़ी आवकी, रो सौऊडायडोम रो
घोड़ी जिरी० ते आवकी कियार, लाः अङ्किराः ईफोन काटा,
कुन्दुऊगाः उबर, सोब जुमायना धांवे टिबर काटा होईना, रो
घोड़ी रो लाएजाः कुन्दुः उबर ठांगा तोमसीग काटाः सोब
जुमायना धांवे घोल ईफोन काटा होईता ।
- ३५३ मडु लेबु गोड्भूंग संगोडना लाःकी, लाः दारु बोःते डामकी
भेरे को छत्ता ओडेफोः, डाः बोःते डामकी लाः जुता सुईयोः,
बताय ईना होघय करायोः = तोबल्हंगताय कोन्थेङ् ईजे गामके
लोगोए नाः थोंग दारु बोःते डोकीकी भेरे छत्ता ओडेफोः,
ओडोः डाः भीःतर ते जुराः ईडुः आवना गामके जुता सुईयोः ।
- ३५४ हजारो, हाजार सर्वांगिया कामू ताकी मुदा गोड्भूंग ते धुड़ी
उम कुहड़ता = गोंडलोः ।
- ३५५ तोबल्हंगताय गुरकी चोचा, लाः गुचुः डोमते नोचाः तेकी । ई
हेके ? = तार लुकु ।
- ३५६ गुंजा ओःते मोएँग खुंटो । ई हेके ? = छत्ता ।
- ३५७ लोबरोः डाः ते उडना धांवे कडोंग टुसमें खोरता = गोंलग ।
- ३५८ कोसोर दारु ताय डाः पभरेता = जोल तोनना पटाः ।
- ३५९ उसलोः डालडोमता लाः ओलोंग गोडता रुःडोमता लाः पातर
गोडता = मोःड् रपीडना ।
- ३६० भाड़ी सिनी गोसोडता मुदा मुनगा सिनी उम गोसोडता
= बुनुईयाः चोमले ।
- ३६१ बोरोल कड सुरुमते, लाः गोएज २ कड रेमाःते = ओरेज रो
ठोडकोब ।
- ३६२ मोएँग बेटा पुडता २ बोकोबकेःते = पेः उलुःता ।
- ३६३ रोकेड् लेखे एनेम भूस्ताः रुमकुब = बिलूंग ।
- ३६४ महाराजा अडियाः राईज्यते भङ्गीयाः ओः बुलीता = रूपिया
(राजा मुरुत) ।

- ३६५ मोएँग कोन्थेड उम आण्डा ते मुदा कुन्डू: ते = भवडिब ।
- ३६६ रूसूंग ओरेएज कलोब ओ:ते मुदा डा: उडते ला: गोएज गोडता = तिमसोंग ।
- ३६७ ईआ: उबर ती: आईज मुदा रूमंग नंगते जीबना उमंग पलते = घड़ी ।
- ३६८ टिबरू गोंठंग भाई मुदा मोएँग गा चपल = अलीडू ।
- ३६९ मोएँग कान्डायबोगा: मञोंग ते गोने = खंखड़ा ।
- ३७० मुडु कड् ईफोन गोठंग मुडुब मडायगा डोडते = घोड़ा कोनकुई
- ३७१ रूसूंग, ओसेल बगा: भुस्ता: घुरलो: उम्बो: = पैसा रो रुपैया ।
- ३७२ तोबलूंग को चिकंडो: जोबना को रूद रूदु = बेलोंग कायर ।
- ३७३ मोएँग लोटा: डा:ते उड् मोएँना उम पलता = कयोम ।
- ३७४ लेबडोम को जांग तिईज नो कोमांग तिईज मुदा ओओ रो: धौ धौ = काईया: ओओ (काईपोटोम) ।
- ३७५ दंग दंग बनाय हुडुबते = कोने बभायना जाता ।
- ३७६ उडुल सितिल डेंकुलंग सी:डेम मो:भी कुन्डाबते पता = तराजू ।
- ३७७ सोब पिईज् र जोडे डोमना, मुदा मोएँग ते जोडेना उम पलत = कुयु रो तुम्बा ।
- ३७८ भिबररी वारू आअ: लोंगोए उम्बो: = तरदी ।
- ३७९ थोम सींग डांटी, घोल गोठंग खूनटो बडोम ओनते जाल = लुंडी डोएजना ।
- ३८० भड्डी ओओ तेकी मासाला, धुंडीया: मासाला रो तोबडा: बर ओ:ते = लुबंग ।
- ३८१ मोएँग थारा: कसली कोलना पलेम = सिनकोम ।
- ३८२ मुडुऊ कड् ईडिबते बुमडिम आवता (तारगन) तुनबो:ते लेमेडता = सोलो: ।
- ३८३ मोएँग चुका:ते बोदो दाईल = गोने ।
- ३८४ मुडुऊ कड् जोरमे तानो डोकोता = खपरा ।
- ३८५ मोएँग बुंगांमा: उबर ठंग बोकोब = अरगो: ।
- ३८६ तावा ते ओसेल रा: रा: कुईजना = लवा गाएजना भेरे पुंडूऊता ।
- ३८७ मोएँग महूरा कोनसेल गोठयते भेरे को मोएँग रंग, काएजते । भेरे को कईक बरन = सिगंकोय अण्डा रो कुन्डुऊसिंग ।

- ३८८ मोएंग कान्झायबो: पातार तनां श्रोसेल सिगकोए पटकातेः-
खरोम फेकायते ।
- ३८९ आतु चोलतमरे रूसूंग चपल, आतु जो उम्बो: रे बाना :-
बन्दरा रौ किडो: ।
- ३९० चट-लगन चढ बिहा बंहार (जल्दी)तुरते ओओ बायतेः-तोबडिर
- ३९१ होडोमा: कुन्डु: होडोम कड़ ओडेंते रो बुईते कोईला: कुन्डु
ते कौवा: बुईते ।
- ३९२ बोरोल भेरे मोएंग जिमी, गोएजता ताय बरने बरन जिमी-
कोन्डेगं ते डेएज के कईक ठो साजु बायतेकी
- ३९३ राटा: पटा: सोबते डा: तुडा: डोड्ना पलते मुदा डाईना: चुका:ते
तुडा: डोड्ना उमपलते केन्डोड्
- ३९४ मोएगा लाता ते उबर ठंग बंगांम कुईजता कियार = ओखड़ी
ते बोहा डुरूंग तेकी ।
- ३९५ डांडा: बोंग चहे चटकन बोंग किईजते गिलेम तेऊजो मोएंग
श्रोरेएज उम बेरोड्ता मुदा लतियाय गोडना धंवे तुरते बेरोड्ता
=ठेंकी ।
- ३९६ जौओना, उडुना धांवे सोबा: लाएज महां गोड्ता मुदा मुडुऊ
कड़ लाएज बेसू जौ: गोड्ते मुदा लाएज डोम हो आ: हों
गा आवता:-तुम्बा रो कुईउ ।
- ३९७ सोबग एनेम खोदिया सुसु सेंघोरडा: संगोड्ताकी मुदा मुडूऊ
कड़ एनेम खोदिया सेंघोर संगोड्ना उम सोएजते=कोम ।
- ३९८ तोबलहुंग ते लेंगता की होकी, उसलो: ते संगोड् ताकी, रेंगे ताकी
होकी सोबगा आड्किया: कुन्डुऊ ते यो:तेकी, मुदा मुन्डु कड़
अडिया: कुन्डुऊ गा: रूमंग यो:ना उम पलते=बुंगांम रो टेटेंगा ।
- ३९९ पान्दरा भाई आईज मोए, मोए कोलोंग ते चौदा भन खन्डा,
खन्डा जौ: तेकी मुदा चुटअड् कड़ गोटा कोलोंग जौओते =
लेरंग रो पान्दरा ठो दिनो चौदह तो: लेरांग खेन्डो आवता
मुदा पुनियोम मुसांनग गा आवता ।
- ४०० मुडु: कड़ जौ:ते ईजते, मुदा होकड़ा लाएज गा उम्बो: डेज
=रांहटा रो जाता ।

- ४०१ ञोःनाः घड सोबा तोमोड आईज, मुदा मुडुः काडाः तोमोड गा उम योःता=दारू की जूःड बोंग रसस डिगतेकी ।
- ४०२ जहां जेः डेएजना धांवे कोनोन ता रो बोंगता मुदा मोंएग ते डेएजना धांवे ओडो महा ता=गःघाः ।
- ४०३ सोब बुगामाः बोकोब रो पता कोंगता मुदा मोंएग बुगामाः बोकोब रो पता आजे हेके उम कोंगता=अरगोः ।
- ४०४ मुडुः काड ते गिलतेकी तोब डाः उबुड तेकीउमलाः एनेम गिल डाः उमाएंतेरते=लुवंग, अलसी, कोन्डेज कीते पञ्चाय कोन पनियाय तेकी ।
- ४०५ मोंएग मुःठी सोब बेलडोम आईज कोलना धांवे ओईरगा उम कुईता=सिनकोम ।
- ४०६ भकुआः कुबड़ी घोड़ी, मुडुः डेबता लाः लंगड़ी, बरिया डेबता कियार लाः सेंघोर चोलता=अरगोः ।
- ४०७ राजाः तिजाः लाःधे न पलेम=अण्डा ।
- ४०८ मुडुऊ कडाः चपल ते ललटेन=भाग जोगनी ।
- ४०९ मुडुः कड पता डोमते चुःची उनते=बिछी ।
- ४१० योःए से मां ईञ्जा, आकिल, बेटाः तोमोड उमिग योःसीः तेऊ जो डिन्डा तेगा ३६० ठो कुन्डूतिग=भीत कीते ओः बायते कुम्हार ।
- ४११ उबर उकड़ी कन्डाय, होकियाः मोंएगा कोडपुडुः=गोःभूग रो पेईठ ।
- ४१२ तोंगोन कोन्थेड ते डेएजतेकी, रो पेनएर डोमते उचडाय गोडते की, उसल डोमते जो फेकाय गोडतेकी, कोसोर ता ताय सोंगोल बोनेता मांस ठोमते जो फेकाय गोडतेकी, डाःते भेईर जोबतेकी=गुडोः कतारी ।
- ४१३ खोंडेएज जो गोटाः उम आवता, एनेम बुःभिगा दिनो धोःखो बोरे लाः तेरिंग ई, जुंमगे लाः बतंग ई=अडेल डाः ।
- ४१४ किईजता ते कोसु लाःता, थोरेक डियार ता भेरे, किईजता ते बेस लाःता सोब डियार मोंएता ताय=चूरी, रोकडम सुना ।
- ४१५ मोघेर आईज मुदा कीता उम्बोः पेनेर आईज मुदा बेल्लेड उम्बोडेज=भदडीब ।

- ४१६ मुडुः कड़ाः तीः रो गुन्दुः मोंएगा = कठखोली कोन्थेड ।
- ४१७ मुडुः कड़ाः कुदड़ी रो तीः रो तोमोड मोंएगा = किल किल कोन्थेड ।
- ४१८ मोंएंग बेंटी गोटा जेरी सोनोर सुःते = पोठाः कडोंगाः चोएआ ।
- ४१९ लेंगताकी चाहे उमोएं लेंगता संगोडताकी सोबगा अपन २ कुन्दुः ते अलर दुलार बोः उनतेकी मुदा कड़ अडिया कुन्दुड ने कुईते लाः तार गोड़ते = अन्दरा मराः ।
- ४२० मोंएंग छटका गिडिंग साहा तेकी, भोरती आवता मुदा जेःरीब तेकी तुर डोम गोडता = लुनुई उनना हड़का रो बोकसा ।
- ४२१ ठुपु बुढा बहेर ते जांग भीःतरी कोमांग = कुलम लुकुः ।
- ४२२ मोंएंग वारु ते इडिब २ डेएज गोडना जनापतर तेगा तूंगलिईज गोडता = भुडुः ।
- ४२३ मुडु राजा एनेम वारु एनेम खुन्टो भंडियाः ओः बायते = तोबाडिर ।
- ४२४ मुडु कड़ मुसंग निईज रो मुसंग तिईज लुवंग उनते = सोसोः लुकू ।
- ४२५ सोब ते डाः रो जोल बोंग ईबसिन तेकी मुदा बुंगांम चारा ते रोकेड बोंग ईबसिन तेकी = गंगाई लावा ते रोकेड बोंग गाएज तेकी ।
- ४२६ गुड़गुड़ हका गुड़गुड़ चिलम बोरते बीजोम, सर चीःको काना = डाः गिमते, भेरे गोएजलोः बिजोम बोरते ।
- ४२७ संगीपुर ते सुरूम चोलकी, गातापुर ते धोःडोमकी उसलोः ते फंसला होईकी, लाईतपुर ते तारडोमकी = तोनकेड् ।
- ४२८ जे मजा उम आवकी कामू न भेरे, हो मजा आवकी योःडोः न भेरे = कोललंम बेटा बेंटी किराः अलर दुलार (प्रेम)
- ४२९ मोन ते दुःखो होईकी, मोःड ताय डाः गिमोः, डाः चोल की कानौजदुर = मोनाः फिकिर (दुःखोः) ओडोः रोमोडअः डाः ।
- ४३० लेबु ते लेरे होईकी, रातोः गुर की, सेंघोर गुरकी, तेऊ जो पोडता सोब बीजोम = बाः जहांगय गा गुरता मुदा पोडता ।
- ४३१ दुनिया ते आता पण्डित हेके, बेरनो तोमोड् बोंग लुकु ते जोःते रो तोमोड तायगा ईजते = भदडीब ।

- ४३२ आव गोडकी चिन्हा, थोपी ठोःकी, डोको गोडकी हनतिईज उतिईज मुंएग२ नाकी=येथु लेबु ठोःडाः कयोम कुईते, तेउ जो लाः सीःता ।
- ४३३ दुनिया ते कुईना धांवे उम गोएजता=माईन मरजव ।
- ४३४ दुःखो ईते तारना उम पालते=जिमी ।
- ४३५ अवकींग इंग किनीर भांखोःइ ते परोकिग जब सजन याः तिःते आठो आंग ते मचिया डोबको योःकी, हरे इजांः ज़ीरीते सोलोः डिगते=सेइरगा ऊलाः पतड़ी ।
- ४३६ खोता बेलते मगर अण्डा उम करायते=सोःलुइय ।
- ४३७ राजा याः गगरा बेबरोडना पालेम ? =चुंगडाः ।
- ४३८ मुईंग कोनसेल डुः भेनतू भोरे कुन्दुः ते=पोडो दारू ।
- ४३९ मुइंग कचीया याः गूडो रुमकुब, जोल सोंग घोले=गूडो कोलोग ।
- ४४० मांडोम बेटाडोम श्रोमपाय लांघेना लाःकी कियार, बेटडोम मेग लांघे की, मां डोम गामोः आता ठाडो ते आपनोम गोञासीः हिन ठाडो ते धोःके इगते लंघाय=ज़ीमी ।
- ४४१ सएः अन्डा लेखे जाग दारुं बड़का महा=कदम ।
- ४४२ घोल उबार हाथ गोहार, एक हर घोड़ी उम सेःता=नुनु ।
- ४४३ लिमीट गुंडा बड़ा सवाद=लेमेड ।
- ४४४ सब चिज ताय ई चिज सेबोललाःता=बेतोड् ।
- ४४५ धरती ते सब ताय बेराः कुन्दुः सुन्दर=अडीयाः कुन्दः ।
- ४४६ मांडोमा ज़ीमी रो बिटडोम याः ज़ीमी मुइंग गा बेटडोम याः ज़ीमी डमरु, ऊ कायोम ते गाम डोडे बाबू तोबे बेबरोडेम कंवरु=कुपुंग तोबलुंग ताय बुन्द गुरकी उसलोः होयकी अण्डा ऊ कयोम ते गाम डोडे कोनसेल तोबे बेबरोडेम भान्डा=अडेल ।

APPENDIX

कबतीबकड़ कीते मदैत तेरो:मोय हिन खड़िया किया: ज़ीमी :—

अंधु भगत	रकमसेरा
बुधु खड़िया	.	..	समसेरा
तोहा बिलुंग	.	..	ढेढौली
फिलिप डुंगडुंग	सलुबेड़ा
अगुस्तुस सोरेंग	कुलुकेरा
जोसेफ केरकेटा	कोएम्बा
सनिचर भगत	उमड़ा
बोअस तिरकी	बघिमा
जोगी महतो	उमड़ा नोवाटोली
जोहन किड़ो:	कैम्बा मुरुमटोली
यकुब किड़ो:	लौवाकेरा
काटे खड़िया	कालेंग
टेवा खड़िया	बमलकेरा
इलियाजर कुलु	जरगट्टा
मघु खड़िया	तरलोया
जुनास सोरेंग	जोकाड़ी



